



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2005 (आषाढ़ 25, 1927)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2005 (ASADHA 25, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2005

सं. 354, दिनांक 23 जून 2005—राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (80) के अधिकारी श्री पी. के. जेना को दिनांक 24 मई, 2005 के पूर्वाह्न से 23 मई, 2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. सी. लूथर

उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

(सेना शाखा)

सं. 355, दिनांक 28 जून 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट्स जोकि 12 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को 12 जून 2004 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 2/93 संशोधित सेना अनुदेश

12/96 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 12 जून 2002 से सेना अनुदेश 2/93 संशोधित सेना अनुदेश 12/96 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :—

यू/463 शांजमो नूली (आई सी 64285वाई) सिग्नल्स की वरिष्ठता यू/498 मोरे अमोल (आई सी 64284डब्ल्यू) ई एम ई के नीचे, यू/477 अभिमन्यु चीबा (आई सी 64312एक्स) इंजीनियर्स की वरिष्ठता यू/473 विशाल पाठक (आई सी 64313ए) इंजीनियर्स के ऊपर और यू/460 बासमसेटी महेश मनोज (आई सी 64357एक्स) इंजीनियर्स की वरिष्ठता यू/501 जूनियर मुतुम (आई सी 64358ए) इंजीनियर्स के ऊपर प्रकाशित किया जाए, जिनके नाम दिनांक 09 अप्रैल 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट्स जोकि, 12 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93 संशोधित सेना अनुदेश 12/96 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व आदेशों प्रशिक्षण अवधि के लिये, जोकि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण के हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :—

आई एम ए सं., नाम, एस एस सं., आर्म/सर्विस, अल्पकालीन सेवा  
आयोग (परखाधीन) तिथि

यू/460 बासमसेटी महेश मनोज 40758पी, ईएमई, 15 जुलाई 2002

यू/463 शांजमो नूली 40756एच, सिग्नल्स, 31 जुलाई 2002

यू/477 अभिमन्यु चीबा 40770पी ईएमई, 18 अगस्त 2002

(अल्प सेवा आयोग)

ले. के पद पर

निम्नलिखित महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन)  
का छः मास का समय जोकि 17 सितम्बर 2004 से शुरू हुआ था, पूरा कर  
लिया है। उनको उसी तिथि 17 सितम्बर 2004 से ले. के पद पर पांच वर्ष के  
लिये अल्प सेवा आयोग सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता  
है।

डब्ल्यू एस नं., नाम, आर्म/सर्विस

00923एल विद्या नायर, ए.डी.ए.

00924एन आरती मलिक, ए.एस.सी.

00925डब्ल्यू अर्चना, सिग्नल

00929एम मनोजिता शंकर, ए.ओ.सी.

00931के मितापल्ली रूपा, इन्ट.

00932एम दारूवल्ला अर्नावाज केरसी, सिग्नल

00933पी दिव्या गौड़, ए.एस.सी.

00934एक्स शुभ्रा सम्बयाल, ए.ओ.सी.

00936एच रत्ना मलिक, ए.डी.ए.

00937एल मेघा छिब्बर, ए.डी.ए.

00938एन सपना राठी, इंजीनियर

00940एल अमरिन्द्र कौर, ए.एस.सी.

00941एन प्रीति कंवर, ए.ओ.सी.

00942डब्ल्यू शालिनी कंडारी, ए.ई.सी.

00943वाई सरिता सांगवान, ए.ओ.सी.

00944एफ शिवानी त्यागी, इन्ट.

00945के कौशिक नंदिनी अरुण, ए.ई.सी.

00947पी नेहा सिंह, ए.डी.ए.

00948एक्स अनुराधा मुलासी, ए.डी.ए.

00949ए नम्रता दसमाना, ए.एस.सी.

00950पी तनुश्री बनर्जी, ई.एम.ई.

00954एल रोमाना खान, ए.ओ.सी.

00956डब्ल्यू मेघा माथुर, ए.एस.सी.

डब्ल्यू एस नं., नाम, आर्म/सर्विस

00957वाई शालिनी भंडारी, सिग्नल

00958एफ कुलकर्णी कंचन सुभाष, इंजीनियर

00959के एस. गोमती, ए.ओ.सी.

00960वाई के. सी. जीना, जे.ए.जी.

00961एफ सपना रानी, ए.एस.सी.

00963एम दिव्या गर्ग, ई.एम.ई.

00965एक्स नेहा भाटिया, इंजीनियर

00967एच एस. इसवरी, इंजीनियर

00968एल पुखिन्द्र कौर, ए.ओ.सी.

00970एच रुचिका, जे.ए.जी.

00971एल नीता बानिक, ए.एस.सी.

00972एन अपर्णा गुलाटी, ए.एस.सी.

00974वाई नवनीत कौर, ए.ओ.सी.

00975एफ डौली, ए.एस.सी.

00977एम ज्योति, ए.ओ.सी.

00978पी संगीता, ई.एम.ई.

00979एक्स श्रीदधा अर्पन जैन, ए.एस.सी.

00980एम इमान, ए.डी.ए.

00982एक्स ज्योति गुप्ता, ए.एस.सी.

00983ए काजल किरन सिंह, ए.एस.सी.

00984एच श्वेता प्रभाती, ए.डी.ए.

00985एल लता शर्मा, ए.ओ.सी.

00986एन पूजा घिलदयाल, ए.ओ.सी.

00987डब्ल्यू संगीता कुमारी, ए.एस.सी.

00989एफ पारूल चौधरी, इंजीनियर

00990डब्ल्यू अमनदीप कौर सैम्बी, इंजीनियर

00991वाई वर्तिका पाण्डेय, ए.ओ.सी.

00992एफ अन्नु डोगरा, जे.ए.जी.

00993के डोलास दीप्ति प्रकाश, ई.एम.ई.

00994एम शाम्भवी सिंह, इंजीनियर

00995पी मनीषा जखमोला, ई.एम.ई.

00996एक्स आकृति गीतांजली प्रकाश, इन्ट.

सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत निम्नलिखित महिला अधिकारियों को विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) ले. के पद पर उनको 05 अप्रैल 2004 से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत 17 सितम्बर 2004 से प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 17 सितम्बर 2002 से वेतन तथा उन्नति के लिये उपरोक्त सेनानुदेश के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

डब्ल्यू एस नं., नाम, आर्म/सर्विस

00926वाई पंकजा ए. कुगाजी, ई.एम.ई

00927एफ नेहारिका भारद्वाज, ए.डी.ए.

00928के मेघना राजेश्वर, इंजीनियर

00930एफ रिशिता आचार्या, ई.एम.ई.

00935ए नटराजन सुचित्रा श्रीनिवासन, सिग्नल

00946एम नेहा रावत, सिग्नल

00951एक्स मीनाल चौहान, इंजीनियर

00953एच प्रादन्या कुलकर्णी, इंजीनियर

00962के जे. विजया कुमारी, ई.एम.ई.

00973डब्ल्यू बोरेड्डी संचामित्रा, ई.एम.ई.

00981पी ज्योत्सना वेनाल, ई.एम.ई.

00988वाई जाधव चारुशिला मधुकर, इंजीनियर

00997ए विष्णू कविता सी., इंजीनियर

एस. के. शर्मा  
ले. कर्नल  
सह सेना सचिव 8बी

-----

सं. 356, दिनांक 23 जून 2005--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्रेणी 'ग' के निम्नलिखित आशुलिपिकों को इस प्रभाग में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री राजबीर सिंह 01 अप्रैल 2005 से 30 जून 2005

श्री एस. पी. कपूर 01 अप्रैल 2005 से 30 जून 2005

श्रीमती सुखपाल वालिया 01 अप्रैल 2005 से 30 जून 2005

एम. सी. लूथर  
उप वित्तीय सलाहकार (स्था.)

नेवी ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं. 357, दिनांक 23 जून 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 24-02-2005 से 23-08-2005 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग ख राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं।

श्री एन. सी. साहू

श्री एस. बनर्जी

श्री डी. एस. शोकीन

श्री मानसिंह

श्री चन्द्र प्रकाश

श्रीमती स्मिता आहूजा

श्री टी. एन. मोंगिया

श्री भगवान सहाय

श्री मामचन्द

श्री नारायण सिंह

श्री आर. पी. सिंह

श्री भजन लाल

श्री डी. वी. आर्य

श्री वी. के. दास

श्री डी. एन. प्रभाकर

श्री एन. के. आहूजा

श्री मामन चन्द

श्री मोहन लाल

श्री एस. के. कर्दम

श्री वेद प्रकाश

श्री एन. एस. मदान

श्री महावीर सिंह

श्री कैलाश चन्द

श्री ठाकुर राम नाथ

श्री शिव कुमार

श्री वी. के. दास

श्री खुशाल चन्द

श्री यू.एस. भिन्डवार  
 श्री हेतप्रकाश  
 श्री रूप चन्द  
 श्री बी. पी. सिंह  
 श्री आर. के. साहनी  
 श्री जे. एल. लूथरा  
 श्री डी. के. प्रसाद  
 श्री टी. टॉनसिंह  
 श्री जी. सी. थपलियाल  
 श्री एस. एल. छावडा  
 श्री जी. एस. सहगल  
 श्री रामेश्वर प्रसाद  
 श्री सुभाष विश्वास  
 श्रीमती प्रमिला रानी  
 श्री सी. मोहंती  
 श्रीमती मीना के. रमाणी  
 श्री नीरज रंजन  
 श्री देबासीस प्रधान  
 श्री उदय कापट  
 कु. उज्जवल कौर  
 श्री रविन्द्र साह  
 श्री जे. पी. मीणा  
 श्री के. सी. ठाकुर  
 श्री वी. पी. अरोड़ा (सेवा निवृत्त) 28 फरवरी 2005 को  
 श्री एस. के. तुगनैत (सेवा निवृत्त) 31 मार्च 2005 को

ये नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती हैं।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित व्यक्तिगत सहायकों की निजी सचिव (वर्ग ख राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) के रूप में अस्थायी नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31-12-2004 से आगे 30-06-2005 तक अथवा चयन सूची में नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने अथवा उक्त व्यक्तियों के सेवानिवृत्त होने के समय में से जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपिक सेवा में, अस्थायी आधार पर बढ़ाते हैं।

श्री जुगनंदर कुमार  
 श्रीमती उमरामकृष्णन  
 श्रीमती अलका जलोटा  
 श्री डी. सी. शहरावत  
 श्री निरंजन सिंह  
 श्रीमती सुषमा खेरा  
 श्री डी. के. शर्मा

श्री रोविन सेहगल  
 श्री वी. चोकालिंगम  
 श्रीमती विनिता खरे  
 श्रीमती चन्द्रा नवलानी  
 श्रीमती पुष्पा बंसल  
 श्रीमती वीना कपूर  
 श्री सतनाम सिंह  
 श्रीमती रानी बलवानी  
 श्री एस. के. अरोड़ा  
 श्रीमती मोहिनी अगरवाल  
 श्रीमती संतोष तनवर  
 श्रीमती चित्रा दत्ता  
 श्री विनय ग्रोवर  
 श्री जी. एस. जस्सल  
 श्रीमती सी. के. ढिल्लों  
 श्रीमती मंजु साहनी

उपर्युक्त अधिकारियों को निजी सचिव के रूप में नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2004 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

- (क) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।
- (ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थायी नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए लिए गिना जाएगा।

सन्तोष दासगुप्ता  
 उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

-----  
 (थल सेना विभाग)

सं. 358, दिनांक 29 जून 2005-- थल सेना अनुदेश 15/79 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
 (अल्पकालीन कमीशन)  
 कैप्टन से मेजर के पद पर

डीएस-12019एल पी के बूरा, 01 दिसम्बर 2004

थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 11/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना  
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर  
स्थाई कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमान्डर के पद पर

डी आर-10435डब्ल्यू (एफ-23062) केका मैत्रा, 18 दिसम्बर 2003

आर सी धीर  
लेफ्टि जनरल  
डी जी डी एस

-----

सं. 359, दिनांक 27 जून 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

एयर कोमाडोर (व समकक्ष) से ए वी एम (व समकक्ष) रैंक में

जे के गुप्ता (एम आर-02662एफ) (वा. से.-12308ए), 01 दिसम्बर 2004

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) रैंक में

एस महापात्रा (एमआर-4492एफ)--11 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 मार्च 2004 से दी जाती है।

पी के सिन्हा (एमआर-03912के)--25 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 मार्च 2004 से दी जाती है।

डी चक्रवर्ती (एमआर-04385ए)--01 जनवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12 मार्च 2004 से दी जाती है।

के सी खण्डूरी (एमआर-04391एन)--02 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 मार्च 2004 से दी जाती है।

एस एस नवारे (एमआर-04523डब्ल्यू)--07 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17 मार्च 2004 से दी जाती है।

डी सी अग्रवाल (एमआर-04524वाई)--17 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।

वी के पोपली (एमआर-04392डब्ल्यू)--03 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 अप्रैल 2004 से दी जाती है।

एन सी अरोरा (एमआर-04336एक्स)--25 सितम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 अप्रैल 2004 से दी जाती है।

पी एस संतोष (एमआर-04021एन)--21 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 31 मई 2004 से दी जाती है।

एस के रथ (एमआर-03935एल)--12 दिसम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जून 2004 से दी जाती है।

योगेश चन्दर (एमआर-04525एफ)--16 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11 जून 2004 से दी जाती है।

के के बासप्पा (एमआर-04338एच)--23 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।

पी के भटनागर (एमआर-04068वाई)--25 दिसम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 जुलाई 2004 से दी जाती है।

बी के लाल (एमआर-04395के)--18 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जुलाई 2004 से दी जाती है।

एस सी पारीक (एमआर-04396एम)--08 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 29 जुलाई 2004 से दी जाती है।

वी के अरोड़ा (एमआर-04536एन)--25 सितम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है।

अशोक कौशिक (एमआर-05090डब्ल्यू)--31 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 30 सितम्बर 2004 से दी जाती है।

ए टी कालघटगी (एमआर-04649डब्ल्यू)--23 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।

पी के मूर्ति (एमआर-04851के)--08 अक्टूबर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।

अरुण त्यागी (एमआर-05294एच)--29 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 12 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।

ए के गुप्ता (एमआर-03857वाई)--09 फरवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है।

श्रीमती शुभा नागपाल (एमआर-03859के)--10 जनवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 08 नवम्बर 2004 से दी जाती है।

ए के नागपाल (एमआर-03869एन)--10 जनवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।

बी मुखर्जी (एमआर-03870एच)--19 जनवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 03 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।

एस सी आदिसेशिहा (एमआर-03893के)--24 जनवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 30 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।

एस के जयना (एमआर-03874वाई)--13 जनवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है।

आर मुरलीधर (एमआर-04544एम)--09 फरवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 21 जनवरी 2005 से दी जाती है।

पी एस सुकथानकर (एमआर-04400के)--05 फरवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 22 जनवरी 2005 से दी जाती है।

मेजर के पद पर

माचेरला विकासपाथी (एमएस-13703ए)(एमआर-08102एल), एएमसी--11 अक्टूबर 2003

अंकुर आहुजा (एमएस-14115वाई)(एमआर-08093पी), एएमसी--01 जनवरी 2005

कु. प्रीती (एमएस-14242एन)(एमआर-08095ए), एएमसी--09 अक्टूबर 2004

पी आर रथ (एमएस-13527एन)(एमआर-07517एन), एएमसी--08 मई 2001

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 मार्च 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अभिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान के पद पर

विशाल विक्रम सिंह (एमआर-08058एच), एएमसी--30 दिसम्बर 2004

आशीष कुमार शुक्ला (एमआर-08078ए), एएमसी--30 दिसम्बर 2004

अशोक कुमार (एमआर-08081ए), एएमसी--30 दिसम्बर 2004

अनुराग श्रीवास्तव (एमआर-08048एच), एएमसी--30 दिसम्बर 2004

राज रतन (एमआर-08060के), एएमसी--30 दिसम्बर 2004

अनन्त कुमार काटियार (एमआर-08062पी), एएमसी--30 दिसम्बर 2004

दीपक मिश्रा (एमआर-08072वाई), एएमसी--30 दिसम्बर 2004

शिवकुमार शर्मा

ब्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (पी)

-----

सं. 360, दिनांक 28 जून 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयनमान द्वारा) के मूल रैंक में

आईसी-25089एच, बी. के. शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-25680डब्ल्यू, यू. सी. चिब्बा, इन्फैन्ट्री

आईसी-25975एम, ए. एम. नेजारे, इन्फैन्ट्री

आईसी-27014के, विनोद सूद, इन्फैन्ट्री

आईसी-27036एच, पी. आर. जोशी, इन्फैन्ट्री

आईसी-27091वाई, ए. एस. संधू, इन्फैन्ट्री

आईसी-27255के, एस. के. रैणा, इन्फैन्ट्री

आईसी-27401वाई, नरेन्द्र शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-27831एच, गणेश शाह, इन्फैन्ट्री

आईसी-27961एल, एल टी. सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-27982एफ, ए. जी. एस. कोईजाम, इन्फैन्ट्री

आईसी-27993एन, डी. के. दुआरह, इन्फैन्ट्री

आईसी-30058एम, जे. एस. अहलावत, इन्फैन्ट्री

आईसी-30340एक्स, उत्तम सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-30345डब्ल्यू, एच. एस. तम्बीर, इन्फैन्ट्री

आईसी-30371एक्स, एम. पी. शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-30405ए, ए. जे. एस. बघावन, इन्फैन्ट्री

आईसी-30457डब्ल्यू, यू. एस. पर्व, इन्फैन्ट्री

आईसी-30472एल, एस. पी. त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री

आईसी-30479पी, ए. एस. बुधनिया, इन्फैन्ट्री

आईसी-30488डब्ल्यू, राजपाल मलिक, इन्फैन्ट्री

आईसी-30551ए, जी. एस. पाल, इन्फैन्ट्री

आईसी-30757एक्स, सी. आर. के. सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-30760एक्स, बी. के. जेसानी, इन्फैन्ट्री

आईसी-30775ए, एम. आई. अहलावत, इन्फैन्ट्री

आईसी-30874एच, एल. एस. नंदन, इन्फैन्ट्री

आईसी-30877डब्ल्यू, के. के. बोरा, इन्फैन्ट्री

आईसी-30888एच, नरेन्द्र पाल, इन्फैन्ट्री

आईसी-30902के, अमर सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-30923ए, एच. के. लाम्बा, इन्फैन्ट्री

आईसी-31091डब्ल्यू, एस. एन. उपाध्याय, इन्फैन्ट्री

आईसी-31133एक्स, आर. एन. अय्यपा, इन्फैन्ट्री

आईसी-31145एम, पंकज मिश्रा, इन्फैन्ट्री

आईसी-31188एफ, बी. एस. रावत, इन्फैन्ट्री

आईसी-31194पी, बालकिशन, इन्फैन्ट्री

आईसी-31204एन, टेकपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-31334डब्ल्यू, आर. एस. रावत, इन्फैन्ट्री

आईसी-31412एच, बी. भारद्वाज, इन्फैन्ट्री

आईसी-31425ए, आर. के. बरुआ, इन्फैन्ट्री

आईसी-31444एल, आर. सी. कटोच, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31469एक्स, डी. के. धिलदयाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31470एम, ए. के. गर्ग, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31734एच, वी. के. मेहता, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31738वाई, वी. के. रस्तोगी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31748एच, पी. जे. एस. अटवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31768डब्ल्यू, अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31774के, आर. एस. यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31822वाई, पंकज मेहरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31828ए, के. डी. एस. साहनी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31833एल, यू. शशीधारण, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31859ए, सी. एस. श्रीनिवास, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31897डब्ल्यू, डी. वी. मलिक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-31901एन, पी. एस. राव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-32755एल, पी. एस. कार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-32871एन, शर्मा रवि प्रकाश, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-33099एफ, आर. एल. यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-33392वाई, के. रमेश, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-33583एन, पी. एस. माही, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-33685के, तेजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-33835पी, तेजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-33851एन, विमल देवान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-33967एच, ए. एस. पटेल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34069डब्ल्यू, रघुवीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34115ए, पी. अग्रवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34124एफ, वी. एस. अहलावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34138एफ, जे. जे. कट्यडे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34192पी, एल. एम. पंत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34210एम, आर. एस. नागर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34244ए, उत्पल कुमार राय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34465एम, एस. एस. कदियान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34510एन, अजीत कुमार राय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34531के, अशोक माल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34540एल, एल. के. अचारी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34547पी, आर. के. सोनी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34573डब्ल्यू, राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-34602ए, एस. आर. उपाध्याय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34627एम, प्रदीप दीक्षित, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34637डब्ल्यू, सी. एम. हल्दर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34639एफ, बी. एस. रावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34754एफ, पिखेरसा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34794एच, हरभजनिक सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34874ए, ए. स्वेन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34883एफ, श्याम सुंदर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34903के, पी. के. शेटी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34934के, अचल सिंह भान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34951के, एम. एस. सालुंके, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-34983एम, कमल भल्ला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35012एन, विनोद गोपालन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35247ए, ए. कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35328ए, बी. एच. सुरेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35332एच, वी. के. कौशल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35342एम, डी. एस. संधु, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35368एफ, विनोद कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35381एल, अजय दूबे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35484के, मोहन दासन एन. वी., इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35495डब्ल्यू, नीरज मिश्रा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35531डब्ल्यू, पी. के. तमंग, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35536पी, ए. के. एन. श्रीधरन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35601के, एस. एस. दिबोल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35604एक्स, विजय सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35640डब्ल्यू, ए. एस. राणा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35674डब्ल्यू, जी. के. एस. कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35683एक्स, बलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35709एफ, सुरेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35744के, डी. एस. राणा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35765ए, पी. के. सक्कार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35771एन, एल. डी. उपाध्याय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-35787वाई, अजय यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-36002डब्ल्यू, एम. एस. पुन, इन्फैन्ट्री

आईसी-36009ए, सी. एस. सलारिया, इन्फैन्ट्री

आईसी-36084के, के. वी. ओझा, इन्फैन्ट्री

आईसी-36151के, एस. सी. झा, इन्फैन्ट्री

आईसी-36324डब्ल्यू, ए. के. गवशी, इन्फैन्ट्री

आईसी-36326एफ, ए. ए. जाधव, इन्फैन्ट्री

आईसी-36432ए, एस. सी. कटोच, इन्फैन्ट्री

आईसी-36433एच, बी. आर. कपूर, इन्फैन्ट्री

आईसी-36497एन, एस. के. दुबे, इन्फैन्ट्री

आईसी-36594एल, वी. के. सेठ, इन्फैन्ट्री

आईसी-36613एल, अवतार कृष्ण, इन्फैन्ट्री

आईसी-36658एल, एच एस. आर. एस. सिसोदिया, इन्फैन्ट्री

आईसी-36663डब्ल्यू, ए. एस. कटोच, इन्फैन्ट्री

आईसी-36696एफ, बी. श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री

आईसी-36740ए, राजीव कंवर, इन्फैन्ट्री

आईसी-36760एन, आर. सी. दुबे, इन्फैन्ट्री

आईसी-36761डब्ल्यू, एस. के. जोशी, इन्फैन्ट्री

आईसी-36767एक्स, ए. के. शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-36779एम, यू. एस. उपाध्याय, इन्फैन्ट्री

आईसी-36839डब्ल्यू, एक्स. एस. पिल्लई, इन्फैन्ट्री

आईसी-36840एल, बी. एस. बिष्ट, इन्फैन्ट्री

आईसी-36846एम, एन. एस. गुलिया, इन्फैन्ट्री

आईसी-36868एल, आर. एस. यादव, इन्फैन्ट्री

आईसी-36890डब्ल्यू, बी. एस. भुल्लर, इन्फैन्ट्री

आईसी-36901एक्स, सी. एस. मनराल, इन्फैन्ट्री

आईसी-36941वाई. अरविंद निगम, इन्फैन्ट्री

आईसी-36971डब्ल्यू, के. चौधरी, इन्फैन्ट्री

आईसी-37046ए, डी. के. थपलियाल, इन्फैन्ट्री

आईसी-37093एक्स, एम. एस. कंवर, इन्फैन्ट्री

आईसी-37095एच, जी. पी. एस. कटाल, इन्फैन्ट्री

आईसी-37103डब्ल्यू, आर. एस. बुचे, इन्फैन्ट्री

आईसी-37107एम, वाई. एस. चौहान, इन्फैन्ट्री

आईसी-37110एम, ए. के. सिन्हा, इन्फैन्ट्री

आईसी-37112एक्स, राय सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-37241एक्स, जगदाश चन्द्र, इन्फैन्ट्री

आईसी-37249के, के. एम. गणपति, इन्फैन्ट्री

आईसी-37253एम, इरशाद अहमद, इन्फैन्ट्री

आईसी-37286एक्स, आर. एस. बहल, इन्फैन्ट्री

--16 दिसम्बर 2004

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में

आईसी-37348 एस एस सांगवान, इन्फैन्ट्री--सब्सर्टेंटिव रैंक 16 दिसम्बर 2004 से परन्तु वरिष्ठता 31 दिसम्बर 2002 से

इस अधिकारी को एक्विंग रैंक पहले ही प्राप्त हो चुका है इसलिए इसका प्रभाव उनको वेतन और भत्ते पर नहीं पड़ेगा परन्तु उनकी वरिष्ठता को प्रतिस्थापित किया गया है उनके अगले कर्नल के चुनाव के लिए।

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान) द्वारा

आईसी-43209 राजीव गौड़, इंजीनियर्स, 19 जून 2003

आईसी-45043 अनुराग वोहरा, इंजीनियर्स, 26 अप्रैल 2003

आईसी-43207 एल मिश्रा, इंजीनियर्स, 19 जून 2003

आईसी-41787 दिलबाग सिंह, इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2003

आईसी-41092 राकेश कपिला, इंजीनियर्स, 18 जून 2003

आईसी-41188 सुभाष चंद, इंजीनियर्स, 18 जून 2003

स्थायी कमीशन (एस एल)

मेजर से ले. कर्नल

एस एल नं., नाम, आर्म

03317 पूरन चन्द, एसएलक्यूएम

03318 एस पी अवस्थी, एसएलक्यूएम

03321 साधू सिंह, एसएलक्यूएम

03324 ए एस हूडा, एसएलआरओ

03331 राजीन्द्र कुमार कटोच, एसएलआरओ

03332 रघुनाथ सिंह, एसएलआरओ

03333 शक्ति लाल, एसएलआरओ

03334 अतर सिंह, एसएलआरओ

03337 जार्ज वेदेयन के, एसएलआरओ

03338 कुलदीप सिंह, एसएलआरओ

03339 एम भरत भूषण, एसएलआरओ

03340 शंकर पिल्ले, एसएलआरओ

03342एस एस आर नमाना, एसएलआरओ

03343 बी एम तिवारी, एसएलआरओ

03344 पी के शर्मा, एसएलआरओ



03345 तरलोक सिंह, एसएलआरओ	03432 एस आर एन राव, एसएलएई
03347 डी एस पन्नु, एसएलआरओ	03437 मोहन लाल, एसएलएईसी
03349 हनीफ दीन, एसएलआरओ	03438 गनपत सिंह, एसएलएईसी
03350 जे बी राजेन्द्रन, एसएलआरओ	03439 भरत भूषण, एसएलएईसी
03351 एम वी राव, एसएलआरओ	03440 एन के गुरुंग, एसएलएईसी
03352 लखवीर सिंह, एसएलआरओ	03441 आर सतीश चन्दर, एसएलएईसी
03354 के बालासुब्रामनीयन, एसएलटीईओ	03442 के एस राठोर, एसएलएईसी
03357 बलविन्दर सिंह, एसएलटीईओ	03485 अब्दुल हामीद, एसएलटीओटी
03364 सी एस डिल्लन, एसएलईआर	04008 आर एस नायडू, एसएलएपीटीसी
03365 पी के घोष, एसएलईआर	04598 डी एस दुबे, एसएलआरओ
03366 एस चेल्लापाडियन, एसएलईआर	
03374 वाई सी लोहानी, एसएलएसडब्ल्यू	स्थायी कमीशन
03382 कुलवंत सिंह, एसएलटीओटी	मेजर ले. कर्नल
03386 रामफल, एसएलसीआईपी	आई सी नं., नाम, आर्म
03389 नीनान जोसेफ, एसएलसीआईपी	42750 करनजीत सिंह, ईएमई
03390 पी टी थोमस, एसएलसीआईपी	42751 एस के नंदल, इन्फैन्ट्री
03391 सुभाष चन्दर, एसएलसीआईपी	42752 सुभाष यादव, एडीए
03392 डी एस राठोर, एसएलसीआईपी	42753 बन्सी पोनप्पा सी, इन्फैन्ट्री
03393 रविन्दर नाथन के वी एसएलसीआईपी	42754 ए के नाथ, सिग्नल्स
03394 सी पी सिंह, एसएलसीआईपी	42755 पी के सेनी, मेक. इन्फैन्ट्री
03395 एस पी सिंह, एसएलसीआईपी	42756 विख्यात मारवाह, ईएमई
03396 प्रभात सिंह, एसएलसीआईपी	42757 वी एस मलिक, इन्फैन्ट्री
03400 जी भट्ट, एसएलएओसी	42758 एम जे कुमार, इंजीनियर्स
03401 दलीप चन्द, एसएलएओसी	42759 एस के लामा, इन्फैन्ट्री
03402 गुरचरण सिंह, एसएलएओसी	42761 केशव असवल, इंजीनियर्स
03403 एस एस रन्धावा, एसएलएओसी	42762 उमेश यादव, ईएमई
03407 जसवंत सिंह, एसएलएसए	42763 राजीव नेहरा, एससी
03409 के एस योहानन, एसएलएसए	42764 पंकज चौहान, इंजीनियर्स
03410 अब्राहम पी वी, एसएलएसए	42766 राजेश पुरी, ईएमई
03411 के रामाराज, एसएलएसए	42767 अनिल हुड्डा, एसी
03414 बलदेव सिंह, एसएलएई	42768 सलीम असिफ, इन्फैन्ट्री
03423 महेश कुमार, एसएलएई	42769 ए एस यादव, ईएमई
03425 ओ पी पंचाल, एसएलएई	42770 गगनदीप एस चन्नेच, एसी
03426 वाई पी सिंह, एसएलएई	42771 संजय सिंह, इन्फैन्ट्री
03431 थाथन रमन, एसएलएई	

--16 दिसम्बर 2004

42772 मुकुल सिंगल, एओसी	42809 किशोर चन्द एस, मेक. इन्फैन्ट्री
42773 एस के शर्मा, इन्फैन्ट्री	42810 सेजों वी के, आर्टी
42774 पी के जायसवाल, इन्फैन्ट्री	42811 बी एस शेखावत, इन्फैन्ट्री
42775 जयराम कुमार, इंजीनियर्स	42812 राकेश शर्मा, आर्टी
42776 पी वी रैड्डी, इन्फैन्ट्री	42813 सी वी अजय, इन्फैन्ट्री
42777 रवि आर पाटिल, आर्टी	42814 बी एन दूबे, एएससी
42778 आर एस शेखावत, मेक. इन्फैन्ट्री	42815 मानस कुमार दास, मेक. इन्फैन्ट्री
42779 योगेश कपूर, एसी	42817 सुधीर पालीवाल, आर्टी
42780 ए के सिंह, इन्फैन्ट्री	42818 हितेश कोहली, इन्फैन्ट्री
42781 उलास वी तालुर, एडीए	42819 दयानंद सेवल, एवीएन
42782 दीपक ओभराय, आर्टी	42820 सतिन्दर कौशल, इन्फैन्ट्री
42784 एस के माहापात्रा, इन्फैन्ट्री	42821 शरद शुक्ला, सिग्नल्स
42785 बेनसी पी याकूब, इन्फैन्ट्री	42822 कपूर सिंह, एएससी
42786 सुरिन्दर यादव, एएससी	42823 जे एस पनदीर, इन्फैन्ट्री
42788 जगदीप कुमार गोतम, आर्टी	42825 एस के नारायण, इन्फैन्ट्री
42790 हरित पंत, इन्फैन्ट्री	42826 शरद शुक्ला, आर्टी
42791 अशवनी चीमा, इन्फैन्ट्री	42828 जसबीर सिंह, एओसी
42792 अजय कुमार सूरी, एवीएन	42830 अजय चौधरी, इन्फैन्ट्री
42793 राजीव भोला, इंजीनियर्स	42831 रुपिन्दर सिंह, आर्टी
42794 सुचिन्द्रा कुमार एम वी, इन्फैन्ट्री	42832 प्रभात कुमार, इन्फैन्ट्री
42795 जलज भोला, सिग्नल्स	42833 गजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
42796 के सी पांचानाथन, इंजीनियर्स	42834 एन वी एस सुधाकर, इंजीनियर्स
42797 ए एस चाहिल, इन्फैन्ट्री	42836 गिरिश चन्द्र शर्मा, सिग्नल्स
42798 बलबीर सिंह, सिग्नल्स	42837 गुरविन्द्र सिंह भनडारी, एडीए
42799 संजय अनंद, एवीएन	42838 पी आर मुरली, आर्टी
42800 रणधीर माजुमदार, इन्फैन्ट्री	42839 वेथी सुरेन्द्र रेड्डी, आर्टी
42801 बी एस सन्धु, इन्फैन्ट्री	42840 संजय सिंह, इंजीनियर्स
42802 बिपुल चन्द्रा खन्डूरी, आर्टी	42841 एन एस दहीया, इन्फैन्ट्री
42803 हाजिफ खान, एडीए	42842 सुशील शर्मा, इन्फैन्ट्री
42804 एन एस राजपरोहित, एएससी	42843 रवि जलदीयाल, इन्फैन्ट्री
42805 रतन कुमार, आर्टी	42844 के एस महार, एओसी
42806 एस के झा, इन्फैन्ट्री	42845 अनित कोरा, इन्फैन्ट्री
42807 जे एस राजपरोहित, इन्फैन्ट्री	42846 एवीआर राओ, इन्फैन्ट्री
42808 परवीर बहुगुना, इंजीनियर्स	42847 के रामानंदा अचार्य, इन्फैन्ट्री

42848 रवि, आर्टी	42889 सुधेन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री
42849 देवेश चतुर्वेदी, इंजीनियर्स	42890 एस एस पोगत, मेक. इन्फैन्ट्री
42850 नारेन्द्रा सिंह, आर्टी	42891 कृष्ण मोहन, सिग्नल्स
42851 पी एन मोहापात्रा, इन्फैन्ट्री	42893 एन ए सीथी, एएससी
42852 अशीश जिंदल, मेक. इन्फैन्ट्री	42894 पीयूष अग्रवाल, एडीए
42853 गोतम ओवराय, एसी	42895 आर के जाह, एओसी
42854 जावेद हुसैन, एएससी	42896 जगदीश कारेगोदर, आर्टी
42855 दीपक कुमार, एएससी	42897 एच के पोखरियाल, इंजीनियर्स
42856 शापा शेशगिरी, आर्टी	42898 एम एम बर्मा, आर्टी
42857 जी एस कहलोन, इन्फैन्ट्री	42899 सहकश्र बालाचन्द्रा, इंजीनियर्स
42859 जोय चौधरी, इन्फैन्ट्री	42901 वी तनेजा, आर्टी
42860 शिवानंद जी मानै, एडीए	42902 देविन्दर सिंह, एसी
42861 मनोज कुमार, इन्फैन्ट्री	42903 एस पी एस बरार, आर्टी
42862 वाई एस मौर, मेक. इन्फैन्ट्री	42904 एन एस घुमान, इन्फैन्ट्री
42863 एस एस सदाशिव, इन्फैन्ट्री	42905 वी पी कुमार, एओसी
42864 एम सतीश राज, ईन्ट	42906 टी एस सन्धु, इन्फैन्ट्री
42865 एस एस बावा, आर्टी	42907 डी एस पोखरियाल, इन्फैन्ट्री
42866 वी के शर्मा, एसी	42908 आई एस कोहली, इन्फैन्ट्री
42867 धरमेन्द्र गुप्ता, इन्फैन्ट्री	42909 हरीश चन्दोक, आर्टी
42869 रवि मल्होत्रा, सिग्नल्स	42910 एन सी एलिस, मेक इन्फैन्ट्री
42870 बीराज सहाय, आर्टी	42911 अवनीश कपूर, एडीए
42872 पी के चौधरी, एओसी	42912 आर डी सिंह, इंजीनियर्स
42873 एस थापालीयल, इंजीनियर्स	42913 सुशील गुरुंग, मेक इन्फैन्ट्री
42875 एस के छीकारा, इन्फैन्ट्री	42914 राम एस गाबरी, इंजीनियर्स
42877 एस नंदा कुमार, इन्फैन्ट्री	42915 राज विजयेन्द्र सिंह, एएससी
42878 अरविन्द मोहन, सिग्नल्स	42916 के एम राओ, इन्फैन्ट्री
42880 अनिल बर्मा, ईन्ट	42918 एन के राय, एएससी
42881 सजय रिहानी, इंजीनियर्स	42919 मनोज कुमार, आर्टी
42882 प्रकाश एस पाटिल, इन्फैन्ट्री	42920 बीनु वर्गीज, सिग्नल्स
42883 आर एस रातरा, आर्टी	42921 रमेश यादव, ईन्ट
42884 ए डी टी एस गनानसिर, सिग्नल्स	42922 सुशील कुमार, एएससी
42885 संजय ठाकुर, इन्फैन्ट्री	42923 आदेश चोपरा, इन्फैन्ट्री
42886 जी के शर्मा, इन्फैन्ट्री	42925 बिनोय मथार्ड, ईएमई
42887 पी के चहल, ईन्ट	42926 बासकर कालीता, इन्फैन्ट्री

42927 अमरेन्द्रा पाण्डे, सिग्नल्स	42966 पाचीमोला शंकर, एडीए
42928 आई जी डोडामनी, इन्फैन्ट्री	42967 देविंदर कस्सल, इन्फैन्ट्री
42929 दुशयन्त कुमार, आर्टी	42968 जे एस छीकारा, इन्फैन्ट्री
42932 जे एस दलाल, इन्फैन्ट्री	42969 आर बी चोधरी, इन्फैन्ट्री
42933 संजय जोशी, एएससी	42970 एन के एस शेखावत, इन्फैन्ट्री
42935 राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री	42971 राजिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
42936 इज़ाज उल्लाह अनसारी, इन्फैन्ट्री	42972 राहुल पाण्डे, इन्फैन्ट्री
42938 सुनील मिश्रा, सिग्नल्स	42973 सुरेश कुमार, इंजीनियर्स
42939 शारत शर्मा, इंजीनियर्स	42974 अनूप वैद, एसी
42940 अज़ाद सिंह, एडीए	42975 मोहन सिंह, एओसी
42941 सुनील ए पाटिल, मेक इन्फैन्ट्री	42976 पी एस जुल्का, आर्टी
42943 एस के शुक्ला, इन्फैन्ट्री	42977 जी जी पामिदि, मेक इन्फैन्ट्री
42944 ए एस चाहर, इन्फैन्ट्री	42979 भूदेव कुमार, सिग्नल्स
42945 सुदांशु शर्मा, ईएमई	42980 सुधीर कुमार यादव, एएससी
42946 एम बी शशीधर, आर्टी	42981 डी डी पाण्डेरे, इन्फैन्ट्री
42947 सुरेश सिंह, एओसी	42982 पी पी चन्दोक, एओसी
42948 ए के सिंह, इन्फैन्ट्री	42983 ए के दत्ता, इंजीनियर्स
42949 राकेश कुमार सिंह, सिग्नल्स	42984 संतोष यूसफ, इन्फैन्ट्री
42950 टी के योसफ, ईन्ट	42985 एच सी सिंह, एएससी
42951 जे एस गराह, एएससी	42986 दिनेश कुमार, इन्फैन्ट्री
42952 चनजीत सिंह गाभा, इन्फैन्ट्री	42987 के एस राममोहन, इन्फैन्ट्री
42953 जी आर प्रसाद, आर्टी	42988 पी बी गुरंग, इन्फैन्ट्री
42954 प्रमोद कुमार ए, इन्फैन्ट्री	42989 माहिपाल सिंह, इन्फैन्ट्री
42955 जरनैल सिंह, एडीए	42990 एस एस रानोत, इन्फैन्ट्री
42956 सुनील कुमार आर आई, आर्टी	42991 विवेक भटनागर, सिग्नल्स
42957 शशींदर बी एन, इन्फैन्ट्री	42992 ए के शर्मा, सिग्नल्स
42958 हरी मोहन अय्यर, आर्टी	42993 के बी एस थानुअ, एएससी
42959 प्रमोद जे निनान, आर्टी	42995 ए के गुप्ता, इन्फैन्ट्री
42960 अविनाश ठाकुर, आर्टी	42996 जी के विद्यार्थी, इन्फैन्ट्री
42961 राजीव ठाकुर, एओसी	42997 ब्रजू लाल, ईएमई
42962 एन के चामोला, इंजीनियर्स	42999 हरिन्द्र त्रिपाठी, एओसी
42963 आर पी उपाध्याय, आर्टी	43000 सुबोध गर्ग, एएससी
42964 एस एस रान्धावा, एसी	43002 एस युवराज सिंह, एएससी
42965 विनीत किशोर, आर्टी	43003 संजय सहगल, इंजीनियर्स

43005 बिश्वाजीत सिन्हा, इन्फैन्ट्री	43043 एस के कटयाल, सिग्नल्स
43006 राकेश डी बहुगुणा, आर्टी	43044 आर के राना, इन्ट
43007 विश्वजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	43045 बिक्रम सिंह, आर्टी
43008 देवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	43046 एन जे सिंह, इन्फैन्ट्री
43009 अमरेन्द्र नारायण, एडीए	43048 एस शीवादासन नायर, इन्फैन्ट्री
43010 भुवनेश कुमार त्यागी, इन्फैन्ट्री	43049 यशपाल बलहारा, मेक इन्फैन्ट्री
43011 एस के शर्मा, आर्टी	43051 पी पी सिंह, एएससी
43013 एस के सिंह, इन्ट	43052 ए के पाण्डे, एएससी
43014 गोतम कालिता, इन्फैन्ट्री	43053 पी के धीर, इन्फैन्ट्री
43015 बी एस राठौर, आर्टी	43057 एम वी केशवा राओ, आर्टी
43016 संजीव शर्मा, मेक इन्फैन्ट्री	43059 लोबजंग नीमा, इंजीनियर्स
43018 पी के शर्मा, सिग्नल्स	43060 सुनील सिंह, सिग्नल्स
43019 विरेन्द्र तनेजा, सिग्नल्स	43062 अमीताव बोस, आर्टी
43020 अमर जीत सिंह, सिग्नल्स	43063 ए के शर्मा, इंजीनियर्स
43021 जी एस रावत, इन्फैन्ट्री	43064 निरंजन कुमार, इन्फैन्ट्री
43022 पी के एस भट्टी, इन्फैन्ट्री	43065 एस के गुप्ता, एओसी
43023 गुर अवतार सिंह, मेक इन्फैन्ट्री	43066 एस एस ललोत्रा, आर्टी
43024 जयदेव सिंह राना, आर्टी	43068 अतुल मारवाह, एओसी
43025 रवि भारद्वाज, एससी	43069 मनोज कुमार, एडीए
43027 सुदर्शन भारद्वाज, एससी	43070 एम् के बर्मा, एडीए
43028 ए के सिन्हा, इन्फैन्ट्री	43071 स्वामी कलेमंत, एएससी
43029 पी के चोहनल, इन्फैन्ट्री	43072 रमन मलिक, इन्फैन्ट्री
43030 रजीव धर, इन्फैन्ट्री	43073 रकेश रेना, इन्फैन्ट्री
43031 अमरीक सिंह, इन्फैन्ट्री	43075 सुखदीप भल्ला, एडीए
43033 जी एन रघुराम, आर्टी	43076 डी पी एस संधू, इन्फैन्ट्री
43034 नीरज श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री	43077 आर आर नायर, इंजीनियर्स
43035 रजीव बर्मा, एडीए	43078 संजीव दूबे, एएससी
43036 वी एस भटनागर, आर्टी	43079 सतप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
43037 देविन्दर यादव, इन्ट	43080 बी पी रटवाल, एओसी
43038 प्रवीन शर्मा, इन्फैन्ट्री	43081 जीएस बावा, मेक. इन्फैन्ट्री
43039 ए के रामानाथन, इन्फैन्ट्री	43082 आर ए खान, आर्टी
43040 एम बी पुन, इन्फैन्ट्री	43083 वी के शिवरैन, इन्फैन्ट्री
43041 आई बी एस मंगत, एओसी	43084 के पी सुधीर, एसी
43042 असीम भट्ट, इन्फैन्ट्री	43085 एस एस राना, इन्फैन्ट्री

43086 जोगिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	43124 एल डी वी प्रसाद राओ, इंजीनियर्स
43087 दिनेश कुमार, मेक इन्फैन्ट्री	43125 ए के चक्रवर्ती, सिग्नल्स
43088 अभय भटनागर, एसी	43126 प्रदीप सोफत, इन्फैन्ट्री
43089 हितेश भटनागर, इंजीनियर्स	43127 नरेन्द्र कुमार, एएससी
43090 प्रदीप कोहचर, आर्टी	43128 विश्वजीत मोदल, इंजीनियर्स
43091 वी एस एन वासीस्ता, इन्फैन्ट्री	43129 महेन्द्रा भटनागर, इन्फैन्ट्री
43092 रामफल, आर्टी	43130 जार्ज के वार्ड, सिग्नल्स
43093 संजीव कुमार सिंह, ईएमई	43131 जार्ज के पूनजाती, एओसी
43094 एस एस मान, इन्फैन्ट्री	43132 अनिल चावला, इंजीनियर्स
43096 आईजेएस चावला, आर्टी	43133 लोकेश शर्मा, एओसी
43097 के के श्रीवास्तवा, आर्टी	43134 संजय माथुर, आर्टी
43098 पी के झा, सिग्नल्स	43135 पी के मिश्रा, आर्टी
43099 वी एन भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	43136 एस एस राठौर, इन्फैन्ट्री
43100 अशोक एस पावार, एओसी	43137 संजय रावत, एएससी
43101 टी एस एस प्रसाद, सिग्नल्स	43138 राजेन्द्रन नाथर, आर्टी
43102 दीपिन्दर सिंह, एओसी	43139 अनिल सिब्बल, एडीए
43103 ललित कपिला, इन्फैन्ट्री	43141 एस कोठारी, आर्टी
43104 रवि चौधरी एन, एएससी	43143 के आर राजकुमार, इन्फैन्ट्री
43105 एस के भारद्वाज, आर्टी	43144 एस के दत्ता, इन्फैन्ट्री
43106 संजोय मोहन, आर्टी	43145 जय सिंह, एएससी
43107 वी के शोरी, आर्टी	43146 राहुल जोहरी, मेक इन्फैन्ट्री
43108 एच नाजमुद्दीन, सिग्नल्स	43148 ए के शर्मा, इन्फैन्ट्री
43109 एस के रॉय, एडीए	43149 वी कानन, एओसी
43110 पी जे लोरेन्स, एओसी	43150 दविन्दर सिंह, एमी
43111 महेन्द्रा सिंह जे झाला, इन्फैन्ट्री	43151 जी पी सिंह, एओसी
43112 ए के सिंह, सिग्नल्स	43152 के एस स्वामी, सिग्नल्स
43113 जी एस बेदी, इन्फैन्ट्री	43154 राजेश कुमार नायर, ईएनई
43114 जी एस गुरुंग, एसी	43155 सुरेश वी पी, एएससी
43116 एस के नागपाल, आर्टी	43157 एन पी सिंह, इन्फैन्ट्री
43119 अशोक मलिक, इंजीनियर्स	43159 अनिल गुलाटी, एओसी
43120 बोस के यूसफ, आर्टी	43161 हरजीत सिंह, आर्टी
43121 पी श्रीनगेश, एडीए	43162 टीकाजी, इन्फैन्ट्री
43122 एन एल करिया, इन्फैन्ट्री	43163 पी के पाठक, इन्फैन्ट्री
43123 राजन बक्शी, इन्फैन्ट्री	43182 के एन पाडा, आईसी

- 43203 जे के लक्ष्मण, एमएफ  
 43206 के एम उपाध्याय, आईसी  
 43210 बिनोद कुमार, आईसी  
 43214 सुभ्रामनीयम पालापार्थी एन एस एस, आईसी  
 43216 भानु प्रताप सिंह, ईएमई  
 43217 मोहन सिंह, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43218 पी एस मिनहास, एसी  
 43219 आलोक कक्कर, इन्फैन्ट्री  
 43220 एस पी एस सिद्धू, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43221 ए एस कन्दारी, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43222 भारत सिंह रावत, ईएमई  
 43223 आर के जाह, इंजीनियर्स  
 43224 जोन के जोन, एओसी  
 43225 जी एस शान, एओसी  
 43226 अशोक कुमार शर्मा, ईएमई  
 43227 आर एस सिंह, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43228 एम राजेन्द्रन, ईएमई  
 43229 तेजिन्दर सिंह, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43230 जे के सिंह, एसी  
 43231 एस एस जोहल, एओसी  
 43232 मोहित नोटियाल, इंजीनियर्स  
 43233 तीरथ सिंह सापरा, इंजीनियर्स  
 43234 चितकारा ए, एसी  
 43235 चाहको एम डी, इन्फैन्ट्री  
 43236 संजीव क्षत्री, इन्फैन्ट्री  
 43238 संजय रावल, सिग्नल्स  
 43239 हरिन्द्र सिंह, आर्टी  
 43241 आर एल हानागी, इन्फैन्ट्री  
 43242 एन एस शेखावत, एओसी  
 43243 एस राजा, इन्फैन्ट्री  
 43244 एम एस जोद्धा, एएससी  
 43245 एन एस राजा सुभ्रामनी, इन्फैन्ट्री  
 43246 एस के कुरले, सिग्नल्स  
 43249 एम के सगोव, इन्फैन्ट्री  
 43250 आर एन माथुर, इन्फैन्ट्री  
 43251 एस शर्मा, एडीए  
 43252 के एच गवास, सिग्नल्स  
 43253 राजेन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43254 एस एस काहलोन, इंजीनियर्स  
 43257 पी श्रीवास्तवा, एवीएन  
 43258 विजय भास्कर, इन्फैन्ट्री  
 43259 एस के एस पानवार, इन्फैन्ट्री  
 43260 एन के बर्मा, इंजीनियर्स  
 43261 प्रमोद कुमार, आर्टी  
 43262 ए अरुण, इन्फैन्ट्री  
 43263 एस के बालीवाल, इन्फैन्ट्री  
 43264 अलोक वत्स, आर्टी  
 43265 राजीव मिनोचा, एएससी  
 43266 आर सी खजुरिया, इन्फैन्ट्री  
 43267 वी के मैन्नन, आर्टी  
 43268 संजीव दलाल, इंजीनियर्स  
 43269 एन एस कहलोन, सिग्नल्स  
 43270 जी एस सन्धु, आर्टी  
 43272 आर वी सदोत्रा, एएससी  
 43273 ए सामन्त, इन्फैन्ट्री  
 43274 एस गोपीनाथ, इन्फैन्ट्री  
 43275 एम एस तोमर, एसी  
 43276 संजय कपूर, आर्टी  
 43277 राजेश भूकर, आर्टी  
 43278 अरुण सराफ, सिग्नल्स  
 43279 सुमेर सोबती, आर्टी  
 43280 आर एल पातरो, इन्फैन्ट्री  
 43281 राकेश राणा, एसी  
 43282 अनुराग चन्द्र, इंजीनियर्स  
 43283 जगदीप दहिया, आर्टी  
 43284 ए के गुप्ता, आर्टी  
 43285 डी पी पाण्डे, इन्फैन्ट्री

43286 जे एस सारन, इन्फैन्ट्री	43323 राकेश रस्तोगी, सिग्नल्स
43287 एम के सिंह, इन्फैन्ट्री	43324 राजेश कुमार, आर्टी
43288 संदीप साबले, इंजीनियर्स	43325 सी एस अरविन्द, इन्फैन्ट्री
43289 एस बी नायर, इन्फैन्ट्री	43326 मनू मेहरोत्रा, इंजीनियर्स
43290 मनीश गौड, एओसी	43327 एन एस पाण्डीयन, आर्टी
43291 आर वी पवार, इन्फैन्ट्री	43330 जे एस सन्धु, इन्फैन्ट्री
43293 संजय शर्मा, इन्फैन्ट्री	43331 एस सी पवार, इन्फैन्ट्री
43294 ए के पाण्डे, इन्फैन्ट्री	43332 प्रवीन कुमार, एएससी
43295 राजीव खोसला, इन्फैन्ट्री	43333 के नारायणन, इन्फैन्ट्री
43296 वी के मिश्रा, इन्फैन्ट्री	43334 आर एस यादव, आर्टी
43297 जे एस सिदाना, ईएमई	43337 करमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
43298 एस एस बिर्दा, सिग्नल्स	43338 के बी जयराम, इन्फैन्ट्री
43299 दीपक बाडोनी, इंजीनियर्स	43340 रजेन्द्र सिंह, एएससी
43300 पी एस राजपुरोहित, आर्टी	43341 बी एस रेड्डी, इंजीनियर्स
43301 एस पी सिंह, इन्फैन्ट्री	43342 राकेश राना, इन्फैन्ट्री
43302 एम खान्देकर, आर्टी	43343 राजीव कुमार, इन्फैन्ट्री
43303 सी एस सत्यनारायण, आर्टी	43344 डी ओहरी, एसी
43304 राजीव मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री	43345 सुधीर हांडा, सिग्नल्स
43305 रवि प्रकाश, आर्टी	43346 रविन्द्रा सिंह चौहान, ईएमई
43306 जे सिंह, आर्टी	43347 के एम सिंह, एसी
43307 एन आर कुमार, इन्फैन्ट्री	43349 एम निशावन, इंजीनियर्स
43308 नरेश कुमार, इंजीनियर्स	43350 एस के लेंका, इन्फैन्ट्री
43309 अनिल कुमार, एएससी	43351 ए नन्दी, आर्टी
43311 पी झा, एडीए	43353 एस पी एस बल, आर्टी
43312 के डी शर्मा, आर्टी	43354 जे एस सन्धु, एसी
43313 गौरव शर्मा, इन्फैन्ट्री	43355 गुरदयाल सिंह, इंजीनियर्स
43314 ए के सिंह, इन्फैन्ट्री	43357 डी के जोशी, इन्फैन्ट्री
43315 आर जार्ज, आर्टी	43358 वी पी चित्ते, आर्टी
43316 आर एस धनकार, एएससी	43359, पी मायलाप्रोन, इन्फैन्ट्री
43317 आर के एच सिन्धु, आर्टी	43360 एस शुक्ला, एओसी
43319 सुनील कोटनाला, इन्फैन्ट्री	43361 पोलश चौधरी, इन्फैन्ट्री
43320 आर भाटिया, इन्फैन्ट्री	43363 बी के पोखरियाल, ईएमई
43321 वी सी कटोच, आर्टी	43364 एस एस खारा, ईन्ट
43322 योगेश समनोल, मेक इन्फैन्ट्री	43365 जे होता, सिग्नल्स



43366 ए एस परमार, इन्फैन्ट्री	43403 वी एस थापा, एओसी
43367 वी के दौर, आर्टी	43405 डी अजवानी, आर्टी
43368 वरघीस ए टी, एएससी	43406 अनिल चन्दर, सिग्नल्स
43369 आकाश घोष, सिग्नल्स	43407 एस पवमणी, आर्टी
43370 जानसन पी मेथ्यू, इन्फैन्ट्री	43408 बी के सिंह, इंजीनियर्स
43371 राजीव नंदाक, इन्फैन्ट्री	43411 सी कुर्मा राव, इन्फैन्ट्री
43372 एम के व्यादव, आर्टी	43412 एम एस जोधा, एसी
43373 आर बाबू एम सी, इन्फैन्ट्री	43413 आशुतोष बढियाल, इन्फैन्ट्री
43374 आईविन जार्ज, इन्फैन्ट्री	43414 तारा प्रताप सिंह राणा, इन्फैन्ट्री
43376 संजीव दत्त, इन्फैन्ट्री	43415 डी पी एस चहल, सिग्नल्स
43378 बी के त्रिवेदी, सिग्नल्स	43416 एस के चौहान, ईएमई
43379 वेद पाल, ईएमई	43417 अशोक कुमार, एओसी
43380 जे के मैन्न, इन्फैन्ट्री	43418 डी डी शर्मा, एएससी
43381 डी के दहिया, एएससी	43420 एस के सिंह, इन्फैन्ट्री
43382 राजीव शर्मा, इंजीनियर्स	43421 के एस राव, इन्फैन्ट्री
43383 सुसेज बोस, इन्फैन्ट्री	43422 आर एस सुरी, इंजीनियर्स
43384 पी के राय, मेक. इन्फैन्ट्री	43423 एस तिवारी, आर्टी
43385 ओ पी पाण्डे, आर्टी	43425 कृष्ण लाल बिश्नोई, एएससी
43386 ए के एस राठौर, आर्टी	43426 अतिश चहर, इन्फैन्ट्री
43387 राहुल बक्शी, एएससी	43427 यशपाल कजला, इन्फैन्ट्री
43388 एम के सिंह, इन्फैन्ट्री	43429 बी सी शर्मा, सिग्नल्स
43389 पी के सिंह, इन्फैन्ट्री	43431 एम एस कारखानिस, इन्फैन्ट्री
43390 एस सी सदानी, इन्फैन्ट्री	43432 एस बिश्वास, एओसी
43391 एस के दत्ता, इन्फैन्ट्री	43433 जे एम गुरुंग, इन्फैन्ट्री
43392 उदेय चोपरा, आर्टी	43434 एस पी सिंह, इंजीनियर्स
43393 आर ए मंधार, एओसी	43436 कवलजीत सिंह, आर्टी
43394 संदीप मिश्रा, इंजीनियर्स	43437 आर भार्गवा, आर्टी
43395 एम के बिन्दल, आर्टी	43438 आर सुरेश, ईएमई
43396 संजय खरबंदा, आर्टी	43439 गोविन्द सिंह, एसी
43397 अनिल पुष्करना, इन्फैन्ट्री	43440 राजीव लोवे, आर्टी
43398 कुलबीर सिंह, इन्फैन्ट्री	43441 पलीअम विवेक, एसी
43399 अजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	43442 बाबू अब्राहम, इन्फैन्ट्री
43400 एम एस राव, इन्फैन्ट्री	43443 साहिब सिंह सन्धु, आर्टी
43401 नवल दुग्गल, मेक. इन्फैन्ट्री	43444 पी गोपालकृष्णन मेनन, इन्फैन्ट्री
43402 एम के गुप्ता, एओसी	

43445 अजय खांडपुर, आर्टी	43489 अतुल शर्मा, इन्फैन्ट्री
43446 बी सी राय, एओसी	43490 राजा शर्मा, इंजीनियर्स
43447 अत्रे हेमंत अरविन्द, सिग्नल्स	43491 ए पी सिंह, एसी
43448 आई एस बैस, एएससी	43492 एच पी सिंह, इन्फैन्ट्री
43450 इन्द्रजीत सिंह, आर्टी	43493 पंकज गौड, इन्फैन्ट्री
43451 रवि कुमार, एओसी	43494 अमित हजेला, इन्फैन्ट्री
43452 रजनीश कपूर, ईएमई	43495 एस बी बिश्नाई, इन्फैन्ट्री
43454 डी मुखर्जी, आर्टी	43496 बिजिन्दर कुमार सिंह, एओसी
43455 एच आर विनायक, मेक. इन्फैन्ट्री	43497 सोनम टाकपा, ईन्ट
43456 एस देबनाथ, इंजीनियर्स	43498 अनिल गुलियानी, आर्टी
43457 एन के शर्मा, इन्फैन्ट्री	43499 अनिल सिंह, आर्टी
43458 जी के भादुरिया, इन्फैन्ट्री	43500 सीतल सिंह, इंजीनियर्स
43460 ए एस श्रीवास्तव, आर्टी	43501 राजीव तिवारी, इन्फैन्ट्री
43461 एस वी एस ए प्रसाद, इंजीनियर्स	43502 ए जे अलेक्जेंडर, एओसी
43462 सुरेन्द्रनाथ एम एस, इन्फैन्ट्री	43503 एस एस राठी, ईन्ट
43463 के एस ढिल्लन, इन्फैन्ट्री	43504 डब्ल्यू एस शरद रॉव, इन्फैन्ट्री
43464 आर एस राघव, इन्फैन्ट्री	43505 विजय पाल शिवाच, इन्फैन्ट्री
43465 विजय कुमार वी एस, इंजीनियर्स	43506 एस बिज, एसी
43466 आर पाटनेय, एसी	43508 शुभरन्त शंकर, इन्फैन्ट्री
43467 अरविन्द कुमार, सिग्नल्स	43509 जोगिन्द्र सिंह, आर्टी
43469 एम एस यादव, जैग	43510 मोहिन्दर सिंह, आर्टी
43470 बी एस मालिया, इन्फैन्ट्री	43511 रजेश पंता, इन्फैन्ट्री
43471 एस एस सिद्धू, इन्फैन्ट्री	43512 एस के साहनी, आर्टी
43472 पीसी नायर, इन्फैन्ट्री	43513 एस भारगवा, एएससी
43473 प्रमोद रॉय, इन्फैन्ट्री	43514 आर एस हूडा, इंजीनियर्स
43476 एन पी सिंह, आर्टी	43515 आर के जीर, इन्फैन्ट्री
43477 के सी कालिता, आर्टी	43516 जे सी प्रसाद, इंजीनियर्स
43479 विजय सहगल, आर्टी	43517 एम वी रामकृष्ण, आर्टी
43482 एम पी टन्डन, इन्फैन्ट्री	43518 सवर्ण कुमार, इन्फैन्ट्री
43483 परदीप सिंह, आर्टी	43519 के आर चन्द्रन, मेक. इन्फैन्ट्री
43484 एस डी गोस्वामी, इन्फैन्ट्री	43522 ए एस जूनियर, आर्टी
43485 एच एस आनन्द, सिग्नल्स	43524 एस दमनकर, आर्टी
43486 के एस ठाकुर, इन्फैन्ट्री	43525 प्रवजीत सिंह, सिग्नल्स
43488 ओ के पावार, सिग्नल्स	43526 बी एस समवयाल, इन्फैन्ट्री

- 43528 यू एस विर्क, एएससी  
 43529 पी कोशिक, आर्टी  
 43530 अरुण साहा, इंजीनियर्स  
 43531 टी रे, सिग्नल्स  
 43532 अरविन्द्र सिंह, एओसी  
 43533 एन एन वाजपेयी, ईएमई  
 43534 वी के मिश्रा, एएससी  
 43535 सुमेश गुप्ता, इंजीनियर्स  
 43536 सन्नी कुरिअन एम, आर्टी  
 43537 एल सी कटोच, इन्फैन्ट्री  
 43538 आर के मल्होत्रा, आर्टी  
 43539 बी एन भन्डारी, इन्फैन्ट्री  
 43540 एम गिरिधर, आर्टी  
 43541 एस सी प्रसाद, सिग्नल्स  
 43542 आर सी रोहिल्ला, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43543 जयदीप देव, इन्ट.  
 43544 ए के सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43545 जे पी साईकिया, आर्टी  
 43546 पी वयास, इंजीनियर्स  
 43547 आर के सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43548 संजय जोशी, आर्टी  
 43549 डी एस लोचम, आर्टी  
 43550 आलोक करुणाकार, सिग्नल्स  
 43551 अमरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43552 गुरप्रीत सिंह, एओसी  
 43553 सुरिन्द्र मोंगा, इन्फैन्ट्री  
 43554 मोहित सिक्का, इन्फैन्ट्री  
 43555 एस एस सेंगर, आर्टी  
 43556 राकेश रघुबन्शी, एएससी  
 43558 वेद प्रकाश, इंजीनियर्स  
 43560 ए जी चव्हाण, इन्फैन्ट्री  
 43561 यू सी मेहता, आर्टी  
 43562 एम एल नरसिम्हा, एएससी  
 43563 संजय वहाल, इन्फैन्ट्री  
 43564 अरविन्द कोहली, इन्फैन्ट्री  
 43565 एच मेहता, एसी  
 43566 कुलदीप कपूर, सिग्नल्स  
 43568 निरदेश कुमार रांगरा, एओसी  
 43570 परगत सिंह, आर्टी  
 43571 वी जे कारांदे, एओसी  
 43572 विनीत देव, आर्टी  
 43573 मृदुल शर्मा, आर्टी  
 43575 नवतेज सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43576 ए स्वारूप, सिग्नल्स  
 43577 अरविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43578 मनीश खुल्लार, ईएमई  
 43580 संजीव सूदन, इन्फैन्ट्री  
 43581 आर पी एस मनकोटिया, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43582 अशविन देव, सिग्नल्स  
 43583 राहुल ग्रोवर, एसी  
 43584 एस सी गौड, इंजीनियर्स  
 43586 संजय सिंह, सिग्नल्स  
 43587 ए रॉव, आर्टी  
 43588 अमित रायजादे, एओसी  
 43589 आर पी एस वजाज, इन्फैन्ट्री  
 43590 सुनील शर्मा, ईएमई  
 43591 अनुराग सक्सेना, ईएमई  
 43593 विशाल भार्गव, इन्फैन्ट्री  
 43594 जी एस कालकत, आर्टी  
 43595 के एन श्रीकुमार, एसी  
 43597 अनिल आहुजा, आर्टी  
 43598 जे एस रनदावा, मेक. इन्फैन्ट्री  
 43599 ए के पराशर, आर्टी  
 43600 ए पी एस सिद्धू, इन्फैन्ट्री  
 43601 एस के सक्सेना, इन्फैन्ट्री  
 43602 मधुर गोयल, इन्फैन्ट्री  
 43603 ए के झा, एएससी  
 43604 ए पी सिंह, इन्फैन्ट्री

43605 एन बी एस रिशार, एएससी	45458 मेलथ उन्नीकृष्णन, एएससी
43607 एन के चन्द्रा, एसी	45459 शुबोदोय मुखर्जी, आर्टी
43608 ओसतीन जे कोल्लको, इन्फैन्ट्री	45460 अजवन्त सिंह ग्रेवाल, आर्टी
43609 राजेश रोमेत्रा, इंजीनियर्स	45461 जोगिन्द्र सिंह राना, आर्टी
43610 ई ए खान, एओसी	45462 विनोद कुमार पंत, एओसी
43611 मुनीन्द्र त्रिपाठी, सिग्नल्स	45463 राजेश पाण्डे, आर्टी
43614 अरुण पराशर, मेक. इन्फैन्ट्री	45464 सुनील कुमार गुप्ता, ईएमई
43615 सुखबीर सिंह सुहाग, इंजीनियर्स	45465 प्रशान्त दभोलकर, आर्टी
43618 एम जी थीम्मया, इंजीनियर्स	45466 विनोद साहनी, आर्टी
43620 ए ठाकुर, इन्फैन्ट्री	45467 ब्रिजेश कुमार सिंह, आर्टी
43648 जान हेनरी समवेल एल, आईसी	45468 नवरतन जोशी, एओसी
43649 के के घोष, आईसी	45469 जसवीर सिंह गुलिया, एएससी
43651 आर एस प्रसाद, सिग्नल्स	45470 देसाई चन्द्राहस श्रीरंग, एडीए
43652 पी कुमार, आईसी	45471 सुनील दत्त, ईएमई
45435 राम निवास, इन्फैन्ट्री	45473 तपेन्द्रा सिंह, आर्टी
45436 ओम बीर सिंह ठक्कर, इन्फैन्ट्री	45474 मृनाल कांत राय, आर्टी
45437 सतपाल सिंह राघव, इन्फैन्ट्री	45475 सुनील पाठक, ईएमई
45438 छेव अनन्द सिंह लोहामारोर, इन्फैन्ट्री	45477 मुकुल भल्ला, ईएमई
45439 अशिश भट्टाचार्य, एसी	45479 मनमोहन सूद, जैग
45440 जेमिल अहमद खान के के, एसी	45480 कवंल बीर सिंह सन्दू, आर्टी
45441 सेबिसटीयन बरनार्ड, ईएमई	45481 कृष्णन कुट्टी मनु, एओसी
45442 लक्ष्मण सिंह भरत सिंह चौहान, एसी	45482 उगम सिंह सोधा, ईएमई
45444 कमल सिंह, आर्टी	45483 किशोर कुमार मिश्रा, आर्टी
45445 बलिनंदर मोहन तलवार, एएससी	45485 अजय शर्मा, एएससी
45446 जय प्रकाश तिवारी, एओसी	45486 रणवीर सिंह परमार, आर्टी
45447 आर बाला सुभरामनियण, जैग	45487 परवत सिंह, एएससी
45448 राजेश ठाकुर, एएससी	45488 एस बीरासनगिल्ली, आर्टी
45449 के के किरण, आर्टी	45489 छबीरतेज सिंह गिल, एसी
45451 आर रातीश नायर, आर्टी	45490 नासिर हुसैन दुबे, आर्टी
45452 जनक सिंह शेखावत, एएससी	45491 जगदीप सिंह लाली, आर्टी
45454 अनिल कुमार सिंह, आर्टी	45492 अजय बीर सिंह भंडारी, आर्टी
45455 मनोज कुमार साह, एसी	45493 राजीव कुमार, ईएमई
45456 राकेश जोशी, आर्टी	45494 अनिल कुमार शर्मा, आर्टी
45457 नायर राजीव राविन्द्रन, आर्टी	45495 बाल कृष्ण भारद्वाज, एएससी

45496 नाजर एन ईदुलजी, ईएमई	45530 अरुण शर्मा, आर्टी
45497 पिन्की विनय कक्कड़, एओसी	45531 बी जी जगदीश, ईएमई
45498 यशपाल सिंह, आर्टी	45533 अनिल भट्ट, एसी
45499 देशपाण्डे सुधीर भाल चन्द्रा, आर्टी	45534 एन पठनिया, एडीए
45500 राजीव महरोत्रा, जैग	45535 सुनील प्रताप रण भोंसले, इन्फैन्ट्री
45501 रामेश कुमार बियाला, एडीए	45536 राजीव पाण्डे, एसी
45502 परमजीत सिंह ग्रेवाल, एएससी	45537 हरबिन्द सिंह रूप, आर्टी
45503 सुनील शर्मा, एओसी	45538 जय नारायण राय, इन्फैन्ट्री
45504 जतिन्दर चक्रवर्ती, आर्टी	45539 विश्वानाथ विद्याधर गोडबोले, इन्फैन्ट्री
45506 धनेश कुमार शर्मा, आर्टी	45540 राकेश ठाकुर, एसी
45507 राजदीप सिंह, आर्टी	45541 टी पी जगदीश चन्द्रन, इन्फैन्ट्री
45508 के एस वासुदेवन, एओसी	45542 पी एन बालासुभ्रामनियण, ईएमई
45509 एन भास्कर, एएससी	45543 सी बी श्रीधर, इन्फैन्ट्री
45510 संजय मेहता, आर्टी	45544 अशोक किनि एच, इन्फैन्ट्री
45511 प्रफुल कुमार सिंह, एओसी	45545 अरुण देव सिंह समयल, इन्फैन्ट्री
45512 कृष्ण चन्द्रा उपाध्याय, आर्टी	45546 दीपिन्दर जीत सिंह चाहल, एसी
45513 एन के शर्मा, जैग	45548 विकास उप्पल, इन्फैन्ट्री
45514 एम्मानूल राज कुमार, एएससी	45549 संजय सेठी, आर्टी
45515 प्रादीप कुमार सिंह, आर्टी	45551 एम सिवा कुमार, इन्फैन्ट्री
45516 इफतेखाक अली खान, आर्टी	45552 रणजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
45517 राकेश, जैग	45553 करमजीत सिंह, सिग्नल्स
45518 ए सलारिया, एओसी	45554 सुनील कुमार यादव, इन्फैन्ट्री
45519 चन्द्रा कान्त अग्रवाल, जैग	45555 मोनिश दत्ता, इन्फैन्ट्री
45520 श्रीकान्त, ईएमई	45556 राजी पांवार, इन्फैन्ट्री
45521 ओंकार शर्मा, आर्टी	45557 बिक्रम जीत सिंह, इन्फैन्ट्री
45523 रोबिन जान फर्नांडीज, इन्फैन्ट्री	45558 मुकेश जुयाल, इन्फैन्ट्री
45524 विश्वानाथन सुभ्रामनियम, मेक. इन्फैन्ट्री	45559 निर्मल सिंह, इंजीनियर्स
45525 विजय नायर, इन्फैन्ट्री	45561 हेमंत कुमार पुरी, आर्टी
45527 संदीप मित्तल, मेक. इन्फैन्ट्री	45562 जयन जैकब वर्गीज, एसी
45528 नन्दाकुमार पी, मेक. इन्फैन्ट्री	45563 पी नारायण मेनन, एसी
45529 अजीत चोपड़ा, एसी	45564 दिनेश चड्ढा, आर्टी

45565 हर कृष्ण बासोया, इन्फैन्ट्री

45567 जवाहर बरनाना, आर्टी

45568 मैक्सयूल रोवर्ट्स, इन्फैन्ट्री

45569 शकील अहमद, इन्फैन्ट्री

45570 त्रिलोचन सिंह पारमार, ईएमई

45571 रामेश कुमार एम, इंजीनियर्स

45572 अखिल शर्मा, इन्फैन्ट्री

45573 गीरज झा, इन्फैन्ट्री

45575 दिनेश जोसेफ लयाल, इन्फैन्ट्री

45576 रवी प्रताप सिंह, ईएमई

45577 गौतम गंगुली, इन्फैन्ट्री

45579 जेम्स अनिल ई, इन्फैन्ट्री

45581 राजेश कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री

45582 कालिआ प्रसाद सिंह, इन्फैन्ट्री

45583 जगदीश नारायण पाण्डे, आर्टी

45584 सुमीर जीत सिंह रन्धावा, इन्फैन्ट्री

45585 बासुदेव मित्रा, इन्फैन्ट्री

45586 संजीव मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री

45587 कमल सिंह पठाणिया, एसी

45588 नन्द किशोर सूबेदार, एसी

45589 राजेश सेठ, इन्फैन्ट्री

45590 मनमोहन सिंह, ईन्ट

45591 अनुपम माथुर, ईएमई

45592 बिमल राय, एएससी

45595 जोशी विवेक जे, आर्टी

45596 शरद सरन, इन्फैन्ट्री

45597 संजीव शुक्ला, सिग्नल्स

45598 अभिजीत दास, ईएमई

45599 अरुण सन्याल, सिग्नल्स

45601 प्रदीप कुमार, ईएमई

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 361, दिनांक 29 जून 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :-

नाम	प्रयोगशाला/वर्तमान स्थापन	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती/कुमारी				
डी आर नाथ	डीआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
के बोराह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
एस एस सागर टीबीआरएल		तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
ए के बक्शी	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
जे पी सोई	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
बृज भूषण गुप्ता	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
गुरदीप सिंह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
वसंत लाल	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
परमेश्वरी शर्मा	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
भास्कर चक्रवर्ती आर्डीटीआर		तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
अभिजीत रॉय	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
अपुर्बा कुमार डीई	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
आर एन दत्ता	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
बी एस रोकडे आरडीई(ई)		तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
जी बी सूर्यवंशी	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
एन धनकापन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
ई डी महाजन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
ए आर कुटे	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
पी जी शिन्दे	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
के बी बाघ	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-

---16 दिसम्बर 2004

अजय गोयल

उप निदेशक

एम एस (8)

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती/कुमारी				
एन जी फेंगसे	आरडीई(ई)	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
वी डी कापरे	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
बी एन खांडले	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
एच ए टैंक	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
ए पी येरपुडे	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
पी के फाड़के	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
एस बी गुमास्ते	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
पी के घोष	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
डी आर गायकवाड़	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
एन एल बिंगेवार	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
एम बाई नेने	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
बी एन महादिक	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
एस एस कपाडे	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
के गुनसीलन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
एन वाई फाटक	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
टी एच पालकर	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
ए पुरुषोत्तम	एएसएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
टी बी सुब्बा राव	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
मिर सम्सुद्दीन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
शेक बाजी	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
टी एस श्रीनिवासन	डीएफआर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
वी वासुदेवन	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
एस एम पौनीकर	एडीआरडी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती/कुमारी				
आर एन तिवारी	एडीआरडी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
के एम दुबे	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
आर के दानिखेल	डीआरडी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
छया सक्सेना	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
उषा कावीश्वर	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
ओ पी हुड्डा	एसएसपी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
एस एन सिंह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
एस सी अरोड़ा	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
श्री निवास	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
डी बी नारंग	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
एम जी चाबन	एनएमआर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु.10,000-325-15,200
एल चंद्रशेखर	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही-
बी एल एस रेड्डी	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु.8,000-275-13,500
डी के ज्वाले	एचईएम आरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
वी वी फाड़तरे	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
ए डी बारसकर	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
के एस जोष	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
आर ई जगतप	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
एस जे पवार	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
एम बी शाह	-वही-	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
एम जयलक्ष्मी	एमटीआर डीसी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही-
यू वी शेवाले	आरडीई(ई) एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु.7,450-225-11,500
ए वाई शितोले	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-

1	2	3	4	5
सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी				
एस एस टावरे	आरडीई (ई)	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
के ए पाटिल	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
ए एस चित्तर	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
गयाधर सेट्टी	आईटीआर	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
एस जेना	आईटीआर	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
हरिहर जेना	आईटीआर	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
राजेन्द्र सिंह	टीबीआरएल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
संगीता बंसल	टीबीआरएल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
मोहन लाल	टीबीआरएल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
संगीता गुलाटी	टीबीआरएल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
ए डी शर्मा	एडीआर डीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
बदुल कमर	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
गुलाब सिंह	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
एम एस मीना	-वही-	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
के वी वी एस मुर्थी रेड्डी	एसएसएल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
के रवि कुमार रेड्डी	एसएसएल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
एन जी मालवेंकर	एनएमआर एल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
सज्जन सिंह	एसएसपी एल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
वाई वी श्रीनिवास राव	डीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
अरूत पावे एस के	एमटीआर डीसी	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
बी के बद्रीनाथ	एलआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-
एम आर बिजेन्द्र	डीएफआर एल	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	-वही-

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 02 सितम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

नाम	प्रयोगशाला/ वर्तमान स्थापन ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
श्री एम एम मारथे	एचईएम तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 03 सितम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

नाम	प्रयोगशाला/ वर्तमान स्थापन ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
श्री एस चोकालिंगम	एआरडीई तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

बी. बी. शर्मा  
उप निदेशक (कार्मिक-1)

वायु शाखा

सं. 362, दिनांक 28 मई 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां सहर्ष प्रदान करते हैं :--

(जू वा अ से मूल वा अ)

सेना संख्या, नाम, ट्रेड एवं मूल वा अ की तारीख

285898 वा अ भास्करण पलाथ हाऊस, एसीएच जीडी, 06 जून 2002

286139 वा अ रामसहाय गिरि, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

286377 वा अ शिवभूषण सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003

287410 वा अ इन्द्रदेव, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003

290657 वा अ पुलिस सिंह, एसीएच जीडी, 02 अक्टूबर 2001

291505 वा अ रमेश चन्द मोहन्ती, एसीएच जीडी, 03 जून 2003

291917 वा अ कुल्लु रूहनुमन्था राव, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003

295236 वा अ अजीत कुमार हालदार, एसीएच जीडी, 02 अक्टूबर 2001

295468 वा अ नयोरंजन वनिक, एसीएच जीडी, 02 दिसम्बर 2001

295657 वा अ चिथाभाकम चन्द्रशेखरन, एसीएच जीडी, 06 जून 2002

295697 वा अ कमिक्षा प्रसाद यादव, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003

295925 वा अ लाभ सिंह, एसीएच जीडी, 06 जून 2002

296077 वा अ जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003

296165 वा अ गुलकी राम दास, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296193 वा अ श्याम बिहारी सिंह, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296265 वा अ प्रभुदयाल, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296272 वा आ शिव नारायण, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296400 वा अ कन्हैया लाल, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296424 वा अ लल्लन सिंह, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296429 वा अ श्याम बिहारी सिंह, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296431 वा अ बलिराम सिंह, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002

296433 वा अ सच्चिदानंद पाण्डेय, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002



296434 वा अ सिनोद कुमार सिंह, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296473 वा अ सुशान्त कुमार भट्टाचार्य, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296495 वा अ हेम कुमार, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296536 वा अ कुट्टी कृष्णन वी, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296703 वा अ सेबाष्टियन एन एस, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296708 वा अ जय प्रकाश नारायण, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296778 वा अ शरद दामले, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296807 वा अ बब्बन तिवारी, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 296809 वा अ दीप नारायण प्रसाद चौधरी, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296814 वा अ राजेसबा नबीसबा पिंजर, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 296891 वा अ विकास चन्द्र दास, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296903 वा अ बालक राम, एसीएच जीडी, 04 दिसम्बर 2002  
 296915 वा अ मान सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 296957 वा अ बलदेव सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297024 वा अ हरबंश सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297055 वा अ बाबु सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297057 वा अ शिवराज सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297211 वा अ राम रण विजय प्रसाद सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297222 वा अ लाल देव गोसाई, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297276 वा अ शिवन पिह्लै एन, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003  
 297290 वा अ चॉद गोविन्द सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297295 वा अ मोहम्मद ओमर, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297331 वा अ द्विजेन्द्र प्रसाद दुबे, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297352 वा अ हरeram राम, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297382 वा अ कमल नारायण, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297394 वा अ जगन्नाथ, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297404 वा अ राम स्वरूप, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2003  
 297409 वा अ छेदीलाल कुरील, एसीएच जीडी, 03 मई 2003  
 297444 वा अ भार्गवन थेक्किवलिल पप्पू, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297462 वा अ नरेन्द्र मोहन जोशी, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297463 वा अ भंडारी राम, एसीएच जीडी, 03 जून 2003

297509 वा अ तपन कुमार दास, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003  
 297548 वा अ जनार्दन प्रसाद, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 297586 वा अ राम कृष्णा छिप्पा, एसीएच जीडी, 03 जून 2003  
 297734 वा अ राम प्रसाद राम, एसीएच जीडी, 03 जून 2003  
 297735 वा अ शिवरति सिंह, एसीएच जीडी, 03 अक्टूबर 2003  
 297846 वा अ भुवन प्रकाश पाण्डेय, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 297858 वा अ गोविन्द सिंह क्षत्रिय, एसीएच जीडी, 03 जून 2003  
 297901 वा अ जबर सिंह राठौर, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2003  
 297902 वा अ धनी राम, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 297933 वा अ महेन्द्र सिंह, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 297947 वा अ हरनाम सिंह ठाकुर, एसीएच जीडी, 01 मई 2003  
 298017 वा अ शेख जीलानी वासा, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2003  
 298018 वा अ मूर्ति के के, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 298053 वा अ गणेश प्रसाद शर्मा, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003  
 298054 वा अ बिनय कुमार वर्मा, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 298057 वा अ प्रयाग राज, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003  
 298064 वा अ सम्पत कुमार तिवारी, एसीएच जीडी, 03 जून 2003  
 298065 वा अ राम नारायण मिस्त्री, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 298067 वा अ शिव प्रसाद सिंह, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 298136 वा अ टी लेजर, एसीएच जीडी, 11 अगस्त 2003  
 298202 वा अ गुगन राम सिर्वा, एसीएच जीडी, 11 अगस्त 2003  
 298266 वा अ राम नरेश मौर्या, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2003  
 298267 वा अ रामाधर प्रजापति, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003  
 298294 वा अ रामानन्द कुम्हार, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 298370 वा अ सुरेन्द्र नाथ बाजपेयी, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2003  
 298372 वा अ हनुमान सिंह पासी, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2003  
 298407 वा अ ओम प्रकाश, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003  
 298413 वा अ बाबु एम जी सी, एसीएच जीडी, 05 अगस्त 2003  
 298438 वा अ महेन्द्र प्रताप सिंह, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003  
 298461 वा अ चन्द्र शेखर पाण्डेय, एसीएच जीडी, 07 अगस्त 2003  
 298659 वा अ लाल देव राम, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003  
 298825 वा अ शिव कुमार अवस्थी, एसीएच जीडी, 03 अक्टूबर 2003  
 298859 वा अ नाबा कुमार दास, एसीएच जीडी, 15 अगस्त 2003  
 298944 वा अ राममेहर दहिया, एसीएच जीडी, 03 अक्टूबर 2003  
 299161 वा अ प्रथिवश रंजन डे, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003  
 299283 वा अ घीसु सिंह राजपुरोहित, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003

- 299288 वा अ नवल सिंह रावत, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003
- 299377 वा अ आर राजा शेकरन, एसीएच जीडी, 03 अक्टूबर 2003
- 299507 वा अ निशिर कुमार गुप्ता, एसीएच जीडी, 03 अक्टूबर 2003
- 299581 वा अ भरत सिंह यादव, एसीएच जीडी, 13 अक्टूबर 2003
- 299610 वा अ शम्भू नाथ, एसीएच जीडी, 13 अक्टूबर 2003
- 299849 वा अ मोहम्मद हनीफ, एसीएच जीडी, 13 अक्टूबर 2003
- 299894 वा अ देव नारायण मिश्रा, एसीएच जीडी, 13 अक्टूबर 2003
- 299986 वा अ राम नरेश अवस्थी, एसीएच जीडी, 13 अक्टूबर 2003
- 601146 वा अ शिवलखन सिंह, एसीएच जीडी, 01 मई 2003
- 601183 वा अ शिव शंकर लाल, एसीएच जीडी, 01 मई 2003
- 601610 वा अ शिव चरण, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003
- 601832 वा अ राजा राम सिंह, एसीएच जीडी, 09 अगस्त 2003
- 610119 वा अ कृष्णा चन्द्र साहु, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003
- 610385 वा अ रामाराजु नागाभूषण राव, एसीएच जीडी, 13 अक्टूबर 2003
- 610499 वा अ नछत्तर सिंह, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003
- 610607 वा अ पी सुब्रमण्यम, एसीएच जीडी, 11 अक्टूबर 2003
- 615131 वा अ चम्पालाल भार्गव, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 616208 वा अ गिरीश चन्द्र शर्मा, एडीएसओ, 04 फरवरी 2004
- 616451 वा अ सोमेन्द्र कुमार गुहा, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 616682 वा अ गणेश चन्द्र दास, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 618178 वा अ नित्यानन्द सुभाष एस, एडीएसओ, 01 जून 2002
- 618629 वा अ रवि प्रताप सिंह तोमर, एडीएसओ, 04 फरवरी 2004
- 619508 वा अ शर्मा राधे श्याम जी, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 619660 वा अ सुरिन्दर पाल सिंह, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 619924 वा अ राम चन्द्र प्रसाद गुप्ता, एडीएसओ, 01 जून 2002
- 620266 वा अ बलविन्दर सिंह राजपूत, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 620700 वा अ रामकिशन, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 620859 वा अ सन्नासी गोदर राजाराम, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 620970 वा अ ओमप्रकाश शर्मा, एडीएसओ, 01 सितम्बर 2002
- 622160 वा अ रविन्द्र कुमार सामन्त राय, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 622569 वा अ आलोक कुमार झा, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 622595 वा अ अनिल कान्त दवे, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 622827 वा अ रामेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 624129 वा अ रूप नारायण, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 634881 वा अ जार्ज पी जैकब, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 635298 वा अ कुलदीप सिंह नन्दा, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 636023 वा अ अनमोल दुवेदी, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 636518 वा अ श्याम जी पाण्डेय, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 636875 वा अ कृष्णानन्द शुक्ला, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 636946 वा अ नरेश पाल शर्मा हरिताश, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 651426 वा अ धवलशंख अशोक गणपत, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 651617 वा अ दिलीप कुमार मुदुली, एडीएसओ, 02 जनवरी 2003
- 651845 वा अ पदमा केर झा, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 652018 वा अ शर्मा श्री राम, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 652318 वा अ परमा नन्द सिंह, एडीएसओ, 02 फरवरी 2004
- 292927 वा अ श्री समीर कुमार कोयल, एयर फ्रेम फिटर, 03 सितम्बर 2002
- 293202 वा अ सुभाष चन्दर कक्कड़, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002
- 293349 वा अ त्रिलोक राम जाट, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2001
- 293645 वा अ जितेन्द्र पाल सिंह दुगल, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003
- 293663 वा अ दीपक भारद्वाज, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 641661 वा अ विरेन्द्र सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 641876 वा अ चन्द्र शेखर आजाद, एयर फ्रेम फिटर, 03 सितम्बर 2002
- 642202 वा अ के नारायणन नायर, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642236 वा अ आनन्द कुमार शर्मा, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642241 वा अ सैयद सुल्तान अहमद, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642277 वा अ भरत राम, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642278 वा अ बिन्द्रावन सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642279 वा अ रामोतार, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642294 वा अ पवन कुमार गुप्ता, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642486 वा अ संकेत पीयूष, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002
- 642490 वा अ राजेन्द्र राय, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 642632 वा अ गणेश कुमार, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001

642680 वा अ बीराबर नायक, एयर फ्रेम फिटर, 02 अगस्त 2002  
 642742 वा अ जय कान्त प्रसाद, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001  
 642795 वा अ विजय कुमार गुप्ता, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002  
 642855 वा अ ज्ञान सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 642863 वा अ देवराज राम, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001  
 642864 वा अ पृथ्वी राज खेटर पाल, एयर फ्रेम फिटर, 03 अगस्त 2001  
 643010 वा अ शिवजी प्रसाद, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003  
 643019 वा अ साहब सिंह राठी, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2001  
 643020 वा अ रामा नन्द पन्त, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2001  
 643022 वा अ हरदीप सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 643040 वा अ उमा शंकर सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002  
 643045 वा अ मुरली कृष्णन पी आर, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003  
 643062 वा अ राम कृष्ण सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 अगस्त 2002  
 643066 वा अ हरि पाल सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 643331 वा अ सुरजीत सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2001  
 643335 वा अ अशोक कुमार राय, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 643342 वा अ हरि कृष्ण साहु, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002  
 643355 वा अ ओम प्रकाश वर्मा, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002  
 643356 वा अ रघुवंश सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2001  
 643357 वा अ विभूति भूषण सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002  
 643371 वा अ रमेश चन्दर, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2001  
 643379 वा अ जगन मोहनराव बोनम, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2001  
 643384 वा अ एस ओ सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 अगस्त 2002  
 643386 वा अ बहादुर राम, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 643397 वा अ सुरेश चन्द्र पाण्डेय, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002  
 643399 वा अ राम बहो रन पटेल, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 643400 वा अ सन्तोष कुमार सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003  
 643401 वा अ गिरिजा प्रसाद बिन्द, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 643409 वा अ शिव प्रकाश, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 643762 वा अ कुलदीप सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001

643770 वा अ मनाराम बिश्नोई, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 643771 वा अ महिपाल सिंह सोम, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002  
 643774 वा अ जगदीश चन्दर डोहालिया, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002  
 643792 वा अ महेन्द्र कुमार मधुप, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002  
 643839 वा अ कैलाश राम, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2002  
 643842 वा अ हरि कृष्ण चौधरी, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 644069 वा अ सोवामी नाथ साह, एयर फ्रेम फिटर, 03 सितम्बर 2002  
 644195 वा अ ओम प्रकाश वर्मा, एयर फ्रेम फिटर, 02 अगस्त 2002  
 644212 वा अ वेद प्रकाश शर्मा, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 644216 वा अ चन्देश्वर सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002  
 644217 वा अ उन्नीकृष्णन पी, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003  
 644233 वा अ पीताबास साहु, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 644234 वा अ रुदा नन्द बराल, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 644239 वा अ शंकर पिल्लै वेनुगोपालन, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 644254 वा अ धर्मदेव सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 644263 वा अ दया शंकर सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 अगस्त 2002  
 644270 वा अ नेपाल वर्मा, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 644604 वा अ सुनील कुमार श्रीवास्तव, एयर फ्रेम फिटर, 03 सितम्बर 2002  
 644625 वा अ घुलम रसूल, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003  
 644630 वा अ बिष्णु कान्त चौधरी, एयर फ्रेम फिटर, 02 अगस्त 2002  
 644649 वा अ शिव शंकर ठाकुर, एयर फ्रेम फिटर, 03 सितम्बर 2002  
 644655 वा अ रणवीर सिंह चौधरी, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 644664 वा अ अमरनाथ राय, एयर फ्रेम फिटर, 06 जून 2002  
 644669 वा अ शिव सागर लाल, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 644674 वा अ अहमद शोयब, एयर फ्रेम फिटर, 02 अगस्त 2002  
 644678 वा अ अजय कुमार श्रीवास्तव, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 644680 वा अ रघबीर सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002  
 644686 वा अ योगेन्द्र सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 जून 2002  
 644692 वा अ अमर सिंह विल्सन, एयर फ्रेम फिटर, 02 जून 2002  
 644694 वा अ गिरिधारी लात शर्मा, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002  
 657069 वा अ रामा प्रसाद यादव, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002

- 657075 वा अ दिवाकरण मयान्डी, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001
- 657085 वा अ रमेश चन्द्र साहा, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 657087 वा अ सरत चन्द्र दास, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001
- 657091 वा अ भुरातन सिंह यादव, एयर फ्रेम फिटर, 02 जून 2002
- 657360 वा अ ओमपाल तोमर, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002
- 657367 वा अ विजय पाल सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2002
- 657374 वा अ ललन प्रसाद गुप्ता, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 657614 वा अ पारस नाथ सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 657619 वा अ रूप किशोर, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2002
- 657639 वा अ भेरा राम सुथार, एयर फ्रेम फिटर, 02 जून 2002
- 657888 वा अ मुखदेव सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 जून 2002
- 657897 वा अ नावा किशोर मांझी, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 657900 वा अ नागेन्द्र मिश्रा, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 657908 वा अ नरेश कुमार, एयर फ्रेम फिटर, 02 अक्टूबर 2002
- 657917 वा अ कृष्ण मोहन सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 657921 वा अ दुर्गा शंकर, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 657924 वा अ किरोडी सिंह तोमर, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 658171 वा अ पोखरकर अनिल नानाभउ, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658181 वा अ महिपाल सिंह वासवानी, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658193 वा अ मोहम्मद समसूल अफाक, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 658195 वा अ गणेश सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 658197 वा अ राजेश्वर प्रसाद उपाध्याय, एयर फ्रेम फिटर, 02 जुलाई 2002
- 658416 वा अ ललता प्रसाद गुप्ता, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 658417 वा अ अनूप सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 658443 वा अ श्री राम राय, एयर फ्रेम फिटर, 03 सितम्बर 2002
- 658671 वा अ तपन सरकार, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 658674 वा अ श्री राम सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658677 वा अ कंवर पाल सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658681 वा अ बलजिन्दर सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658692 वा अ मिसिरूद्दीन, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658924 वा अ विन्ध्याचल ठाकुर, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658927 वा अ अजीत कुमार यादव, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 658930 वा अ बिक्रम सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 658932 वा अ तरलोचन सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 658934 वा अ वेदवर्त त्यागी, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 658940 वा अ राम निवास चंगल, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 659055 वा अ विनोद बिहारी सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 659061 वा अ जितेन्द्र सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 दिसम्बर 2002
- 659108 वा अ पूरण चन्द्र नायक, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659221 वा अ ललित चन्द्र डेका, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659230 वा अ दुलाल चन्द्र सरकार, एयर फ्रेम फिटर, 03 नवम्बर 2002
- 659309 वा अ भीम पुरी गोस्वामी, एयर फ्रेम फिटर, 03 जनवरी 2003
- 659398 वा अ राम प्रसाद धारीवाल, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659451 वा अ कुशल कुमार राय, एयर फ्रेम फिटर, 01 मार्च 2003
- 659495 वा अ सच्चिदानन्द प्रसाद, एयर फ्रेम फिटर, 03 जनवरी 2003
- 659499 वा अ विरेन्द्र प्रसाद, एयर फ्रेम फिटर, 03 जनवरी 2003
- 659520 वा अ सेवा सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659675 वा अ कैलाश चन्द्र बसवाल, एयर फ्रेम फिटर, 03 जनवरी 2003
- 659676 वा अ अशोक कुमार राणा, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659681 वा अ भीम सिंह बिष्ट, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659694 वा अ चेत राम गूजर, एयर फ्रेम फिटर, 03 जनवरी 2003
- 659766 वा अ महेश नारायण विश्वकर्मा, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003
- 659767 वा अ महेन्द्र पाल साकिया, एयर फ्रेम फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659852 वा अ पवन कुमार मिश्रा, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003
- 659928 वा अ सुतान्तर कुमार, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003
- 659962 वा अ महेन्द्र सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003
- 660005 वा अ शम्भू शरण, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003
- 660012 वा अ हरे राम पाण्डेय, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003
- 660057 वा अ वसन्त कुमार महापात्रा, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2003
- 660059 वा अ भिकारी चरण साहु, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003

660122 वा अ नारायण देव गोपालन नायर, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2003

660160 वा अ कुप्पुसामी कृष्णन, एयर फ्रेम फिटर, 03 मई 2003

660177 वा अ ब्रज भूषण मिश्रा, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2003

660195 वा अ सम्भू नाथ खडगाहा, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2003

660197 वा अ तरणी चरण गोपे, एयर फ्रेम फिटर, 03 मार्च 2003

660201 वा अ जरनैल सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 04 अप्रैल 2003

660211 वा अ जसविन्दर सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 03 अप्रैल 2003

660281 वा अ राजेन्द्र प्रसाद, एयर फ्रेम फिटर, 03 मई 2003

660292 वा अ दिलीप कुमार गुडैत, एयर फ्रेम फिटर, 03 मई 2003

660594 वा अ किरणपुरै केशव नारायण राव, एयर फ्रेम फिटर, 03 मई 2003

661103 वा अ सत्यपाल सिंह कटारिया, एयर फ्रेम फिटर, 03 मई 2003

289858 वा अ यश पाल शर्मा, ए एफ एस ओ, 01 अगस्त 2003

603807 वा अ हीरा सिंह ढिल्लो, ए एफ एस ओ, 01 जनवरी 2003

604234 वा अ राज बलि सिंह, ए एफ एस ओ, 03 जून 2003

604417 वा अ राजेन्द्र कुमार मलिक, ए एफ एस ओ, 03 जून 2002

604453 वा अ शक्ति नाथ मिश्रा, ए एफ एस ओ, 01 जनवरी 2003

631472 वा अ फाताराम, ए एफ एस ओ, 03 जून 2003

631608 वा अ विजय शंकर राय, ए एफ एस ओ, 03 जून 2003

631609 वा अ जय मंगल सिंह, ए एफ एस ओ, 03 जून 2003

631704 वा अ आनन्द नामदेव यादव, ए एफ एस ओ, 01 अगस्त 2003

631946 वा आनन्द लाल प्रसाद सिंह, ए एफ एस ओ, 01 अगस्त 2003

631988 वा अ विनोद कुमार, ए एफ एस ओ, 03 जून 2003

632021 वा अ आदित्य कुमार श्रीवास्तव, ए एफ एस ओ, 04 अक्टूबर 2003

632048 वा अ अजोय कुमार सोम, ए एफ एस ओ, 01 अगस्त 2003

632282 वा अ गिरीश चन्द्र शर्मा, ए एफ एस ओ, 03 सितम्बर 2002

632293 वा अ राम नरेश वर्मा, ए एफ एस ओ, 01 जनवरी 2003

632307 वा अ महिन्द्र कुमार प्रधान, ए एफ एस ओ, 03 सितम्बर 2002

632393 वा अ तुला राम, ए एफ एस ओ, 01 जनवरी 2003

632403 वा अ सम्पत राज शर्मा, ए एफ एस ओ, 01 जनवरी 2003

632438 वा अ सकत पाल, ए एफ एस ओ, 03 जून 2003

632662 वा अ तपस कुमार हलदर, ए एफ एस ओ, 01 फरवरी 2003

632668 वा अ तपन कुमार दास, ए एफ एस ओ, 03 जनवरी 2003

632670 वा अ राजा राम दास, ए एफ एस ओ, 03 जनवरी 2003

632686 वा अ जी एच हसन पैरे, ए एफ एस ओ, 01 जनवरी 2003

632735 वा अ गौतम सिंह, ए एफ एस ओ, 03 जनवरी 2003

632737 वा अ विजय शंकर सिंह, ए एफ एस ओ, 07 फरवरी 2003

632738 वा अ कृष्णपाल सिंह यादव, ए एफ एस ओ, 01 फरवरी 2003

632790 वा अ ब्रज किशोर वर्मा, ए एफ एस ओ, 07 फरवरी 2003

632817 वा अ लाल बाबु चौधरी, ए एफ एस ओ, 02 अक्टूबर 2003

632870 वा अ परशुराम गिरी, ए एफ एस ओ, 04 अक्टूबर 2003

632873 वा अ दामोदर सिंह, ए एफ एस ओ, 07 फरवरी 2003

632934 वा अ दिनेश चन्द्र सिंह, ए एफ एस ओ, 03 फरवरी 2003

632998 वा अ आराम सिंह, ए एफ एस ओ, 05 फरवरी 2003

633175 वा अ सत्यवीर सिंह काख्तान, ए एफ एस ओ, 04 अक्टूबर 2003

298578 वा अ राजेन्द्र प्रसाद, कैटरिंग असिस्टेंट, 01 फरवरी 2003

299028 वा अ राम सुमिरन प्रसाद, कैटरिंग असिस्टेंट, 01 फरवरी 2003

299257 वा अ प्रदीप कुमार गोगई, कैटरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003

299302 वा अ कल्याण चन्द, कैटरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003

299464 वा अ वेंकटेशन बालु कंटन, कैटरिंग असिस्टेंट, 01 फरवरी 2003

299600 वा अ तुलसी राम, कैटरिंग असिस्टेंट, 01 अप्रैल 2003

610150 वा अ अजीत कुमार श्रीवास्तव, कैटरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003

610297 वा अ पारस नाथ मिश्रा, कैटरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003

610427 वा अ वी रामाचन्द्रन, कैटरिंग असिस्टेंट, 01 अप्रैल 2003

610695 वा अ लखम सिंह पाल, कैटरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003

610900 वा अ भुवनेश्वर ठाकुरिया, कैटरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003

611395 वा अ सतवीर सिंह, कैटरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003

279802 वा अ सुदामा शाह, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

296555 वा अ भाग सिंह, अकाउंट क्लर्क, 07 नवम्बर 2001

296682 वा अ रघुनाथ प्रसाद कौशिक, अकाउंट क्लर्क, 01 अप्रैल 2002

297026 वा अ इन्द्र सिंह सामे, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

297232 वा अ विमल चन्द्र भांजा, अकाउंट क्लर्क, 02 जुलाई 2002

297281 वा अ साकिर अली, अकाउंट क्लर्क, 02 जुलाई 2002

297307 वा अ परशोत्तम लाल, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297313 वा अ श्रवण कुमार यादव, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297324 वा अ माधव चन्द्र ठाकुरिया, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297333 वा अ अवधेस कुमार पाठक, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297343 वा अ उन्नीथन आर वी, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297363 वा अ मोहिन्दर सिंह गहलावत, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297369 वा अ शिव प्रसाद, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297370 वा अ रामाशंकर दुबे, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297371 वा अ रामाशंकर पाण्डेय, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297373 वा अ शारदा प्रसाद मिश्रा, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297461 वा अ एस सिंह, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297559 वा अ राजपाल सिंह मलिक, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002

297613 वा अ थामस सी ए, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002

297634 वा अ बलदेव सिंह, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297660 वा अ श्याम चन्द्र झा, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002

297681 वा अ दुखोश्याम घोरई, अकाउंट क्लर्क, 02 अगस्त 2002

297703 वा अ शिव मूर्ति, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002

297705 वा अ परमेश्वर राय, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

297712 वा अ ठाकुरदास सरकार, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002

297745 वा अ अशोक कुमार, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002

297775 वा अ तरिणी शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

297779 वा अ खजूर सिंह नारायणा, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002

297782 वा अ गुरदास चन्द, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

297808 वा अ वासुदेवन संकरण, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

297820 वा अ नारायणन सतीन्द्रण, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

297843 वा अ उमेश चन्द शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

297945 वा अ शूरबीर सिंह, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

298036 वा अ धर्म नाथ सिंह, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

298037 वा अ कृष्ण देव तिवारी, अकाउंट क्लर्क, 02 नवम्बर 2002

298075 वा अ अब्दुल राशिद अंसारी, अकाउंट क्लर्क, 02 दिसम्बर 2002

298161 वा अ श्री गोपाल दास, अकाउंट क्लर्क, 02 दिसम्बर 2002

298200 वा अ बासु देव बिस्वास, अकाउंट क्लर्क, 02 दिसम्बर 2002

298249 वा अ बलम राम ठाकुर, अकाउंट क्लर्क, 02 दिसम्बर 2002

298269 वा अ धरमपाल, अकाउंट क्लर्क, 02 दिसम्बर 2002

298341 वा अ मेकल जोसेफ एन्टोनी, अकाउंट क्लर्क, 02 जनवरी 2003

298364 वा अ बैजनाथ कुशवाहा, अकाउंट क्लर्क, 02 दिसम्बर 2002

298365 वा अ श्री हर्ष त्रिपाठी, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298369 वा अ सुख राम, अकाउंट क्लर्क, 02 जनवरी 2003

298394 वा अ सुरेन्द्रन दामोदरन, अकाउंट क्लर्क, 02 जनवरी 2003

298396 वा अ त्रिलोक सिंह, अकाउंट क्लर्क, 02 जनवरी 2003

298397 वा अ राम स्वरूप शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298436 वा अ किशोर चन्द मिश्र, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298440 वा अ प्रमोद कुमार पात्रा, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298460 वा अ प्रभु नाथ शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 03 फरवरी 2003

298474 वा अ बल देव शाह, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298584 वा अ जोगेश चन्द्र कलिता, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298611 वा अ सरदारी लाल शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298709 वा अ रमेश कुमार, अकाउंट क्लर्क, 03 फरवरी 2003

298719 वा अ रामजस पाल सैनी, अकाउंट क्लर्क, 04 जनवरी 2003

298741 वा अ चिन्मोय मजुमदार, अकाउंट क्लर्क, 03 फरवरी 2003

298812 वा अ शिव लाल शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 03 फरवरी 2003

298826 वा अ कृष्णा कुमार गुप्ता, अकाउंट क्लर्क, 03 फरवरी 2003

298835 वा अ मवासी राम नागर, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

298845 वा अ अशरफी लाल संखवार, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

298867 वा अ नटवर लाल शर्मा, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

298894 वा अ जयाराम पान्डा, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

298912 वा अ कंवल सिंह, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

298991 वा अ नारायण सिंह पुरोहित, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

299010 वा अ हरि किशोरी त्रिवेदी, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

299013 वा अ गिरिजा शंकर पाण्डेय, अकाउंट क्लर्क, 03 मई 2003

299124 वा अ राय चौधरी वी, अकाउंट क्लर्क, 01 जून 2003

299158 वा अ मनोरंजन मंडल, अकाउंट क्लर्क, 01 जून 2003

- 299165 वा अ रमेश्वर प्रसाद दुबेदी, अकाउंट क्लर्क, 01 अगस्त 2003
- 299254 वा अ हंसराज राजपूत, अकाउंट क्लर्क, 01 जून 2003
- 299274 वा अ अब्दुल राशिद, अकाउंट क्लर्क, 01 जून 2003
- 299276 वा अ ब्रज किशोर भारती, अकाउंट क्लर्क, 01 जून 2003
- 299354 वा अ एम एन चेलाप्पन नायर, अकाउंट क्लर्क, 01 जून 2003
- 299393 वा अ कलारिकल विद्याधरण, अकाउंट क्लर्क, 01 अगस्त 2003
- 299497 वा अ बचन सिंह, अकाउंट क्लर्क, 01 अगस्त 2003
- 645042 वा अ रामफल ओहलान, अकाउंट क्लर्क, 02 सितम्बर 2002
- 294745 वा अ मोती लाल पटेल, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 अगस्त 2001
- 295251 वा अ केदार नाथ साह, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 295652 वा अ शेख इस्माइल, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 295770 वा अ पी कृष्णादासन, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 जनवरी 2002
- 295928 वा अ जोसेफ पी ए, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 जनवरी 2002
- 296427 वा अ राम जनम शर्मा, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2002
- 296459 वा अ रणधीर सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जुलाई 2002
- 296565 वा अ आत्मा राम, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जुलाई 2002
- 296967 वा अ गुरदेव सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जुलाई 2002
- 297092 वा अ पंसूर मधूसूदन रेड्डी, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जुलाई 2002
- 297162 वा अ दिव्येन्दु राय, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 297287 वा अ हेमशंकर सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 297407 वा अ इन्दर सिंह कुशवाहा, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जनवरी 2003
- 297493 वा अ शेर सिंह बैसला, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 297523 वा अ प्रकाश चन्द गुप्ता, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297553 वा अ वेदपाल सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जनवरी 2003
- 297589 वा अ रमेश कुमार अलग, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297657 वा अ शिवकान्त पाण्डेय, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297732 वा अ मदन प्रसाद साहु, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297733 वा अ राम नाथ यादव, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297747 वा अ बंशी लाल, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297749 वा अ राधा कृष्ण शर्मा, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 297750 वा अ बासुदेव सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297752 वा अ बाबु लाल, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 297768 वा अ धाराणी धर शर्मा, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297789 वा अ प्रीतम सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297830 वा अ धरमवीर, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 297937 वा अ राम कृष्ण उपाध्याय, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 298007 वा अ आशुतोष चट्टोपाध्याय, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 298008 वा अ बचन उपाध्याय, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 298023 वा अ आलोक कुमार मंडल, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 298031 वा अ अर्जुन, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 298032 वा अ ललन प्रसाद राय, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298033 वा अ शिव शंकर प्रसाद सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 298035 वा अ अवधेश सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 जनवरी 2003
- 298059 वा अ हरि नाथ तिवारी, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298089 वा अ लाबा न्यो रीलो, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298143 वा अ ओम प्रकाश यादव, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298144 वा अ गयासुद्दीन, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298145 वा अ परमेश्वर, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298149 वा अ शिव कुमार, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2003
- 298166 वा अ मोहम्मद अमीर अली, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298174 वा अ रतन सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2003
- 298204 वा अ विद्याधर सिंह सुंडा, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298207 वा अ गोपाल सिंह तैवर, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003

- 298213 वा अ सुख राम, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298219 वा अ लल्लू राम बंशीवाल, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2003
- 298231 वा अ हर्षो शरद चन्द्र, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2003
- 298256 वा अ ब्रज नाथ, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003
- 298300 वा अ चरणजीत सिंह गिल, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2003
- 298302 वा अ बी डी नामदेव, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2003
- 298310 वा अ रमेश पाटिल बी, जनरल इयूटी क्लर्क, 05 फरवरी 2003
- 298359 वा अ बलबीर सिंह चढ़ा, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298363 वा अ जगदीश चन्द, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 फरवरी 2003
- 298392 वा अ अशोक कुमार अवस्थी, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298398 वा अ बोधराज, जनरल इयूटी क्लर्क, 05 फरवरी 2003
- 298400 वा अ पृथीपाल सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298410 वा अ राजिन्दर सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 05 फरवरी 2003
- 298415 वा अ पेरूमल्लापल्ली जोना, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298421 वा अ पी एम कृष्णम राजु, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298444 वा अ पन्ना लाल ठाकुर, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298469 वा अ देव कुमार लाल, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298470 वा अ राम स्वरूप ठाकुर, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298471 वा अ जगदम्बा मिश्रा, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298472 वा अ योगेन्द्र सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298492 वा अ पाल्वे दत्तु एकनाथ, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298503 वा अ लक्ष्मण सिंह रावत, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298525 वा अ उन्नीकृष्णन अललीकल हाऊस., जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298530 वा अ रिदमल अचार्ज, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 298543 वा अ राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 मई 2003
- 298546 वा अ सत्या प्रसाद बुदाकुट्टी, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298557 वा अ एल रामातराकम, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298558 वा अ बी भास्कर राव, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298583 वा अ बुद्धि राम राजबंशी, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298593 वा अ हरीश कुमार गुप्ता, जनरल इयूटी क्लर्क, 06 जून 2003
- 298626 वा अ नरेश कुमार गुप्ता, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298652 वा अ राम सागर भारती, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298661 वा अ सुरिन्दर मोहन, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298664 वा अ प्रेमचन्द मसूता, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298666 वा अ महेश कुमार, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298730 वा अ भरत राय, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298763 वा अ मंगल सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298774 वा अ शनमुगम, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 जुलाई 2003
- 298807 वा अ जयन्त कुमार मित्रा मजुमदार, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298816 वा अ लेखराम शर्मा, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298833 वा अ शिवदास पाटिल, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298877 वा अ जोगिन्दर सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298890 वा अ देव नारायण पाण्डेय, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 जुलाई 2003
- 298898 वा अ मुसाफिर राय, जनरल इयूटी क्लर्क, 10 जून 2003
- 298902 वा अ हरदत्त सिंह यादव, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299000 वा अ ओम प्रकाश साहा, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 जुलाई 2003
- 299002 वा अ किशोरी सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299018 वा अ रघवेश्वर राम, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299026 वा अ रूप नारायण विश्वकर्मा, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299128 वा अ राम जतन शा, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299129 वा अ सूर्या नारायण शर्मा, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299143 वा अ अर्जुन सिंह तंजू, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299188 वा अ अपिगल्ला प्रसाद, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 299267 वा अ पशुपति नाथ झा, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 सितम्बर 2003
- 299271 वा अ अवध बिहारी सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003
- 602583 वा अ ओमप्रकाश शर्मा, जनरल इयूटी क्लर्क, 04 अगस्त 2003



- 645381 वा अ जय कृष्णा सिंह, किप्टोग्राफर, 04 जुलाई 2001
- 647671 वा अ प्रेम सागर गुप्ता, किप्टोग्राफर, 05 मार्च 2002
- 693713 वा अ नारायण दत्त शर्मा, शिक्षा अनुदेशक, 04 अप्रैल 2003
- 693781 वा अ बेय लाल, शिक्षा अनुदेशक, 02 अगस्त 2002
- 694782 वा अ सुखदेव सिंह सहदेव, शिक्षा अनुदेशक, 12 अगस्त 2002
- 694784 वा अ देव सिंह खाती, शिक्षा अनुदेशक, 12 मई 2001
- 694789 वा अ बिनोदा नन्द झा, शिक्षा अनुदेशक, 07 जुलाई 2003
- 694895 वा अ विजयभानु पदमनाभन, शिक्षा अनुदेशक, 02 अप्रैल 2003
- 694897 वा अ रामालिंगम गणपति सुंदरम, शिक्षा अनुदेशक, 02 अगस्त 2002
- 694899 वा अ पारधा सारथी कृष्णा अय्यर, शिक्षा अनुदेशक, 02 फरवरी 2002
- 694983 वा अ सुधांशु कुमार सामल, शिक्षा अनुदेशक, 12 मई 2001
- 694985 वा अ अनिमेश कुमार सिंह, शिक्षा अनुदेशक, 07 जुलाई 2003
- 700009 वा अ उमेद सिंह, शिक्षा अनुदेशक, 04 अगस्त 2002
- 700027 वा अ नरेन्द्र प्रसार कोठियाल, शिक्षा अनुदेशक, 12 अगस्त 2002
- 700028 वा अ चन्द्रन सुब्बा पिल्लई, शिक्षा अनुदेशक, 05 जुलाई 2003
- 700029 वा अ बाला भास्कर बुट्टा राव, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003
- 700776 वा अ बेसाम रोज विक्टर मनोज, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003
- 700809 वा अ दिबाकर रावत, शिक्षा अनुदेशक, 18 जुलाई 2003
- 700812 वा अ अभिमन्यु पटेल, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003
- 700928 वा अ योगेन्द्र सिंह, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003
- 700931 वा अ देवेन्द्र चन्द्र जोशी, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003
- 701116 वा अ शशांक शेखर झा बच्चन, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003
- 701117 वा अ प्रतिप चन्द्र मजुमदार, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003
- 281070 वा अ गुलाब चन्द राम, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जुलाई 2002
- 292846 वा अ नेपाल सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 अगस्त 2001
- 299195 वा अ दर्शन सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 605152 वा अ बिन्दर पाल, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 605906 वा अ मौजी लाल यादव, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 605943 वा अ हरनाम सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002
- 606163 वा अ अमरीक सिंह वेद, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 608377 वा अ दुर्गा शंकर, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002
- 606451 वा अ कैलाश बाबु, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 नवम्बर 2002
- 606697 वा अ लक्ष्मी नारायण चौधरी, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002
- 607076 वा अ नसीम अहमद खान, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 607583 वा अ सुरेश चन्द्र महापात्रा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002
- 607616 वा अ राजिन्दर सिंह सरवारा, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 अगस्त 2001
- 607682 वा अ मदन लाल मुकार, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 मार्च 2001
- 607824 वा अ जय भगवान, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 मार्च 2001
- 608064 वा अ सुरेन्द्र प्रताप नाराण सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003
- 608198 वा अ गौरी शंकर पटनायक, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002
- 608231 वा अ राम बहादुर यादव, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002
- 608387 वा अ दिनेश चन्द्र तंवर, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002
- 609529 वा अ निर्मल कुमार कुंडु, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002
- 608675 वा अ सूबेदार राम, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002
- 608689 वा अ जर रूप सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2001
- 608717 वा अ सुरेश चन्द्र सारस्वत, इलैक्ट्रिक फिटर, 04 जनवरी 2001
- 608735 वा अ उमेश चन्द्र कौशल, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 मार्च 2001
- 608780 वा अ कपिल देव मण्डल, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002
- 608786 वा अ कल्यानन्द केशरी, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 अगस्त 2001
- 608816 वा अ बाल चन्द राम यादव, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 मार्च 2001
- 608873 वा अ कामेश्वर ताल्मा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अगस्त 2001
- 608933 वा अ नारायण सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 609039 वा अ के श्रीधरण, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 मार्च 2001
- 609053 वा अ किशोरी प्रसाद सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 नवम्बर 2002
- 609055 वा अ अशोक कुमार, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 मई 2001
- 609066 वा अ भीम सिंह सोही, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

609077 वा अ अन्तर्जामी पाणीग्रही, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001

609201 वा अ चौधरी सत्यनारायण सुदामा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002

609229 वा अ एम सिवाग्नानम गौन्डर, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

609339 वा अ छिब्बर डी आर, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 मार्च 2001

609340 वा अ अहीबम अछी सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जुलाई 2002

609396 वा अ अनिल विश्वनाथ वाट्ठे, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002

609423 वा अ उमा शंकर दिक्षित, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2002

609426 वा अ सूबेदार सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001

609465 वा अ बालम सिंह नेगी, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002

609514 वा अ राजेन्द्र कुमार उपाध्याय, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001

609552 वा अ बाबू थामस, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 जनवरी 2002

609554 वा अ बिजेन्द्र सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 नवम्बर 2001

609555 वा अ केहर सिंह यादव, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 जनवरी 2002

609585 वा अ अधीर कुमार चन्द्रा, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 जनवरी 2002

609616 वा अ बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002

609673 वा अ अशोक कुमार शर्मा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जुलाई 2002

609712 वा अ बिनय सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जुलाई 2002

609713 वा अ नित्या नन्द सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002

609731 वा अ चन्दर सिंह ठाकुर, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जुलाई 2002

609762 वा अ दलीप कुमार पालीवाल, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002

609786 वा अ बिनय कुमार बराल, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जुलाई 2002

609814 वा अ प्रेम चन्द शर्मा, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002

609824 वा अ शिवजी सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 नवम्बर 2002

609836 वा अ विजय प्रकाश, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

609842 वा अ नरेश कुमार सिन्हा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जुलाई 2002

609949 वा अ अमरीक सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 03 फरवरी 2002

609962 वा अ किरणपाल सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 नवम्बर 2002

609996 वा अ जी राधाकृष्णन नायर, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002

634542 वा अ जीत सिंह पुण्डीर, इलैक्ट्रिक फिटर, 12 जनवरी 2003

650020 वा अ ओम प्रकाश सिन्हा, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

650021 वा अ राजा बाबू राय, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 जून 2002

650032 वा अ जलालुद्दीन अंसारी, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650057 वा अ मनोहर लाल शर्मा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650058 वा अ विरेन्द्र सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650107 वा अ लक्ष्मण सिंह रावत, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650119 वा अ बलराम सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

650135 वा अ योगेश कुमार पाण्डेय, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650136 वा अ केशव राम मिश्रा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650150 वा अ तुशार कान्ति पाल, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650152 वा अ कृष्णपाल शर्मा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650154 वा अ जयपाल सिंह वर्मा, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650176 वा अ रामपत उर्फ कालीचरण भाटी, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650259 वा अ रेवती रमन रामपाल, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

650264 वा अ अमर नाथ, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 नवम्बर 2002

650265 वा अ बैज नाथ, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650318 वा अ येल्लाप्रगाडा पी आर पी, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650374 वा अ मौहम्मद असरफ जमाल, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

650388 वा अ निम्बा राम परिहार, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

650394 वा अ राधा कृष्णा प्रसाद, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 नवम्बर 2002

650446 वा अ मौहम्मद फराहीम, इलैक्ट्रिक फिटर, 02 अक्टूबर 2002

650447 वा अ राजकुमार सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

650449 वा अ शिव कुमार राय, इलैक्ट्रिक फिटर, 01 नवम्बर 2002

650551 वा अ ओम प्रकाश चौधरी, इलैक्ट्रिक फिटर, 08 जनवरी 2003

650620 वा अ सतीश कुमार सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 12 जनवरी 2003

650647 वा अ सुधार ढिंगर राम, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

650651 वा अ मदन मोहन शर्मा, इलैक्ट्रिक फिटर, 12 जनवरी 2003

650672 वा अ महेन्द्र सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 08 जनवरी 2003

650729 वा अ जितेन्द्र कुमार सिंह, इलैक्ट्रिक फिटर, 12 जनवरी 2003

650781 वा अ रणधीर सिंह सैनी, इलैक्ट्रिक फिटर, 12 जनवरी 2003

650784 वा अ सुरिन्दर मोहन, इलैक्ट्रिक फिटर, 06 जनवरी 2003

- 296657 वा अ ईपन के ओ, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002
- 299450 वा अ इनागडप्पा सुब्बाराव,, इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 631607 वा अ भारत सिंह, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2002
- 641048 वा अ बिजय कुमार बदात्या, इंजन फिटर, 03 अप्रैल 2003
- 641516 वा अ दयानन्द मण्डल, इंजन फिटर, 02 मार्च 2003
- 641518 वा अ हरिनन्दन यादव, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003
- 641526 वा अ हरेन्द्र कुमार दास, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
- 641812 वा अ गौरी चरण बोस, इंजन फिटर, 02 जून 2002
- 641823 वा अ दाश अशोक कुमार, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 641990 वा अ गोरख सिंह, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002
- 642010 वा अ किशन स्वरूप भटनागर, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 642134 वा अ विजयकुमार कुंजुरमन विजयन, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003
- 642376 वा अ मधु टी के, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2002
- 642426 वा अ सुनील चन्द्र बनिक, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002
- 642476 वा अ अवधेश कुमार चौधरी, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002
- 642481 वा अ मौहम्मद अंसगर इमाम, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 642493 वा अ भोला प्रसाद सिंह, इंजन फिटर, 02 जून 2002
- 642498 वा अ सत्य प्रकाश, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2002
- 642571 वा अ जय गोविन्द प्रसाद अजय, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 642615 वा अ राजन लाल वर्मा, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
- 642643 वा अ सुरिन्दर सिंह गिल, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
- 642678 वा अ विश्व नाथ साहु, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 642895 वा अ रवि कान्त, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 642898 वा अ विजय सिंह राजपाल, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003
- 643109 वा अ जगरूप चन्द, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 643111 वा अ सरबजीत सिंह, इंजन फिटर, 02 जुलाई 2001
- 643123 वा अ राम भगवान सिंह, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 643155 वा अ हमीर सिंह सिसोदिया, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643159 वा अ रमेश मिश्रा, इंजन फिटर, 02 जून 2002
- 643425 वा अ रतिकान्ता मंडल, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643427 वा अ सुजीत कुमार दास, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643428 वा अ बिकास चक्रवर्ती, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643430 वा अ प्रसाद हरि शंकर, इंजन फिटर, 02 जून 2002
- 643435 वा अ बिजय बहादुर राय, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 643436 वा अ रतिकान्ता भुइयां, इंजन फिटर, 02 जून 2002
- 643437 वा अ कृष्णा चन्द्र साहु, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2002
- 643467 वा अ राज नारायण तिवारी, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 643468 वा अ अरूण कुमार ओझा, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643483 वा अ कटवाथपुराइल रविन्द्रन, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 643504 वा अ परशु राम नागर, इंजन फिटर, 02 अगस्त 2001
- 643529 वा अ लाल मणि मनिन, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643533 वा अ मिथलेश प्रसाद सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643549 वा अ रामेश्वर प्रसाद सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643553 वा अ अशोक कुमार गुप्ता, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2002
- 643554 वा अ उमेश चन्द्र उपाध्याय, इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 643556 वा अ नागेन्द्र कुमार खरे, इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 643567 वा अ ऋषिकेश जेना, इंजन फिटर, 02 जून 2002
- 643852 वा अ प्रेम चन्द शर्मा, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643892 वा अ विजय कुमार, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2002
- 643910 वा अ हीरा लाल सिंह, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
- 643913 वा अ रण बिजया सिंह, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
- 643916 वा अ कन्हैया पाठक, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643918 वा अ मौहम्मद कमालुद्दीन अंसारी, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643919 वा अ मौहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643923 वा अ विद्या सागर सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001
- 643932 वा अ वसन्त चन्द्र करण, इंजन फिटर, 02 जून 2002
- 643949 वा अ थॉमस थॉमस, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001
- 643986 वा अ सुभाष चन्द्र, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2001
- 643995 वा अ अनिल कुमार शुक्ला, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 644001 वा अ लाल जी राम, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001
- 644004 वा अ मदन मोहन तिवारी, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2001
- 644005 वा अ गिरीश कुमार, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001
- 644071 वा अ छद्ममी लाल शाहिक्या, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2001
- 644280 वा अ परवेश कुमार सैनी, इंजन फिटर, 02 जून 2002

644282 वा अ नजर सिंह, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002	644832 वा अ रखल मजुमदार, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
644316 वा अ सुखबीर सिंह जाखड, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001	644839 वा अ सांवत सिंह यादव, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644319 वा अ रण सिंह रावत, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001	644840 वा अ सत्य प्रकाश शर्मा, इंजन फिटर, 03 अप्रैल 2003
644323 वा अ प्रेम सिंह दलाल, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002	644851 वा अ राजेन्द्र सिंह मलिक, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
644347 वा अ गंगा सागर शर्मा, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2001	644853 वा अ ऋषिपाल सिंह तेवतिया, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001
644379 वा अ विजय कुमार शर्मा, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002	644859 वा अ श्रवण राम, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002
644385 वा अ बैकुंठ व्यास, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2001	657097 वा अ बिरेन्द्र कुमार सिंह, इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2002
644394 वा अ इन्द्र देव सिंह, इंजन फिटर, 03 अप्रैल 2003	657098 वा अ महेन्द्र सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644400 वा अ नागेन्द्र चरण बाजपेयी, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003	657145 वा अ अशोक कुमार सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644415 वा अ अच्छेलाल पाल, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001	657390 वा अ गोपाल पाण्डेय, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003
644416 वा अ कर्ण देव सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002	657422 वा अ लाल प्रताप सिंह, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002
644499 वा अ ज्ञान चन्द शर्मा, इंजन फिटर, 02 मार्च 2003	657427 वा अ सत्य प्रकाश शर्मा, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001
644502 वा अ ओमप्रकाश उपाध्याय, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002	657653 वा अ रामजी उपाध्याय, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2002
644722 वा अ सुरेश प्रसाद, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001	657689 वा अ महेश चन्द्र शर्मा, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
644725 वा अ शिवजी ठाकुर, इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2002	657692 वा अ अश्विनी कुमार शर्मा, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
644730 वा अ शरद मोहन खरे, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2002	657693 वा अ राम कुमार त्रिपाठी, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003
644731 वा अ महेश नन्द सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002	657696 वा अ सोहराब अली, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003
644732 वा अ रमेश प्रसाद झा, इंजन फिटर, 03 अप्रैल 2003	657698 वा अ प्रेमनाथ, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644733 वा अ अशोक कुमार सिंह, इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2002	657701 वा अ राम कुमार पाण्डेय, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
644738 वा अ अमल कृष्ण देबनाथ, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2002	657927 वा अ आनन्द कुमार राय, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644756 वा अ कटोच गौतम चन्द, इंजन फिटर, 02 मार्च 2003	657941 वा अ बृज भूषण सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644771 वा अ नरेन्द्र कुमार पाथी, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003	657953 वा अ रामेश्वर दयाल शर्मा, इंजन फिटर, 02 जनवरी 2003
644773 वा अ खगेश्वर स्वैन, इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2002	657957 वा अ मोहन सिंह राठौर, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002
644783 वा अ गिरीश चन्द्र वर्मा, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002	657965 वा अ रमेश सिंह चौहान, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644784 वा अ विजयपाल सिंह, इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2002	657968 वा अ रघुबीर प्रसाद पाल, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644792 वा अ योगेन्द्र प्रसाद, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001	657972 वा अ मथुरा प्रसाद यादव, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644796 वा अ रघुवंश सिंह, इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2001	657974 वा अ अवधेश कुमार सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644809 वा अ बृज भूषण सिंह, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर 2001	658201 वा अ सूर्य नाथ यादव, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
644814 वा अ बालक राम, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002	658203 वा अ सुदीप कुमार बिस्वास, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
644817 वा अ रघुवीर सिंह, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002	658219 वा अ गुरमेल सिंह, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644820 वा अ राजकुमार दीक्षित, इंजन फिटर, 02 फरवरी 2002	658222 वा अ भैरव लाल नायक, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002
644822 वा अ विश्वम्भर प्रसाद, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002	658223 वा अ सज्जन लाल माथुर, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
644827 वा अ दीनानाथ चौधरी, इंजन फिटर, 03 जुलाई 2002	658231 वा अ सोमनाथन टी के, इंजन फिटर, 03 अगस्त 2002

- 658239 वा अ लाल चन्द्र मिश्रा, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 658463 वा अ निरोत्तम कुमार सिंह, इंजन फिटर, 02 मार्च 2003
- 658479 वा अ जदुनाथ सिंह, इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 658500 वा अ फूला राम, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 658725 वा अ कालू राम, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 658744 वा अ पीताम्बर कुमार शर्मा, इंजन फिटर, 02 मार्च 2003
- 658756 वा अ चन्द्र प्रकाश गौड़, इंजन फिटर, 02 मार्च 2003
- 658946 वा अ कृष्ण लाल, इंजन फिटर, 02 मार्च 2003
- 658963 वा अ राम किशोर सिंह, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 658964 वा अ रवि शंकर प्रसाद सिंह, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659046 वा अ भीष्म देव कुमार, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659076 वा अ सुरेन्द्र कुमार वर्मा, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659086 वा अ श्रीदम चन्द्र दास, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659107 वा अ बिपिन बिहारी दास, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659238 वा अ मन्तोष सेन, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659413 वा अ जय सिंह चहल, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659426 वा अ रामेश्वर प्रसाद, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659553 वा अ बिन्दर सिंह, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659671 वा अ बीरसेन दुहान, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 659677 वा अ रघुबीर सिंह नेगी, इंजन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 291692 वा अ रंगजी, उपस्कर सहायक, 02 सितम्बर 2002
- 295148 वा अ राज नारायण राम, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2002
- 295793 वा अ वी लिंगयाह, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 295967 वा अ नन्दु सिंह, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 296368 वा अ शिव प्रसाद, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 296443 वा अ दुर्गा राम भाटी, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2001
- 296613 वा अ दुर्गामथाबा पटनायक, उपस्कर सहायक, 02 सितम्बर 2002
- 296967 वा अ गजेन्द्र सिंह चौहान, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2001
- 296996 वा अ बासु देव सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003
- 297148 वा अ सुरिन्दर सिंह, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 297212 वा अ भागीरथ सिन्हा, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 297335 वा अ सुभाष चन्द्र मेहरा, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
- 297348 वा अ प्रबीण कुमार प्याने, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 297784 वा अ अमर नाथ, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003
- 297904 वा अ चन्द्र पाल मिश्रा, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2002
- 297906 वा अ गुलशन लाल, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 298011 वा अ दिलीप कुमार राय, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003
- 298116 वा अ परामु पी एम, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 298153 वा अ जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298155 वा अ सुरेन्द्र कुमार, उपस्कर सहायक, 02 जून 2002
- 298220 वा अ जगदीश प्रसाद, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298380 वा अ कँवर भान, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298386 वा अ चित्रानन्द शर्मा, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298389 वा अ लाल बिहारी सिंह, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298403 वा अ वेद प्रकाश, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003
- 298486 वा अ अमीनभवि चन्द्रकान्त लक्ष्मण, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298490 वा अ सुरेन्द्र कुमार बासी, उपस्कर सहायक, 02 जून 2002
- 298576 वा अ सत्यवीर सिंह फोगाट, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298581 वा अ देबा प्रसाद देत्यारी, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298589 वा अ हरेन्द्र कुमार दे, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298597 वा अ जगदीश प्रसाद, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
- 298599 वा अ श्याम सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298601 वा अ हिन्द पाल, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298618 वा अ राम पाल शर्मा, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298633 वा अ भीम सिंह ढलारिया, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298753 वा अ राजेन्द्र प्रताप, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298787 वा अ रंगास्वामी तैल्लासामी, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298810 वा अ सुरेश चन्द्र पाल, उपस्कर सहायक, 02 जुलाई 2002
- 298848 वा अ चरण जीत कुमार, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298853 वा अ डेका जोगेन्द्र नाथ, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298892 वा अ शिव राम पांडियार, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298947 वा अ हवा सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298955 वा अ पवन कुमार ठाकुर, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 298971 वा अ सुगन चन्द चौहान, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
- 299014 वा अ जय भगवान वर्मा, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003

299015 वा अ सिंघासन सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002	299563 वा अ इकबाल अहमद, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299038 वा अ राम एम, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002	299568 वा अ मलय गोस्वामी, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299041 वा अ विजय नारायण पाण्डेय, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002	299571 वा अ राम खिलावन, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299074 वा अ रविन्द्रन कोलों, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002	299638 वा अ धनेश्वर मल्ला, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002
299082 वा अ अमरीक सिंह भट्ट, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002	299658 वा अ सत्या नारायण राय, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
299136 वा अ हरबंस सिंह, उपस्कर सहायक, 02 सितम्बर 2002	299663 वा अ कमता प्रसाद सिंह, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
299137 वा अ बालन कोकाटन, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003	299697 वा अ शेख अब्दुल रेहमान, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002
299166 वा अ शिव शंकर लाल, उपस्कर सहायक, 02 सितम्बर 2002	299721 वा अ केशर खान सिलावत, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002
299171 वा अ चन्द्र किशोर अवस्थी, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299723 वा अ लायक अहमद, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299198 वा अ तपन कुमार बोस, उपस्कर सहायक, 02 सितम्बर 2002	299736 वा अ कहतुलुरी अनवर खान, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003
299220 वा अ महेन्द्र प्रसाद महतो, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299750 वा अ एस हरजीत सिंह, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003
299222 वा अ प्रेम सिंह देसवाल, उपस्कर सहायक, 02 सितम्बर 2002	299756 वा अ गलहा सिंह, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
299229 वा अ कृष्णन अशोकन, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299843 वा अ राम गोविन्द सिंह, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002
299249 वा अ बलवन्त सिंह रावत, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003	299847 वा अ विश्वेश्वर शर्मा, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299299 वा अ खैराती लाल भल्ला, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299848 वा अ शिवजी शुक्ला, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299309 वा अ सूर्य देव शुक्ला, उपस्कर सहायक, 02 जनवरी 2003	299901 वा अ राम मोहन सी पी, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002
299402 वा अ हरीश चन्दर कच्छवाहा उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299912 वा अ बुट्टा वेंकटेश, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
299403 वा अ दुर्गा दास तंवर, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299918 वा अ बिजोय कुमार मजुमदार, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299404 वा अ लक्ष्मण सिंह चौहान, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299931 वा अ जगदम्बा प्रसाद यादव, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003
299432 वा अ मेडिडि हिमेश्वर राव, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299950 वा अ रोमेश चन्दर शर्मा, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002
299446 वा अ अबुलामोन्डा वैकटिया, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002	299968 वा अ प्रभु नाथ प्रसाद साह, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003
299451 वा अ कैलाश चन्दर शर्मा, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299975 वा अ प्रेम चन्द्र, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299523 वा अ तिलक राम, उपस्कर सहायक, 02 अक्टूबर 2002	299988 वा अ छुन्नु, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002
299529 वा अ अरूण कुमार सन्तरा, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003	602420 वा अ गुली चरण सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2002
299530 वा अ पंकज कुमार कपूरिया, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002	607346 वा अ सुदामा प्रसाद, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002
299537 वा अ मामन सिंह भारद्वाज, उपस्कर सहायक, 02 नवम्बर 2002	610033 वा अ बलिभद्र सिंह जामवाल, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
	610048 वा अ करतार सिंह ठाकुर, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
	610061 वा अ जय नारायण सिंह, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003
	610066 वा अ भीराम सिंह, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
	610083 वा अ जे सेमुवल कुट्टी, उपस्कर सहायक, 02 फरवरी 2003
	610087 वा अ एम सुब्रमण्यन, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003

610128 वा अ सुरेन्द्र मल्लिक, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	669242 वा अ खिलाडी काशिनाथ मिका, फ्लाइट इंजीनियर, 02 जून 2002
610147 वा अ प्रीतम दास कुमार, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	675132 वा अ रामफल, फ्लाइट इंजीनियर, 02 जून 2002
610162 वा अ कम्बली प्रभाकरण, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	675475 वा अ रणधीर सिंह सिद्ध, फ्लाइट इंजीनियर, 23 अगस्त 2002
610212 वा अ धीरज सिंह, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	676134 वा अ सैलेश कुमार सिंह, फ्लाइट इंजीनियर, 04 जून 2002
610219 वा अ आनन्द सिंह राणा, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	677019 वा अ रमेश चन्द्र जोशी, फ्लाइट इंजीनियर, 02 जून 2002
610230 वा अ श्याम लाल श्रीवास्तव, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	678078 वा अ हरबंश लाल कलशी, फ्लाइट इंजीनियर, 06 जून 2002
610233 वा अ कमल प्रसाद सिंह, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	658570 वा अ दयानन्द झा, फ्लाइट गनर, 03 फरवरी 2002
610267 वा अ गोपाल चन्द्र चक्रवर्ती, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	659308 वा अ राम चन्द्र शर्मा, फ्लाइट गनर, 02 मई 2002
610276 वा अ चार्ल्स साल्दाना, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	661178 वा अ रमेश चन्द, फ्लाइट गनर, 03 अक्टूबर 2002
610293 वा अ कमला पति सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	661335 वा अ रामचन्द्र मिश्रा, फ्लाइट गनर, 03 अक्टूबर 2002
610295 वा अ उपेन्द्र कुमार भक्ता, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	294288 वा अ सुरेश चन्द्र बोर बरूआ, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 19 जून 2003
610305 वा अ नर सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	296220 वा अ शिवा नारायण तिवारी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 15 जून 2003
610325 वा अ गणेश सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	296222 वा अ राजाराम शर्मा, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 13 जून 2003
610336 वा अ सुभाष चन्द्र सेन, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	296224 वा अ टाय सिवरामा भक्त, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 जून 2003
610341 वा अ सुख राम सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	296225 वा अ रमेश चन्द्र सन्तारा, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 05 जून 2003
610342 वा अ यादव परशुराम, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	296229 वा अ सुब्रतो कुमार चटर्जी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 सितम्बर 2003
610343 वा अ अवतार सिंह, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	296233 वा अ गुरमीत सिंह, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 03 जून 2003
610351 वा अ रामेश्वर सिंह, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	296234 वा अ पडाकुलंगरा ओसेफ देवासी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 जून 2003
610357 वा अ चन्द्र बदन सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	610187 वा अ रणजोर सिंह, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 सितम्बर 2003
610388 वा अ रविन्द्रन नायर, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	610222 वा अ मधुकर मुरलीधर भरोबे, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 09 जून 2003
610392 वा अ तिलक राज, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	610383 वा अ केदार नाथ, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 सितम्बर 2003
610450 वा अ सुबोध चद्र दास, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	610759 वा अ सुभाष चन्द्र बसक, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 17 जून 2003
610452 वा अ विजयन वीरान, उपस्कर सहायक, 02 मार्च 2003	610945 वा अ अशोक भीमाजी लोकारे, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 09 जून 2003
610465 वा अ कपूरा राम देवरा, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	611141 वा अ राम शरण, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 जनवरी 2004
610486 वा अ किशोर चन्द्र लवाणा, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	611588 वा अ माना राम बिश्नोई, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 जनवरी 2004
610491 वा अ परमजीत सिंह, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	611817 वा अ बाबा जोसेफ, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 फरवरी 2004
610505 वा अ कृष्ण मोहन सिंघा, उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2003	612169 वा अ मदाला राम राव, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 04 अगस्त 2003
610530 वा अ जी अशोक राव, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	612254 वा अ जुगल किशोर सिंह, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 फरवरी 2004
610547 वा अ मुरली मनोहर सहगल, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	612491 वा अ सोभानन शिवदासन, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, 01 सितम्बर 2003
610550 वा अ गुरचरण सिंह, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	727050 वा अ पाटिल मोहन राम चन्द्र, जी टी आई खेलकूद, 01 जनवरी 2004
610554 वा अ सोम राज छिब्वर, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	285367 वा अ हरि नारायण ओझा, भारतीय वायु सेना पुलिस, 01 मई 2003
610589 वा अ सूबेदार चौधरी, उपस्कर सहायक, 02 मई 2003	286033 वा अ आबाधुत रावत, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जून 2001
648247 वा अ बिशन सिंह शेखावत, उपस्कर सहायक, 02 अगस्त 2001	
669018 वा अ राजीव कालिया वीटिल, फ्लाइट इंजीनियर, 02 जून 2002	



286048 वा अ छेदी सिंह राठोर, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जून 2002	287207 वा अ हंस राज महीन, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जनवरी 2003
286174 वा अ वेद प्रकाश, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 नवम्बर 2001	287388 वा अ कोठकोन्डा वैकटेशम, भारतीय वायु सेना पुलिस, 03 मई 2003
286334 वा अ के अनन्त कुमार के, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जनवरी 2002	607187 वा अ सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जून 2002
286473 वा अ रणजीत कुमार दत्ता, भारतीय वायु सेना पुलिस, 03 फरवरी 2002	607188 वा अ कुंवर सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 नवम्बर 2002
286610 वा अ मानकेश्वर सिंह, भारतीय वायु सेना पुलिस, 04 जुलाई 2002	608166 वा अ हेम चन्दर, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जून 2002
286727 वा अ नित्या नन्द राय, भारतीय वायु सेना पुलिस, 04 जुलाई 2002	608234 वा अ युगल किशोर तिवारी, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जुलाई 2002
286737 वा अ प्रेम सिंह यादव, भारतीय वायु सेना पुलिस, 04 जुलाई 2002	608610 वा अ ज्ञान चन्द श्रीवास्तव, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 नवम्बर 2002
286829 वा अ जयपाल दलाल, भारतीय वायु सेना पुलिस, 04 जुलाई 2002	608790 वा अ शिव यतन सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2002
286831 वा अ करतार सिंह, भारतीय वायु सेना पुलिस, 04 जुलाई 2002	608991 वा अ रामेन्द्र सिंह सच्चन, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2001
286836 वा अ दरबारी लाल बालि, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 अक्टूबर 2002	609046 वा अ कमल नारायण सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अक्टूबर 2002
286839 वा अ वर्धसि वर्धसि अराकल, भारतीय वायु सेना पुलिस, 04 जुलाई 2002	609048 वा अ निर्मल कुमार सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2001
286840 वा अ पीलोस थॉमस, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 अक्टूबर 2002	609050 वा अ जय नाथ सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 01 नवम्बर 2002
286847 वा अ एम पुरुषोत्तमन, भारतीय वायु सेना पुलिस, 04 जुलाई 2002	609251 वा अ शिवाजी सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 नवम्बर 2002
286956 वा अ शर्मा एल सी, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 अक्टूबर 2002	609257 वा अ बच्चा प्रसाद, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 फरवरी 2002
286858 वा अ गणेश शंकर मिश्रा, भारतीय वायु सेना पुलिस, 05 नवम्बर 2002	609317 वा अ प्रमोद कुमार शर्मा, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जून 2002
286860 वा अ राम कुमार सिंह, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 अक्टूबर 2002	609332 वा अ विजय शंकर मोहन देवदास, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अक्टूबर 2002
286962 वा अ कीझेट्टू ज्लूम वासुदेवन एले, भारतीय वायु सेना पुलिस, 05 नवम्बर 2002	609347 वा अ अशोक कुमार, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जून 2002
286963 वा अ पी सी फिलिप, भारतीय वायु सेना पुलिस, 01 नवम्बर 2002	609360 वा अ सुकान्त कुमार राय, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जून 2002
286972 वा अ नागेन्द्र नाथ आझा, भारतीय वायु सेना पुलिस, 01 मई 2003	609598 वा अ देवेन्द्र कुमार वर्मा, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 नवम्बर 2002
286975 वा अ रूप चन्द, भारतीय वायु सेना पुलिस, 03 नवम्बर 2002	609670 वा अ मौहम्मद असलम खान, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अक्टूबर 2002
287062 वा अ बिजय बहादुर सिंह, भारतीय वायु सेना पुलिस, 01 मई 2003	609675 वा अ गिरीश मोहन कुंडलिया, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अक्टूबर 2002
287082 वा अ एदाथिल एन्टोनी फेन्सिस, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जनवरी 2003	609678 वा अ हिंच लाल कुशवाहा एल, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2002
287083 वा अ शेर सिंह तोमर, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जनवरी 2003	609728 वा अ जयबीर सिंह पवेरिया, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जुलाई 2002
287084 वा अ जगदीश चन्द कैहिन्याल, भारतीय वायु सेना पुलिस, 05 नवम्बर 2002	609742 वा अ भुनेश्वर प्रसाद शा, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2002
287097 वा अ नन्द किशोर, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जनवरी 2003	609763 वा अ प्रकाश चन्द्र चौधरी, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जुलाई 2002
287199 वा अ ज्ञानेन्द्र सिंह बंसल, भारतीय वायु सेना पुलिस, 03 मई 2003	609843 वा अ जगन्नाथ सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अक्टूबर 2002
287202 वा अ सुरेश चन्द्र जेठा, भारतीय वायु सेना पुलिस, 02 जनवरी 2003	609848 वा अ ब्रह्मा नन्द शर्मा, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 जून 2002
	609890 वा अ बटवाला लच्छैया, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 नवम्बर 2002
	609921 वा अ जगदीश सिंह राजपूत, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अक्टूबर 2002
	609924 वा अ विश्वम्भर सिंह बासवान, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2002
	609936 वा अ कामेश्वर प्रसाद, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 01 नवम्बर 2002
	609944 वा अ इन्दर सिंह मलिक, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2002
	609959 वा अ देवेन्द्र सिंह तेवतिया, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 अगस्त 2002



650010 वा अ मृत्युंजय कुमार सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 नवम्बर 2002  
 650014 वा अ विजय कुमार सिंह, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 दिसम्बर 2002  
 650089 वा अ अनन्त चरण साहु, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 दिसम्बर 2002  
 650092 वा अ सत्या नारायण गुप्ता, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 21 जनवरी 2003  
 650093 वा अ रामा शंकर, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 दिसम्बर 2002  
 650101 वा अ कृष्णा पिल्लै मोहनन पिल्लै, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 02 फरवरी 2003  
 650113 वा अ मुरारी प्रसाद गुप्ता, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 21 जनवरी 2003  
 650115 वा अ जनार्दन यादव, इंस्ट्रुमेंट फिटर, 03 दिसम्बर 2002  
 242343 वा अ अवतार सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2001  
 242370 वा अ वाडेकर वसुदेव नामदेव, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2001  
 242423 वा अ पुरुषोत्तम सिंह बंडराल, चिकित्सा सहायक, 02 अक्टूबर 2001  
 242431 वा अ जैनुलाबेद्दीन खान, चिकित्सा सहायक, 02 दिसम्बर 2001  
 242452 वा अ शम्बीर खान, चिकित्सा सहायक, 02 अक्टूबर 2001  
 242477 वा अ जनक कुमार, चिकित्सा सहायक, 02 दिसम्बर 2001  
 242596 वा अ नन्द किशोर, चिकित्सा सहायक, 02 जून 2002  
 242629 वा अ राम चन्द्र गुप्ता, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242634 वा अ रेशन लाल पोखरियाल, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242635 वा अ सुरेन्द्र सिंह मनराल, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242637 वा अ बिजेन्द्र झा, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242646 वा अ तपन कुमार बासु, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242658 वा अ श्याम बहादुर वर्मा, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242661 वा अ सरनाम सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242663 वा अ राधे श्याम प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242668 वा अ वेद व्यास शर्मा, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242677 वा अ आर के नायक, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2001  
 242683 वा अ पूर्ण गोपाल चौधरी, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242690 वा अ सदानन्दन पी, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002  
 242705 वा अ प्रसाद बेजनाथ, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242706 वा अ कुंवर लल्लन सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242721 वा अ विष्णु लाल टोंक, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242723 वा अ कैलाश चन्द्र शर्मा, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242726 वा अ नरेन्द्र तिवारी, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242727 वा अ श्री भगवान सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002

242732 वा अ श्रीनिवास त्रिपाठी, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242753 वा अ निखिल कुमार मंडल, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242757 वा अ यदुनन्दन प्रसाद, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242758 वा अ शिव सरन पी डी सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002  
 242769 वा अ चमक चन्द्र डेका, चिकित्सा सहायक, 02 सितम्बर 2002  
 242770 वा अ अशोक इरासंगप्पा जेवूर, चिकित्सा सहायक, 02 सितम्बर 2002  
 242772 वा अ मंगुलु दलाई, चिकित्सा सहायक, 02 अक्टूबर 2002  
 242773 वा अ गोविन्दचन्द्र पुरोहित, चिकित्सा सहायक, 02 सितम्बर 2002  
 242774 वा अ पूर्ण चन्द्र जैन, चिकित्सा सहायक, 02 सितम्बर 2002  
 242788 वा अ ए बेबी फिलिप, चिकित्सा सहायक, 02 नवम्बर 2002  
 242794 वा अ राजा राम सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 अक्टूबर 2002  
 242800 वा अ धरम पाल सिंह शर्मा, चिकित्सा सहायक, 02 अक्टूबर 2002  
 242818 वा अ राम उगार मिश्रा, चिकित्सा सहायक, 02 अक्टूबर 2002  
 242823 वा अ हरि कुमार प्रसाद केसरी, चिकित्सा सहायक, 02 नवम्बर 2002  
 242831 वा अ दिवाकर दत्त शर्मा, चिकित्सा सहायक, 02 अक्टूबर 2002  
 242838 वा अ अरविन्द कुमार पॉल, चिकित्सा सहायक, 02 जनवरी 2003  
 242840 वा अ महेन्द्र कुमार राय, चिकित्सा सहायक, 02 दिसम्बर 2002  
 242841 वा अ अजीत सिंह पंजाबी, चिकित्सा सहायक, 02 दिसम्बर 2002  
 242842 वा अ अवतार सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 जनवरी 2003  
 242843 वा अ संकाजन उमेन, चिकित्सा सहायक, 02 दिसम्बर 2002  
 242857 वा अ सुखबीर सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 फरवरी 2003  
 242858 वा अ खेम चन्द धिमन, चिकित्सा सहायक, 02 फरवरी 2003  
 242862 वा अ त्रिपुरारि अत्थूता रामैय्या, चिकित्सा सहायक, 02 फरवरी 2003  
 242869 वा अ कमल जीत सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 मार्च 2003  
 242872 वा अ तिवारी सूर्य कुमार, चिकित्सा सहायक, 02 अप्रैल 2003  
 242877 वा अ राज देव भगत, चिकित्सा सहायक, 02 अप्रैल 2003  
 242878 वा अ सुर्जा नारायण पाण्डा, चिकित्सा सहायक, 02 अप्रैल 2003  
 242881 वा अ मंगल सिंह यादव, चिकित्सा सहायक, 02 मार्च 2003  
 242884 वा अ बलबीर सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 मार्च 2003  
 242893 वा अ हरीश कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सा सहायक, 02 फरवरी 2003  
 242895 वा अ प्रमोद कुमार सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 अप्रैल 2003  
 242896 वा अ कपूर सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 मार्च 2003

242897 वा अ राजेन्द्र सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	287459 वा अ ओम पाल नागवान, एम टी फिटर, 02 जुलाई 2002
242908 वा अ बालक राम, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	287494 वा अ नारायणप्पा उदयशंकर, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002
242914 वा अ कल्याण सिंह राठौर, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	287608 वा अ के सुब्रमण्यन, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2001
242917 वा अ बेचन लाल गुप्ता, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	287617 वा अ शेख वाली, एम टी फिटर, 02 जून 2002
242922 वा अ राघव प्रसाद सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	287670 वा अ पंचू सिंह, एम टी फिटर, 02 जून 2002
242924 वा अ रामजीत सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	287685 वा अ महादेव दास, एम टी फिटर, 02 फरवरी 2002
242926 वा अ चितरंजन शर्मा, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	615090 वा अ रवीन्द्रन उमासदन वरीयम, एम टी फिटर, 02 जुलाई 2002
242934 वा अ महबूब सुभानी, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	615508 वा अ एस मरूधवनन, एम टी फिटर, 02 अगस्त 2001
242935 वा अ नन्द लाल, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	615700 वा अ मोहिन्दर सिंह बल, एम टी फिटर, 02 जून 2002
603967 वा अ गोपाला पिल्लै के पी, चिकित्सा सहायक, 02 जुलाई 2002	615708 वा अ काना राम राजपूत, एम टी फिटर, 02 फरवरी 2002
609356 वा अ ओम प्रकाश चौबे, चिकित्सा सहायक, 02 मई 2003	616337 वा अ जनार्धनन मेल्लेआत्म, एम टी फिटर, 02 फरवरी 2002
612603 वा अ कपीश्वर सिंह, चिकित्सा सहायक, 02 अगस्त 2002	659068 वा अ परशु राम सिंह, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002
617984 वा अ ललन प्रसाद, चिकित्सा सहायक, 02 अप्रैल 2003	659082 वा अ गोरंगा चन्द्र सिल, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002
632081 वा अ सुरेश पाण्डेय, चिकित्सा सहायक, 02 मार्च 2003	659089 वा अ भाभा देव ओझा, एम टी फिटर, 02 फरवरी 2002
603798 वा अ मुक्ति नारायण मिश्रा, मेट सहायक, 03 दिसम्बर 2002	659171 वा अ जय नारायण गुप्ता, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002
604360 वा अ अरूण बिकास धार, मेट सहायक, 01 मई 2002	659324 वा अ बलदेव सिंह, एम टी फिटर, 02 सितम्बर 2002
604788 वा अ गोरख नाथ, मेट सहायक, 03 अगस्त 2002	659360 वा अ रामफल सिंह धंकड, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002
631828 वा अ छोटे लाल यादव, मेट सहायक, 03 अगस्त 2002	659364 वा अ हरीश चन्द्र शिवरन, एम टी फिटर, 02 अक्टूबर 2002
632338 वा अ एस पूनम, मेट सहायक, 03 जनवरी 2003	659412 वा अ जोगिन्दर सिंह, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002
632374 वा अ नरेश चन्द, मेट सहायक, 03 जून 2003	659446 वा अ जग वीर सिंह चौहान, एम टी फिटर, 02 सितम्बर 2002
632398 वा अ परमेश्वर दयाल, मेट सहायक, 03 दिसम्बर 2002	659455 वा अ सतीश चन्द्र कटियार, एम टी फिटर, 02 जून 2002
632405 वा अ राम लाल एनानिया, मेट सहायक, 03 जून 2002	659493 वा अ सुधीर प्रसाद यादव, एम टी फिटर, 02 अक्टूबर 2002
632739 वा अ सत्या नारायण सिंह, मेट सहायक, 03 दिसम्बर 2002	659692 वा अ चौधरी बीरबल सिंह, एम टी फिटर, 02 अक्टूबर 2002
632747 वा अ मौहम्मद जमालुर्राजा, मेट सहायक, 05 दिसम्बर 2002	285455 वा अ तेज नारायण सिंह, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
632937 वा अ ब्रजेश दुबे, मेट सहायक, 03 जनवरी 2003	286268 वा अ गोपालाकृष्णन पिल्लै जी, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
633209 वा अ नायब सिंह, मेट सहायक, 01 अगस्त 2003	286369 वा अ रामजी सिंह, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
633240 वा अ श्री गोविन्द पाल, मेट सहायक, 03 अगस्त 2003	287435 वा अ एम वैकटाचलम, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
633426 वा अ जय किशन, मेट सहायक, 01 अगस्त 2003	287455 वा अ चेत राम शर्मा, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
286415 वा अ कृष्णा चन्द्र मिश्रा, एम टी फिटर, 02 जून 2002	287460 वा अ प्रभुदयाल सिंह देव, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
286994 वा अ एस सुब्रमण्यन, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002	287577 वा अ कुँवर राम, एम टी ड्राइवर, 01 फरवरी 2002
287241 वा अ एन नटराजन, एम टी फिटर, 02 अप्रैल 2002	287866 वा अ रूप सिंह राजपुरोहित, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
287308 वा अ लाल बाबु सिंह, एम टी फिटर, 02 सितम्बर 2002	287924 वा अ गंगा सागर चौधरी, एम टी ड्राइवर, 06 सितम्बर 2002
287450 वा अ रामाश्रेय सिंह, एम टी फिटर, 02 अगस्त 2002	287927 वा अ राम नरेश शुक्ला, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002
287454 वा अ भूपेन्द्र जीत सिंह चड्ढा, एम टी फिटर, 02 जून 2002	287978 वा अ कुशल कुमार शर्मा, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

612360 वा अ सहजानन्द सिंह, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

615023 वा अ बिपिन बिहारी मल्लिक, एम टी ड्राइवर, 03 अप्रैल 2002

615047 वा अ एच बी राजु, एम टी ड्राइवर, 03 अप्रैल 2002

615050 वा अ जय नारायण सिंह जून, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

615067 वा अ एम डी सादिक अली, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2002

615113 वा अ अजमेर सिंह, एम टी ड्राइवर, 03 अप्रैल 2002

615209 वा अ अनंत राम साहु, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

615270 वा अ राज किशोर सिंह, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

615283 वा अ नाथूराम शर्मा, एम टी ड्राइवर, 03 अप्रैल 2002

615534 वा अ शंकर नाथ मुखोपाध्याय, एम टी ड्राइवर, 03 अप्रैल 2002

615686 वा अ फूल चन्द, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

615692 वा अ राजेन्द्र प्रसाद यादव, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

615714 वा अ रामज्योतिष, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

615743 वा अ भाग्य नारायण सिंह, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616110 वा अ भवानी प्रसाद जेयसवाल, एम टी ड्राइवर, 06 सितम्बर 2002

616146 वा अ मल्लिकयत सिंह पुनियाल, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616176 वा अ बृज किशोर सिन्हा, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616339 वा अ राजु टी के, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616383 वा अ रामकिशोर त्रिपाठी, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616391 वा अ राजेन्द्र प्रसाद, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616405 वा अ कार्तिक चन्द्र दास, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616416 वा अ विजय कुमार सिंह, एम टी ड्राइवर, 06 सितम्बर 2002

616564 वा अ शेख सजाहन, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616565 वा अ एस मुनि रतनाम अचार, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616569 वा अ राज गोविन्द ओझा, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616574 वा अ अब्दुल खालिद कुरैशी, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616576 वा अ चन्द्र प्रकाश, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616586 वा अ नेल्लिकान्डी सहदेवन, एम टी ड्राइवर, 06 सितम्बर 2002

616596 वा अ निर्मल सिंह सहोता, एम टी ड्राइवर, 03 जून 2002

616600 वा अ अजीत बरूआ, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616602 वा अ रघु राज प्रसाद यादव, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616606 वा अ हारा धान डे, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616608 वा अ हरे कृष्ण दास, एम टी ड्राइवर, 04 सितम्बर 2002

616619 वा अ मोहन साह, एम टी ड्राइवर, 04 सितम्बर 2002

616620 वा अ बृजेन्द्र बीर वर्मा, एम टी ड्राइवर, 06 सितम्बर 2002

616621 वा अ कैलाश बिहारी सिन्हा, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616625 वा अ एस नागानाथन, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616628 वा अ पी एडविन सुगुमार, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616631 वा अ प्रीतम सिंह, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002

616636 वा अ राजविन्दर सिंह जगदेव, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616637 वा अ विजय कुमार डोगरा, एम टी ड्राइवर, 06 सितम्बर 2002

616638 वा अ संतन मोहन्ती, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616642 वा अ सज्जन सिंह राठौर, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616643 वा अ नोप सिंह, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616644 वा अ शिम्भू दयाल यादव, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616650 वा अ कुमारेश मंडल, एम टी ड्राइवर, 01 जनवरी 2003

616656 वा अ राज किशोर साह, एम टी ड्राइवर, 04 जनवरी 2003

616658 वा अ तारापाडा मंडल, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616664 वा अ केहर सिंह, एम टी ड्राइवर, 04 जनवरी 2003

616793 वा अ बोध नारायण शर्मा, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616794 वा अ शिव कुमार यादव, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616795 वा अ राम नाथ मिश्रा, एम टी ड्राइवर, 04 जनवरी 2003

616796 वा अ भगवान दीन, एम टी ड्राइवर, 02 जनवरी 2003

616800 वा अ कृष्ण चन्दर सहरावत, एम टी ड्राइवर, 04 जनवरी 2003

616802 वा अ मातादीन यादव, एम टी ड्राइवर, 03 मार्च 2003

616842 वा अ लक्ष्मी धर महाराणा, एम टी ड्राइवर, 03 मार्च 2003

616844 वा अ सुरेश पाल पेंवार, एम टी ड्राइवर, 03 मार्च 2003

616846 वा अ योगेन्द्र राय, एम टी ड्राइवर, 01 फरवरी 2003

616849 वा अ नारायण सिंह राठौर, एम टी ड्राइवर, 01 फरवरी 2003

616850 वा अ राजेन्द्र सिंह शक्तावत, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2003

616854 वा अ निम्बा राम गोधरा, एम टी ड्राइवर, 03 मार्च 2003

616858 वा अ अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2003

616864 वा अ राम सेवक प्रसाद, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2003  
 616873 वा अ प्रभात चन्द्र बोरा, एम टी ड्राइवर, 05 फरवरी 2003  
 616882 वा अ ससांक शेखर प्रतिहार, एम टी ड्राइवर, 03 मार्च 2003  
 616896 वा अ रणधीर सिंह, एम टी ड्राइवर, 01 फरवरी 2003  
 617063 वा अ प्रकाश निर्माजीकेन, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617076 वा अ कोन्डे बोस बाबु, एम टी ड्राइवर, 03 मार्च 2003  
 617092 वा अ हनुमान प्रसाद आचार्य, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617093 वा अ किशन लाल आचार्य, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617108 वा अ चन्द्र किशोर प्रसाद सिंह, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617110 वा अ कमलेश्वर बोरा एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617124 वा अ जगन्नाथ वर्मा, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617150 वा अ आनन्द भीमा पवार, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617153 वा अ राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617170 वा अ लारेन्स, एम टी ड्राइवर, 03 मई 2003  
 617739 वा अ सुधाकरण नायर, म्यूजिशियन, 02 अप्रैल 2002  
 616505 वा अ चन्द्रभूपान विश्वकर्मा, म्यूजिशियन, 01 फरवरी 2004  
 293112 वा अ वर्धीस जोसेफ, फोटो फिटर, 02 नवम्बर 2002  
 293196 वा अ मोहम्मद शमीम सिद्दीकी, फोटो फिटर, 02 अगस्त 2002  
 293383 वा अ शत्रुघ्न लाल, फोटो फिटर, 02 जुलाई 2002  
 293405 वा अ जोगिन्द्र सिंह, फोटो फिटर, 01 जून 2003  
 293495 वा अ करण सिंह सुहाग, फोटो फिटर, 02 सितम्बर 2002  
 293773 वा अ कृष्णा मुरारी दुबे, फोटो फिटर, 01 मार्च 2003  
 293894 वा अ विजय कुमार शर्मा, फोटो फिटर, 02 सितम्बर 2002  
 295786 वा अ किशोर चन्द, फोटो फिटर, 02 अगस्त 2001  
 299320 वा अ जलन्धर पाण्डा, फोटो फिटर, 02 जून 2002  
 641011 वा अ देवलाल प्रसाद, फोटो फिटर, 02 नवम्बर 2002  
 641041 वा अ नन्दकिशोर दतारी वाड्वाल्क, फोटो फिटर, 02 अक्टूबर 2002  
 641330 वा अ रघु राज सिंह, फोटो फिटर, 02 जनवरी 2003  
 641344 वा अ संसार चन्द शर्मा, फोटो फिटर, 02 जनवरी 2003  
 641950 वा अ राम फल, फोटो फिटर, 01 मार्च 2003  
 296223 वा अ हयात सिंह मेहरा, पेरार्जिंग इंस्ट्रक्टर, 30 मई 2003  
 625224 वा अ, चौहान ललित किशोर, पी एम एफ ई, 03 मार्च 2004  
 638141 वा अ प्रसन्ना कुमार बी वी, पी एम एफ ई, 03 मार्च 2004

653179 वा अ शैलन्द्र कुमार राय, पी एम एफ ई, 03 मार्च 2004  
 653397 वा अ सामी राव सम्पथ, पी एम एफ ई, 03 मार्च 2004  
 653617 वा अ वासुपल्ली ईश्वर रेड्डी, पी एम एफ ई, 03 मार्च 2004  
 661290 वा अ एस के अब्दुल ओदुद, पी एम एफ एम, 16 जुलाई 2003  
 666924 वा अ सैयद अब्दुल मातिन, पी एम एफ एम, 16 जुलाई 2003  
 666932 वा अ श्याम मनोहर, पी एम एफ एम, 16 जुलाई 2003  
 65/389 वा अ योगिन्द्र मेहता, पी एम एफ एम, 16 जुलाई 2003  
 667626 वा अ सुबोध कुमार, पी एम एफ एम, 16 जुलाई 2003  
 667649 वा अ शशि देव पाल, पी एम एफ एम, 16 जुलाई 2003  
 667664 वा अ पवार जीजाबा मारुति, पी एम एफ एम, 16 जुलाई 2003  
 616713 वा अ अभिमन्यु बेहरा, रेडार फिटर, 28 जून 2004  
 618316 वा अ श्रीकान्त मुखर्जी, रेडार फिटर, 28 जून 2004  
 619842 वा अ जयन्त साहा, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 619918 वा अ सुरेन्द्र राय, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 620368 वा अ शिव मंगल प्रसाद, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 620537 वा अ सुभाष चन्द मित्तल, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 620763 वा अ सुखदीप सिंह, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 620883 वा अ कुमार अनिल चन्द्र, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 621996 वा अ मृन्मय सिन्हा, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 623097 वा अ अशोककुमार मन्ताकारा थंकप्पन, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 623524 वा अ अनिल कुमार सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 623763 वा अ रामसेवक सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624463 वा अ श्याम विलास, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624464 वा अ अनिल कुमार मिश्रा रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624490 वा अ विरेन्द्र प्रताप सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624482 वा अ देवता प्रसाद वर्मा, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624540 वा अ सतेन्द्र सिंह सिद्धु, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624584 वा अ सुभाष मुरलीधर फंडे, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624598 वा अ चौहान अजीनाथ गुलाब, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624847 वा अ हरि शंकर पाण्डेय, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624848 वा अ राजकुमार सिंह जैयसवाल, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004

624856 वा अ राजेन्द्र साह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 624953 वा अ श्री प्रकाश पाण्डेय, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 625038 वा अ कर्मवीर तैवर, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 625101 वा अ अरुण कुमार, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 625104 वा अ गणेश्वर मिश्रा, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 625244 वा अ मोहम्मद नेयर आजम, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 625323 वा अ सुनेन्द्र प्रसाद दीक्षित, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 625333 वा अ राजेन्द्र सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 625614 वा अ अवतार सिंह दैहल, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 636262 वा अ राम दुलार कुशवाहा, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 636364 वा अ जवाहर सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 636895 वा अ बल विद्याधर मिश्रा, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637126 वा अ जॉय कोलानुर लेजर, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637374 वा अ सुभाष चन्द्र पाण्डेय, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637483 वा अ फैयाज हुसैन, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637498 वा अ प्रमोद कुमार त्यागी, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637684 वा अ गणेश प्रसाद सेनापति, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637728 वा अ राम बहादुर सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637771 वा अ परिपूर्णानन्द सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637881 वा अ सोहनलाल मेहला, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 637923 वा अ ओमवीर सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638011 वा अ नरसिंह प्रधान, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638058 वा अ स्वर्णकार, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638059 वा अ राम मिलन, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638068 वा अ तरकेश्वर तिवारी, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638071 वा अ विजयपाल सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638073 वा अ अशोक कुमार अवस्थी, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638113 वा अ पबिता कुमार मित्रा, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638133 वा अ प्रवेश चन्द्र बैरागी, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638233 वा अ सुनील कुमार यादव, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638299 वा अ चन्द्र भानु सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638327 वा अ चौगुले शिवजी प्रभु, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638435 वा अ निरंजन त्रिपाठी, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638481 वा अ राजन जी श्रीवास्तव, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638493 वा अ अशोक कुमार सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004

638501 वा अ रमलक्ष्मण कुमार, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638502 वा अ योगेश सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638514 वा अ सुब्रमण्यन तिरुनिलय सेशन, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 638634 वा अ सुथार श्याम लाल, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 651265 वा अ जोसेफ डेनियल राज, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 651329 वा अ कल्याण राय चौधरी, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 651574 वा अ रामेन्द्र पाल, रेडार फिटर, 30 जून 2004  
 652004 वा अ ध्रुव नारायण सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652097 वा अ राजेन्द्र प्रसाद यादव, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652543 वा अ राम चन्द्र शुक्ला, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652640 वा अ यादव तेजपाल, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652702 वा अ रत्नाला एश्वरा राव, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652804 वा अ मुस्तफा खान, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652806 वा अ राम दरश सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652821 वा अ ओम वीर सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652894 वा अ रमेश कुमार सिंहमार, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652930 वा अ उमाशंकर लाल, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652965 वा अ बगवे महादेव गुन्डु, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 652983 वा अ सीताराम दाश, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653064 वा अ विजय नारायण सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653089 वा अ मिश्री सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653201 वा अ अजीत कुमार चौधरी, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653223 वा अ मोहिनंदर सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653296 वा अ सदा नन्द सिंह कुशवाहा, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653327 वा अ राधारमण त्रिपाठी, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653341 वा अ सुरेन्द्र पाल, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653347 वा अ मनजीत सिंह राणा, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653355 वा अ नरेन्द्र सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653425 वा अ सैनी चन्द्र भान, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653455 वा अ संजय कुमार, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653510 वा अ अमर पाल, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653511 वा अ शशि कान्त सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004  
 653517 वा अ इन्दर पाल सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004

- 653540 वा अ राजन भास्करन, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004
- 653583 वा अ नाई चुन्नी लाल झिन्नु, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004
- 653595 वा अ उमेश चन्द्र जेना, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004
- 653642 वा अ कमलेश उपाध्याय, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004
- 653701 वा अ कर्म बीर सिंह, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004
- 653784 वा अ राजेन्द्र प्रसाद, रेडार फिटर, 02 जुलाई 2004
- 601175 वा अ बिजेन्द्र सिंह, रेडियो फिटर, 03 मई 2003
- 601256 वा अ राजेन्द्र प्रसाद, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 601361 वा अ बिकास चन्द्र चक्रवर्ती, रेडियो फिटर, 01 जुलाई 2002
- 601385 वा अ रमेश चन्द्र मांगेराज, रेडियो फिटर, 04 फरवरी 2002
- 602192 वा अ भुनेश्वर प्रसाद सिंह, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 602245 वा अ चन्द्र कुमार दास, रेडियो फिटर, 01 मई 2002
- 602489 वा अ राजन पी के, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 602800 वा अ सत्येन्द्र कुमार दास, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 603513 वा अ हरि शंकर गुप्ता, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 604372 वा अ रोबिन कुमार पॉल, रेडियो फिटर, 01 मई 2002
- 604385 वा अ लक्ष्मण दास, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 604413 वा अ विजय कुमार शौर्य, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 604420 वा अ चन्द्र मोहन सिंह, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 604585 वा अ शेरबहादुर सिंह, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 604657 वा अ महेश सिंह राजपूत, रेडियो फिटर, 01 मई 2002
- 604933 वा अ बनसेवन शर्मा, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 604983 वा अ भास्करन के, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 631015 वा अ ज्ञान सिंह, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 631039 वा अ राजेश कुमार चतुर्वेदी, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 631040 वा अ राजेन्द्र प्रसाद, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 631088 वा अ मंगता, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 631116 वा अ राम लाल जाट, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 631182 वा अ एस मल अरुलराज जवाहर, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 631247 वा अ तारिफ सिंह बबेरवाल, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 631313 वा अ सत्तार मौहम्मद, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2001
- 631510 वा अ बेतुल्ला खान, रेडियो फिटर, 01 मई 2001
- 631520 वा अ राम औतार यादव, रेडियो फिटर, 01 मई 2001
- 631525 वा अ कृष्णा कान्त यादव, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 631580 वा अ रणवीर सिंह, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 631615 वा अ राजकुमार सिंह, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 631760 वा अ मीना कुतन पति, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 631804 वा अ बिरेन्द्र कुमार शर्मा, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 631983 वा अ शेख खादर मस्तान, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002
- 631994 वा अ चन्द्र शेखर शर्मा, रेडियो फिटर, 02 जनवरी 2002
- 632005 वा अ सुदर्शन कुमार घोष, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632030 वा अ रमेश सिंह चौहान, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 632175 वा अ कृष्णा नन्द सिंह, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 632189 वा अ रामजी प्रसाद, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632226 वा अ मौहम्मद यासीन, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632232 वा अ राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632238 वा अ भागवान प्रसाद, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 632372 वा अ प्रदीप कुमार शर्मा, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 632427 वा अ बेदार यादव, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632589 वा अ उदय प्रसाद गुप्ता, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003
- 632658 वा अ गंगा राम प्रसाद, रेडियो फिटर, 04 जनवरी 2002
- 632743 वा अ मदन कुमार अवस्थी, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632772 वा अ विनोद कुमार वर्मा, रेडियो फिटर, 03 मई 2003
- 632783 वा अ मधुकर मरोति अम्बाडे, रेडियो फिटर, 04 जुलाई 2002
- 632796 वा अ कमलेश्वर प्रसाद लाल, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 632797 वा अ शिव नाथ चौधरी, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632801 वा अ पदमा नन्द प्रसाद, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632803 वा अ पुरंजय कुमार, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632804 वा अ राम प्रवेश सिंह, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632906 वा अ किशन लाल सहारन, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002
- 632917 वा अ रघुवीर, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 632930 वा अ धरम पाल सिंह, रेडियो फिटर, 04 फरवरी 2002
- 632950 वा अ अरविन्द कुमार, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003
- 632979 वा अ महावीर सिंह, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 632986 वा अ हरपाल सिंह पेंवार, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 632997 वा अ देवेन्द्र गिरि, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002
- 633030 वा अ रामाश्रय प्रसाद, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002



633062 वा अ मुरूश पिल्लै सेल्वाराज, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002

633069 वा अ किट्टपा रमेश कुमार, रेडियो फिटर, 04 जुलाई 2002

633110 वा अ सुमेर सिंह, रेडियो फिटर, 03 फरवरी 2003

633229 वा अ स्वपन कुमार सरकार, रेडियो फिटर, 02 जुलाई 2002

633250 वा अ समा शंकर गुप्ता, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002

633254 वा अ राम भवन सिंह, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002

633257 वा अ केदार राम, रेडियो फिटर, 04 अप्रैल 2002

633278 वा अ जनेश्वर प्रसाद तोमर, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002

633279 वा अ ऋषि कुमार तंगर, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003

633294 वा अ छबिनाथ सिंह यादव, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002

633304 वा अ जयपाल सिंह भादयान, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

633349 वा अ राम निवास गुप्ता, रेडियो फिटर, 04 अप्रैल 2002

633417 वा अ एम के सुब्रमण्यन, रेडियो फिटर, 04 जुलाई 2002

633448 वा अ कृष्णा प्रकाश, रेडियो फिटर, 04 अप्रैल 2002

633451 वा अ परमानन्द चौधरी, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

633452 वा अ सुरेश कुमार, रेडियो फिटर, 04 अप्रैल 2002

633471 वा अ नारायण राम, रेडियो फिटर, 05 फरवरी 2003

633488 वा अ सुखदेव कुमार रायजादा, रेडियो फिटर, 02 अप्रैल 2002

633522 वा अ राजेन्द्र सिंह, रेडियो फिटर, 01 मई 2002

633557 वा अ अजीत सिंह सिन्धु, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

633566 वा अ चरण सिंह यादव, रेडियो फिटर, 01 मई 2002

633637 वा अ रघुनाथ संग्राम सिंह, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

633679 वा अ निर्मल चन्द्र साहा, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

633697 वा अ बिरेन्द्र कुमार शर्मा, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

633699 वा अ मोहन लाल गुलाटी, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

633801 वा अ सतनाम सिंह, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

633839 वा अ संगवी नारायण, रेडियो फिटर, 01 मई 2002

633843 वा अ प्रनब कुमार नाग, रेडियो फिटर, 01 मई 2002

633845 वा अ सकेरी नारायण मूर्ति, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

633855 वा अ विरेन्द्र प्रकाश शर्मा, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

633928 वा अ सरत कुमार प्रधान, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

633942 वा अ हरि ओम, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

633976 वा अ विश्वनाथ सिंह, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

634107 वा अ राज किशोर सिंह, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634113 वा अ सत्येन्द्र सिंह, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634116 वा अ रामकुमार सिंह पेंवार, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634126 वा अ हरि कृष्ण गुप्ता, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

634134 वा अ दिलीप कुमार डेका, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634156 वा अ अमर नाथ तिवारी, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634157 वा अ जगत राम, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634161 वा अ युगल किशोर, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634287 वा अ राम प्रवेश सिंह, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634316 वा अ ध्रुव सिंह कुशवाहा, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634393 वा अ सत्यपाल सिंह शर्मा, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

634394 वा अ पुजारी मुरलीधर, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634415 वा अ तरकेश्वर मिश्रा, रेडियो फिटर, 02 सितम्बर 2002

634431 वा अ अभय प्रकाश मिश्र, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634441 वा अ भोला नाथ प्रसाद, रेडियो फिटर, 08 जनवरी 2003

634593 वा अ चंचल कुमार सिंह, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634669 वा अ विजय कुमार शर्मा, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634751 वा अ हरि नाथ राम, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634757 वा अ गुप्ता रमेश चन्द्र, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634775 वा अ मदन सिंह भरत, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

634853 वा अ भेंवर लाल ज्यानी, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

650956 वा अ अमीय कुमार पाणिग्रही, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

650959 वा अ सतीश चन्द्र ध्यानी, रेडियो फिटर, 03 मई 2003

290582 वा अ राम लाल, कार्पेन्टर रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002

600620 वा अ करिगली दिवाकरण, रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002

601961 वा अ चरण सिंह वर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002

604362 वा अ जगदीश चन्द्र आज़ा, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर

2001

631228 वा अ मन मोहन सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 01 जुलाई 2001

631507 वा अ जितेन्द्र नाथ सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002

631566 वा अ ओम प्रकाश शर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर

2002

631730 वा अ शत्रुघ्न राम, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002

631943 वा अ राम लोचन प्रसाद, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002

632045 वा अ अंजन कुमार चतुर्वेदी, रेडियो टेक्नीशियन, 01 जुलाई 2001

632167 वा अ भरत दुबे, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001

632169 वा अ दिनेश प्रसाद श्रीवास्तव, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001

- 632170 वा अ राज नाथ रॉय, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002
- 632299 वा अ राम चन्द्र शर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001
- 632354 वा अ केशव प्रसाद सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002
- 632358 वा अ ललन चतुर्वेदी, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001
- 632414 वा अ भृगु नाथ शर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 01
- 632434 वा अ विजय कुमार सिंह पुण्डीर, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002
- 632513 वा अ मोहन सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 04 जनवरी 2001
- 632543 वा अ दिवाकर सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 04 नवम्बर 2002
- 632569 वा अ ओमपाल सिंह पुण्डीर, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001
- 632585 वा अ महेश्वर प्रसाद वर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001
- 632759 वा अ सत भगवान दहिया, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001
- 632795 वा अ जग नारायण सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 02 जून 2001
- 632952 वा अ उदय भान सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 01 नवम्बर 2001
- 632985 वा अ कर्कर पाल, रेडियो टेक्नीशियन, 02 जून 2001
- 633022 वा अ योगेश सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 02 दिसम्बर 2002
- 633031 वा अ शत्रुघ्न सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 02 दिसम्बर 2002
- 633100 वा अ विजय प्रसाद गुप्ता, रेडियो टेक्नीशियन, 02 दिसम्बर 2001
- 633111 वा अ सच्चिदानन्द दुबे, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2002
- 633113 वा अ शिव पूजन प्रसाद, रेडियो टेक्नीशियन, 03 नवम्बर 2001
- 633125 वा अ सुरेन्द्र प्रसाद, रेडियो टेक्नीशियन, 02 दिसम्बर 2002
- 633185 वा अ नरेन्द्र सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2002
- 633187 वा अ गजेन्द्र सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2002
- 633192 वा अ राजिन्दर कुमार जॉय, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2002
- 633289 वा अ राम चन्द्र प्रसाद, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2002
- 633388 वा अ डी एगेश्वर राव दूना, रेडियो टेक्नीशियन, 02 दिसम्बर 2002
- 633393 वा अ सुरिन्दर सिंह गिल, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2002
- 633433 वा अ विक्रम सिंह वर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002
- 633437 वा अ शिव कुमार शर्मा, रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002
- 633441 वा अ विरेन्द्र सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 03 फरवरी 2002
- 633532 वा अ सुरेश सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002
- 633608 वा अ शंकर मुखर्जी, रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002
- 633646 वा अ महेश राम, रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002
- 633669 वा अ अजीत सिंह, रेडियो टेक्नीशियन, 02 नवम्बर 2002
- 633819 वा अ सुरेश राय, रेडियो टेक्नीशियन, 02 मई 2002
- 291927 वा अ एम वीरा चन्द्रन, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 नवम्बर 2002
- 292006 वा अ आत्मा राम गोसाई, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 सितम्बर 2002
- 292143 वा अ राम देव सिंह, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 सितम्बर 2002
- 292258 वा अ प्रभाकरण अलिक्कल पी के, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 अगस्त 2002
- 292285 वा अ बाबू लाल भार्गव, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 अगस्त 2002
- 292286 वा अ तेज बहादुर सिंह, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 अगस्त 2002
- 292378 वा अ बलबीर सिंह खोखर, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 अगस्त 2002
- 292517 वा अ उदाराम कुमावत, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 नवम्बर 2002
- 292567 वा अ काली राम, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 04 दिसम्बर 2002
- 292602 वा अ सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 नवम्बर 2002
- 292888 वा अ अब्दुल एस के कायामखानी, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 04 दिसम्बर 2002
- 292965 वा अ वी सेशागिरि राव, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 फरवरी 2003
- 293000 वा अ वक्काला गड्डा भावनारायण, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 फरवरी 2003
- 293070 वा अ करनैल सिंह, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 मार्च 2003
- 293141 वा अ बी रामाचन्द्रन, सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर, 02 मई 2003
- 601115 वा अ राज गुरु रॉय, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 दिसम्बर 2001
- 601492 वा अ राम कृष्णन, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 फरवरी 2002
- 602143 वा अ राम बहादुर रॉय, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 अक्टूबर 2002
- 602145 वा अ आर अयाप्पन, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 अक्टूबर 2002
- 602157 वा अ ओम प्रकाश सखोलिया, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 अक्टूबर 2002



- 602162 वा अ वेद राज, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 नवम्बर 2002
- 602165 वा अ सपन मुखर्जी, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 नवम्बर 2002
- 602167 वा अ ओम नारायण शुक्ला, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 नवम्बर 2002
- 602176 वा अ चन्द्र भूषण गिरि, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 नवम्बर 2002
- 602377 वा अ पबित्रा प्रधान, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 दिसम्बर 2002
- 602379 वा अ सन्यासी प्रधान, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 दिसम्बर 2002
- 602402 वा अ राजिन्दर सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 जनवरी 2003
- 602423 वा अ मनोरंजन रॉय, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 दिसम्बर 2002
- 602437 वा अ चन्द्रा कुरूप सीपीवीआर, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 जनवरी 2003
- 602446 वा अ गुरबचन सिंह पेलिया, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 जनवरी 2003
- 602452 वा अ रविन्द्र सिंह बघेल, टेलिस्ट आर टी ओ, 15 जुलाई 2003
- 602464 वा अ अवधेस प्रसाद, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 जनवरी 2003
- 602711 वा अ गांधी राम गुलेरिया, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 जनवरी 2003
- 602713 वा अ कँवल सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 फरवरी 2003
- 602715 वा अ सूरज मल, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 फरवरी 2003
- 602731 वा अ श्यामलाल चक्रवर्ती, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 अप्रैल 2003
- 602740 वा अ सुधाकर प्रकाश अवस्थी, टेलिस्ट आर टी ओ, 02 मार्च 2003
- 602744 वा अ नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 फरवरी 2003
- 602945 वा अ रणवीर सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 मई 2003
- 602953 वा अ सुवालाल गुजर, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 जून 2003
- 602959 वा अ वेद प्रकाश दलाल, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 मई 2003
- 602960 वा अ अजब सिंह, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 मई 2003
- 602968 वा अ सी आत्माचरण, टेलिस्ट आर टी ओ, 03 जून 2003
- 291155 वा अ छंगा सिंह, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 291501 वा अ सरोज दत्ता, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003
- 291867 वा अ कालाथिल गोविन्दन अचारी, वेपन फिटर, 01 मई 2002
- 291931 वा अ शत्रुघ्न पंडित, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003
- 292055 वा अ हरेन्द्र नाथ बोरा, वेपन फिटर, 01 मार्च 2003
- 292266 वा अ बशीर अहमद, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 292324 वा अ अग्नू राम, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003
- 292403 वा अ बलवन्त सिंह, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002
- 292357 वा अ कनक कुमार चौधरी, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002
- 292778 वा अ राजेन्द्र उपाध्याय, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002
- 292802 वा अ अशोक चन्दर शर्मा, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002
- 292891 वा अ हरभजन सिंह प्रीत, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003
- 293034 वा अ सिंह गजेन्द्र बहादुर हरिलाल, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 293191 वा अ राधे श्याम सिंह, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002
- 293244 वा अ राम सागर गुप्ता, वेपन फिटर, 05 जुलाई 2001
- 293287 वा अ जगदीश प्रसाद, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002
- 293464 वा अ बाल्मीकि चरण साहु, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003
- 293493 वा अ नागेश कुमार सिंह, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002
- 293502 वा अ शम्भू प्रसाद, वेपन फिटर, 05 जुलाई 2001
- 293515 वा अ रोबिन चक्रवर्ती, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 293553 वा अ दामोदर पाण्डेय, वेपन फिटर, 03 जुलाई 2001
- 293566 वा अ जोगिन्द्र नाथ जेना, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 293568 वा अ सोमनाथ दाश, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 293599 वा अ भूपिन्दर सिंह परमार, वेपन फिटर, 05 जुलाई 2001
- 293600 वा अ मोहब्बत सिंह भाटी, वेपन फिटर, 05 जुलाई 2001
- 293662 वा अ हरजीत सिंह, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003
- 293742 वा अ तपन कुमार भट्टाचार्य, वेपन फिटर, 05 जुलाई 2001
- 293755 वा अ दिनेश चन्द्र त्रिपाठी, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 293756 वा अ राजेश दीक्षित, वेपन फिटर, 07 फरवरी 2003
- 293874 वा अ कुलदीप सिंह भट्टी, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 293889 वा अ वर्षीस सी टी, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2001
- 296831 वा अ अमृत लाल चौहान, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002
- 611129 वा अ सुभाष चन्द्र शुक्ला, वेपन फिटर, 03 जून 2003
- 611226 वा अ सुरेश चन्दर शर्मा, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002
- 641248 वा अ शिवा शनमुगम, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003
- 641316 वा अ तेज सिंह चाहर, वेपन फिटर, 01 मई 2002
- 641347 वा अ हीरा बल्लभ भट्ट, वेपन फिटर, 01 मई 2002
- 641504 वा अ शंकर सरन रॉय, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003
- 641534 वा अ लक्ष्मी प्रसाद मोहन्ती, वेपन फिटर, 01 मई 2002

641634 वा अ जगतार सिंह, वेपन फिटर, 01 मई 2002  
 641636 वा अ निर्मल कुमार महाराज, वेपन फिटर, 07 फरवरी 2003  
 641687 वा अ बंश राम चौहान, वेपन फिटर, 01 मई 2002  
 641688 वा अ सामीउल्लाह अंसारी, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002  
 641690 वा आ भूषण गिरि, वेपन फिटर, 01 मई 2002  
 641698 वा अ हरपाल सिंह, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003  
 641784 वा अ शिव नाथ सिंह, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002  
 641797 वा अ सेलेन कुमार रॉय, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2002  
 641868 वा अ जय प्रकाश मोदी, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002  
 641869 वा अ बिरेन्द्र कुमार सिंह, वेपन फिटर, 01 मई 2002  
 641870 वा अ केदार प्रसाद, वेपन फिटर, 01 मई 2002  
 641926 वा अ राम प्यारे राम, वेपन फिटर, 01 मई 2002  
 641954 वा अ जमीर अहमद, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002  
 641958 वा अ शिव गुलाम गुप्ता, वेपन फिटर, 04 जुलाई 2002  
 641960 वा अ राम प्रकाश वर्मा, वेपन फिटर, 01 मई 2002  
 641961 वा अ हरिबाबू द्विवेदी, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002  
 642019 वा अ राम सिंह, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002  
 642113 वा अ दीना नाथ यादव, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002  
 642153 वा अ भगवान राम बजिया, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002  
 642255 वा अ गणेश सिंह राठौर, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002  
 642261 वा अ जय प्रकाश सिंह, वेपन फिटर, 07 अगस्त 2002  
 642298 वा अ सोबेरन सिंह, वेपन फिटर, 01 मार्च 2003  
 642435 वा अ रोशन लाल, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003  
 642444 वा अ राम बीर, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003  
 642455 वा अ भूप सिंह, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003  
 642470 वा अ मोहम्मद इकबाल अहमद, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003  
 642471 वा अ बिजय शंकर राय, वेपन फिटर, 05 फरवरी 2003  
 642533 वा अ धारा सिंह, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003  
 642546 वा अ इकबाल बहादुर सिंह, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003  
 642631 वा अ बलविन्दर सिंह, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003  
 642747 वा अ मंगल सिंह, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003  
 642868 वा अ राजीव कुमार शर्मा, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003  
 642869 वा अ समा राज, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003  
 642921 वा अ लाभ सिंह देसवाल, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003

642936 वा अ मेथ्यूज मनोवाह, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003  
 642939 वा अ सत्यवीर सिंह, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003  
 642942 वा अ गरदेव सिंह, वेपन फिटर, 03 फरवरी 2003  
 642944 वा अ हरभजन सिंह, वेपन फिटर, 02 जनवरी 2003  
 642956 वा अ एस सिवरामन, वेपन फिटर, 07 फरवरी 2003  
 642983 वा अ गया प्रसाद, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 642985 वा अ राम सुहाग चौहान, वेपन फिटर, 07 फरवरी 2003  
 643254 वा अ प्रमोद कुमार, वेपन फिटर, 01 मार्च 2003  
 643258 वा अ मोहम्मद माटीउल्लाह, वेपन फिटर, 03 मार्च 2003  
 643266 वा अ रवि कान्त शर्मा, वेपन फिटर, 01 मार्च 2003  
 643282 वा अ वैलेयाउधम मोहन, वेपन फिटर, 03 मार्च 2003  
 643287 वा अ रामानुज मिश्रा, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 643291 वा अ ललन पाण्डेय, वेपन फिटर, 01 मार्च 2003  
 643662 वा अ नरेश्वर कलिता, वेपन फिटर, 05 अप्रैल 2003  
 643663 वा अ प्राण हरि वैश्य, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 643702 वा अ गोपाल प्रसाद, वेपन फिटर, 05 अप्रैल 2003  
 643722 वा अ जय भगवान सिंह यादव, वेपन फिटर, 05 जनवरी 2003  
 643724 वा अ तरलोक सिंह, वेपन फिटर, 05 अप्रैल 2003  
 643725 वा अ सरजीत सिंह, वेपन फिटर, 03 मार्च 2003  
 643731 वा अ सवर्ण सिंह, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 644089 वा अ लाल बहादुर मौर्य, वेपन फिटर, 05 अप्रैल 2003  
 644095 वा अ गुरमैल सिंह कटारिया, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 644099 वा अ रामफल सिंह दलाल, वेपन फिटर, 05 अप्रैल 2003  
 644120 वा अ शेखर कान्ति घोष, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 644151 वा अ गुरनाम सिंह, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 644159 वा अ कैलाश पति पाण्डेय, वेपन फिटर, 03 जून 2003  
 644543 वा अ शिव नारायण, वेपन फिटर, 05 जून 2003  
 644546 वा अ सुरेन्द्र कुमार मुरुडी, वेपन फिटर, 16 जुलाई 2003  
 644551 वा अ दुर्गा प्रसाद शर्मा, वेपन फिटर, 16 जुलाई 2003  
 644573 वा अ श्री राम, वेपन फिटर, 16 जुलाई 2003  
 644584 वा अ केदारी लाल शर्मा, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003  
 644939 वा अ राम प्रसाद सिंह धोंचक, वेपन फिटर, 16 जुलाई 2003  
 644963 वा अ बनमाली साहु, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003  
 657214 वा अ रामफल सिंह, वेपन फिटर, 16 जुलाई 2003

657260 वा अ करूपन अरुमुगम, वेपन फिटर, 01 नवम्बर 2003  
 657264 वा अ कलदेव सिंह, वेपन फिटर, 16 जुलाई 2003  
 657272 वा अ पूरण सिंह, अत्री, वेपन फिटर, 02 जुलाई 2002  
 283283 वा अ प्रेम चन्द घीमन, वर्कशॉप फिटर बी, 02 अक्टूबर 2001  
 291740 वा अ सोने लाल दोहारे, वर्कशॉप फिटर बी, 02 दिसम्बर 2001  
 291807 वा अ रामयश पाण्डेय, वर्कशॉप फिटर बी, 02 दिसम्बर 2001  
 292156 वा अ मोहम्मद शहीर, वर्कशॉप फिटर बी, 02 अप्रैल 2002  
 292368 वा अ इन्दर सिंह, वर्कशॉप फिटर बी, 01 नवम्बर 2002  
 292390 वा अ शिव राम, वर्कशॉप फिटर बी, 01 नवम्बर 2002  
 292418 वा अ राम सागर भक्त, वर्कशॉप फिटर बी, 02 जुलाई 2002  
 283437 वा अ श्रीधरण नम्बूरी पी के, वर्कशॉप फिटर सी, 05 अक्टूबर 2003  
 292428 वा अ भरत यादव, वर्कशॉप फिटर सी, 01 दिसम्बर 2002  
 292444 वा अ राजवीर सिंह ढाका, वर्कशॉप फिटर सी, 05 जनवरी 2003  
 292477 वा अ योगेन्द्र प्रसाद, वर्कशॉप फिटर सी, 04 जून 2003  
 292613 वा अ हारासीत बागाची, वर्कशॉप फिटर सी, 03 अक्टूबर 2003  
 292614 वा अ अंजन कुमार बिस्वास, वर्कशॉप फिटर सी, 01 मार्च 2003  
 642055 वा अ दुलार चन्द मांझी, वर्कशॉप फिटर एम, 02 अगस्त 2001  
 642295 वा अ प्रेम सिंह नेगी, वर्कशॉप फिटर एम, 02 अक्टूबर 2001  
 642475 वा अ कृष्ण देव प्रसाद, वर्कशॉप फिटर एम, 02 दिसम्बर 2001  
 642587 वा अ टेक राम, वर्कशॉप फिटर एम, 02 अक्टूबर 2001  
 643644 वा अ तुलसीधारा पिल्लै टी, वर्कशॉप फिटर एम, 02 फरवरी 2002  
 643645 वा अ महावीर सिंह, वर्कशॉप फिटर एम, 02 फरवरी 2002  
 644057 वा अ रणवीर सिंह हुड्डा, वर्कशॉप फिटर एम, 02 फरवरी 2002  
 644059 वा अ दिबाकर महापात्रा, वर्कशॉप फिटर एम, 02 अप्रैल 2002  
 644511 वा अ मेकरी चक्कप्पन औसेफ, वर्कशॉप फिटर एम, 02 अप्रैल 2002

657183 वा अ सतीश कुमार राणा, वर्कशॉप फिटर एम, 02 जून 2002  
 657184 वा अ जहारल इस्लाम, वर्कशॉप फिटर एम, 02 अगस्त 2002  
 657196 वा अ बालेश्वर सिंह गुण्डीर, वर्कशॉप फिटर एम, 02 जुलाई 2002  
 657192 वा अ अशोक कुमार धीमान, वर्कशॉप फिटर एम, 02 जुलाई 2002  
 242388 वा अ ए के बनर्जी, ए सी एच जी डी, 02 अक्टूबर 2001  
 294486 वा अ आर पाण्डेय, ए सी एच जी डी, 02 अक्टूबर 2001  
 299800 वा अ शशिधरन दामादरन, ए सी एच जी डी, 13 अक्टूबर 2003  
 644673 वा अ ओम त्रिपाठी, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 657090 वा अ एल सिंह, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 657092 वा अ सुग्रीव, एयर फ्रेम फिटर, 05 दिसम्बर 2001  
 631630 वा अ सगीर अहमद ए एफ एस ओ, 03 जून 2003  
 274635 वा अ प्रेम प्रकाश शर्मा, कंटेरिंग असिस्टेंट, 02 अगस्त 2001  
 299398 वा अ राम नगीना सिंह, कंटेरिंग असिस्टेंट, 04 अक्टूबर 2003  
 299865 वा अ आर प्रसाद, कंटेरिंग असिस्टेंट, 01 अक्टूबर 2002  
 289143 वा अ बिजोरा कुमार पाण्डेय, जनरल इयूटी क्लर्क, 01 फरवरी 2003  
 294527 वा अ पी टेनीसन, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जुलाई 2001  
 294560 वा अ एन सिंह, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जुलाई 2001  
 294586 वा अ सच्चिदानन्द भारती, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जुलाई 2001  
 294691 वा अ शेखावत, जनरल इयूटी क्लर्क, 03 अगस्त 2001  
 295246 वा अ आर पी तिवारी, जनरल इयूटी क्लर्क, 09 दिसम्बर 2001  
 297427 वा अ श्री पाल यादव, जनरल इयूटी क्लर्क, 02 जनवरी 2003  
 700924 वा अ कुटप्पन बालाचन्द्रन, शिक्षा अनुदेशक, 16 जुलाई 2003  
 295569 वा अ नागाभूषणम, इलैक्ट्रिकल फिटर, 04 जनवरी 2001  
 606249 वा अ बाल कृष्ण, इलैक्ट्रिकल फिटर, 02 मार्च 2001  
 606260 वा अ के एस परिहार, इलैक्ट्रिकल फिटर, 02 मार्च 2001  
 608515 वा अ एम के सिंह, इलैक्ट्रिकल फिटर, 04 जनवरी 2001

271433 वा अ आर बी रॉय, इंजन फिटर, 02 जून 2002  
 282933 वा अ एस ए खान, इंजन फिटर, 02 जुलाई 2001  
 643865 वा अ टी वी जोसेफ, इंजन फिटर, 03 दिसम्बर, 03 दिसम्बर 2001  
 299635 वा अ अलेखा प्रसाद होता, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002  
 299927 वा अ मनोरंजन बर्मन, उपस्कर सहायक, 02 दिसम्बर 2002  
 657272 वा अ पी एस अत्री, फ्लाइट गनर, 02 जुलाई 2002  
 242319 वा अ बी ए स्वामी, चिकित्सा सहायक, 02 जून 2002  
 285727 वा अ जितेन्द्र नाथ बर्मन, एम टी ड्राइवर, 02 सितम्बर 2002  
 270516 वा अ बी शर्मा, फोटो फिटर, 02 अप्रैल, 2002  
 271904 वा अ एस बी यादव, फोटो फिटर, 02 अक्टूबर 2001  
 291003 वा अ रामेश्वर भक्त, फोटो फिटर 02 अक्टूबर 2001  
 291964 वा अ पी के रंजन, फोटो फिटर, 02 अप्रैल 2002  
 600399 वा अ राम कंचन शुल्क, रेडियो फिटर, 03 मई 2001  
 282819 वा अ एस के सिंह, वेपन फिटर, 05 जुलाई 2001  
 293888 वा अ ए गुहा, वेपन फिटर, 02 नवम्बर 2001  
 641201 वा अ पाटिल एस वी, वेपन फिटर, 01 जनवरी 2002  
 283196 वा अ सी के गौर, वर्कशॉप फिटर बी 02 अक्टूबर 2001  
 कुल 1713 केवल एक हजार सात सौ तेरह नाम

गुरदयाल सिंह,  
 उप सचिव

-----  
 (सेना शाखा)

सं. 363, दिनांक 27 जून 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 04 अगस्त 2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना  
 स्थायी कमीशन  
 कप्तान के पद पर

पी आर राय (एमएस-13527एन) (एमआर-07517एन), एमसी 08 नवम्बर 1997 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 08 मई 1997 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए

नहीं मानी जाएगी। [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 जून 2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।]

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 21 जनवरी 2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

(कु) प्रिती (एमएस-14242एन) (एमआर-08095ए), एमसी 09 अप्रैल 2001 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 09 अक्टूबर 2000 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 जनवरी 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।]

लेफ्टि विशाल पुरी (एमएस-14129वाई) (एमआर-08092एम), एमसी 18 जनवरी 2001 [दिनांक 18 जून 2001 की इन्टर्नशिप प्रशिक्षण के बाद दिनांक 19 जून 2001 से कप्तान का पद दिया गया, [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 29 जून 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।]

कुलकर्णी महेश कृष्ण (एमएस-14244वाई) (एमआर-08094एक्स), एमसी 30 मई 2001 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से दी जाएगी। इसमें की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 जनवरी 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।]

अंकुर आहूजा (एमएस-14115वाई) (एमआर-08093पी), एमसी 01 जनवरी 2001 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से दी जाएगी। इसमें के लिए दी गई, की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।]

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 27 अगस्त 2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

माचेरला विकासपाथी (एमएस-13703ए) (एमआर-08102एल), एमसी 11 अक्टूबर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

से दी जाएगी। इसमें के लिए दी गई की पूर्ववर्षिता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। [भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।]

शिव कुमार शर्मा

ब्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (पी)

(थल सेना विभाग)

सं. 364, दिनांक 29 जून 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर थल सेना से निवृत्त करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

निवृत्ति

सर्जन कमोडोर जे बी सिंह (डी आर-10237एल) (79050एच), 91 मार्च 2005 (एएन)

आर. सी. धीर

लेफ्ट जनरल

डी जी डी एस

सेना चित्र प्रभाग

सं. 365, दिनांक 27 जून 2005--राष्ट्रपति महोदय श्री एस. के. शर्मा, निदेशक, सेना चित्र प्रभाग को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 अप्रैल 2005 (अपराह्न) से सेवानिवृत्ति करते हैं, अतः उनका मामला दिनांक 1 मई 2005 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किया जाता है।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

राष्ट्रपति महोदय, श्री लखन लाल, सहायक निदेशक (राजभाषा), रक्षा संपदा महानिदेशालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मई 2005 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त करते हैं, अतः उनका मामला दिनांक 1 जून 2005 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किया जाता है।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

सं. 366, दिनांक 24 जून 2005-- राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने और अपना रैंक बनाये रखने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवा निवृत्ति

कैप्टन आर के सैनी (टीए-42141), इन्फैन्ट्री, 31 जनवरी 2005

बी. के. मल्होत्रा

अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

## (FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 16th July 2005

No. 354, the 23rd June 2005—The President is pleased to appoint Shri P. K. Jena, an officer of the Indian Audit and Accounts Service (80), as Additional Financial Adviser & JS in the Finance Division of Ministry of Defence with effect from the forenoon of 24th May 2005 to 23rd May 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. C. LUTHER  
Dy. Financial Adviser (E)

## (ARMY BRANCH)

No. 355, the 28th June 2005—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Gentleman Cadets of 12 UES Course is granted permanent commission in the rank of Lt wef 12 Jun 2004 (F/N) under the terms and conditions of AI 2/93 amended vide AI 12/96. These officers are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Jun 2002 under AI 2/93 amended vide AI 12/96 :—

U/463 Shanjamo Ngullie (IC-64285Y) Sigs with the seniority below U/498 More Amol (IC-64284W) EME, U/477 Abhimanyu Cheba (IC-64312X) Engrs with the seniority above U/473 Vishal Pathak (IC-64313A) Engrs and U/460 Basamsetti Mahesh Manoj (IC-64357X) Engrs with the seniority above U/501 Junior Mutum (IC-64358A) Engrs whose names have been published in the Gazette of India dated 9 Apr 2005.

## SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned GCs of 12 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provisions of AI 2/93 as amended vide AI 12/96 :—

IMA No.	Name	SS No.	Arm/ Services	Date of SSC (on probation)
U/460	Basamsetti Mahesh Manoj	40753P	EME	15 Jul 2002
U/463	Shanjamo Ngullie	40756H	Sigs	31 Jul 2002
U/477	Abhimanyu Cheba	40770P	EME	18 Aug 2002

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The undermentioned Lady Cadets of WSES(O)-24 Course have completed Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 17 Sep 2004. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 17 Sep 2004 under the provisions of SAI 1/S/92 as amended :—

Personal No.	Name	Arm/ Service
1	2	3
WS-00923L	Vidya Nair	ADA
WS-00924N	Aarti Malik	ASC
WS-00925W	Archana	Sigs
WS-00929M	Manojita Shanker	AOC
WS-00931K	Mittapalli Rupa	Int
WS-00932M	Daruwalla Arnava Kersi	Sigs
WS-00933P	Divya Gaur	ASC
WS-00934X	Shubhra Sambyal	AOC
WS-00936H	Ratna Malik	ADA
WS-00937L	Megha Chhibber	ADA
WS-00938N	Sapna Rathi	Engr
WS-00940L	Amrinder Kaur	ASC
WS-00941N	Preeti Kanwar	AOC
WS-00942W	Shalini Kandari	AEC
WS-00943Y	Sarita Sangwan	AOC
WS-00944F	Shivani Tyagi	Int
WS-00945K	Kaushok Nandini Arun	AEC
WS-00947P	Neha Singh	ADA
WS-00948X	Anuradha Mulasi	ADA
WS-00949A	Namrata Dhasmana	ASC
WS-00950P	Tanushree Banerjee	EME
WS-00954L	Romana Khan	AOC
WS-00956W	Megha Mathur	ASC
WS-00957Y	Shalini Bhandari	Sigs
WS-00958F	Kulkarni Kanchan Subhash	Engr
WS-00959K	S Gomathi	AOC
WS-00960Y	KC Jeena	JAG
WS-00961F	Sapna Rani	ASC
WS-00963M	Divya Garg	EME
WS-00965X	Neha Bhatia	Engr

1	2	3
WS-00967H	S Eswari	Engr
WS-00968L	Pushwinder Kaur	AOC
WS-00970H	Ruchika	JAG
WS-00971L	Neeta Banik	ASC
WS-00972N	Aparna Gulati	ASC
WS-00974Y	Navneet Kaur	AOC
WS-00975F	Dolly	ASC
WS-00977M	Jyoti	AOC
WS-00978P	Sangeeta	EME
WS-00979X	Shriddha Arpan Jain	ASC
WS-00980M	Iman	ADA
WS-00982X	Jyoti Gupta	ASC
WS-00983A	Kajal Kiran Singh	ASC
WS-00984H	Shweta Prabhati	ADA
WS-00985L	Lata Sharma	AOC
WS-00986N	Pooja Ghildiyal	AOC
WS-00987W	Sangeeta Kumari	ASC
WS-00989F	Parul Chaudhary	Engr
WS-00990W	Amandeep Kaur Sembi	Engr
WS-00991Y	Vartika Pandey	AOC
WS-00992F	Annu Dogra	JAG
WS-00993K	Dolas Deepti Prakash	EME
WS-00994M	Shambhavi Singh	Engr
WS-00995P	Manisha Jakhmola	EME
WS-00996X	Akarte Gitanjali Prakash	Int

The undermentioned Lady Officers are granted Special Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) with effect from 05 Apr 2004. On successful completion of their training, their Short Service Commission (on probation) is confirmed, ie, they are granted Short Service Commission for five years wef 17 Sep 2004. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay wef 17 Sep 2002 for possession of technical qualification under the above AI :—

Personal No.	Name	Army/ Service
1	2	3
WS-00926Y	Pankaja A Kugaji	EME
WS-00927F	Neharika Bhardwaj	ADA

1	2	3
WS-00928K	Meghana Rajeshwar	Engr
WS-00930F	Rishita Acharya	EME
WS-00935A	Natarajan Suchitra Srinivas	Sigs
WS-00946M	Neha Rawat	Sigs
WS-00951X	Meenal Chauhan	Engr
WS-00953H	Pradnya Kulkarni	Engr
WS-00962K	J Vijaya Kumari	EME
WS-00973W	Boreddy Sanghamitra	EME
WS-00981P	Jyotsna Benal	EME
WS-00988Y	Jadhav Charushila Madhukar	Engr
WS-00997A	Vishnukaviha C	Engr

S. K. SHARMA  
Lt Col  
AMS 8B

No. 356, dated 23rd June 2005—The President is pleased to continue the appointment of the following Grade 'C' Stenographers borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretaries on ad-hoc basis in this Division for a further period mentioned against their name or until further orders whichever is earlier.

Sl. No.	Name	From	To
	S/Shri/Smt.		
1.	Rajbir Singh	01.04.2005	31.06.2005
2.	S.P. Kapoor	01.04.2005	31.06.2005
3.	Smt. Sukhpal Walia	01.04.2005	31.06.2005

M.C. LUTHER  
Dy. Financial Adviser(E)

#### INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

No. 357, dated 23 June 2005—The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rule 2001 for a period from 24.02.2005 to 23.08.2005 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Shri NC Sahoo        | 2. Shri S Banerjee    |
| 3. Shri DS Shokeen      | 4. Shri Man Singh     |
| 5. Shri Chander Prakash | 6. Smt. Smita Ahuja   |
| 7. Shri TN Mogia        | 8. Shri Bhagwan Sahay |
| 9. Shri Mam Chand       | 10. Shri Narain Singh |
| 11. Shri RP Singh       | 12. Shri Bhajan Lal   |

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 13. Shri DV Arya          | 14. Shri VK Das            |
| 15. Shri DN Prabhakar     | 16. Shri NK Ahuja          |
| 17. Shri Mamam Chand      | 18. Shri Mohan Lal         |
| 19. Shri SK Kardam        | 20. Shri Ved Prakash       |
| 21. Shri NS Madan         | 22. Shri Mahabir Singh     |
| 23. Shri Kailash Chand    | 24. Shri Thakur Ram Nath   |
| 25. Shri Shiv Kumar       | 26. Shri PK Das            |
| 27. Shri Khushal Chandra  | 28. Shri US Bhindware      |
| 29. Shri Het Prakash      | 30. Shri Roop Chand        |
| 31. Shri BP Singh         | 32. Shri RK Sahni          |
| 33. Shri JL Luthra        | 34. Shri DK Prasad         |
| 35. Shri T Tonsing        | 36. Shri GC Thapliyal      |
| 37. Shri SL Chhabra       | 38. Shri GS Sehgal         |
| 39. Shri Rameshwar Prasad | 40. Shri Subhash Biswas    |
| 41. Smt. Promila Rani     | 42. Shri B Mohanty         |
| 43. Smt. Meena K Ramani   | 44. Shri Neeraj Ranjan     |
| 45. Shri Debasis Pradhan  | 46. Shri Uday Kapat        |
| 47. Km. Ujjal Kaur        | 48. Shri Ravindra Sah      |
| 49. Shri JP Meena         | 50. Shri KC Thakur         |
| 51. Shri VP Arora (Retd)  | 52. Shri SK Tugnait (Retd) |

On 28 Feb 2005

On 31 Mar 2005

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on temporary promotion basis beyond 31.12.04 for the period upto 30.06.2005 or till persons from the Select List become available or till the below mentioned persons retire from service, whichever is earlier:—

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| (a) Shri Juginder Kumar  | (b) Smt. Uma Ramakrishnan |
| (c) Smt. Alkas Jalota    | (d) Shri DC Sahrawat      |
| (e) Shri Niranjana Singh | (f) Smt. Sushma Khera     |
| (g) Shri DK Sharma       | (h) Shri Robin Sehgal     |
| (j) Shri V. Chokalingam  | (k) Smt. Vinita Khare     |
| (l) Smt. Chandra Navlani | (m) Smt. Pushpa Bansal    |
| (n) Smt. Veena Kapoor    | (o) Shri Satnam Singh     |
| (p) Smt. Rani Dairam     | (q) Shri SK Arora         |
| (r) Smt. Mohini Agrawal  | (s) Smt. Santosh Tanwar   |
| (t) Smt. Chitra Dutta    | (u) Shri Vinay Grover     |

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| (v) Shri GS Jassal   | (w) Smt. CK Dhillon |
| (x) Smt. Manju Sahni |                     |

2. Appointment of the above mentioned officers as Private Secretary is made under AFHQ Stenographers Service Regulations, 2004 on the conditions mentioned below:—

- |  |
|--|
| (a) The appointment is purely on temporary basis and can be terminated without notice for administrative reasons.  |
| (b) They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered on temporary basis reckon for seniority. |

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Admn. Officer (A)

(ARMY BRANCH)

No. 358, dated 29 June 2005.—The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79, as amended vide AI 10/02:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Major

DS-12019L PK Boora

1.12.2004

The President is pleased to make the following promotion (DPC) under AI 37/78 as amended vide AI 11/02:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Sqn Ldr to be Wg Cdr

DR-10435W (Mrs) Keka Maitra  
(AF-23062)

18.12.2003

RC DHIR  
Lt. Gen. DGDS

No. 359, dated 27th June 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Air Cmde (& equivalent) to be AVM (& equivalent)

J K Gupta (MR-02662F) (AF-12308A), 01 Dec 2004



Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

S Mahapatra (MR-04492F), 11 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Mar 2004

P K Sinha (MR-03912K), 25 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Mar 2004

D Chakrabarty (MR-04385A), 01 Jan 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Mar 2004

K C Khanduri (MR-04391N), 02 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 16 Mar 2004

S S Naware (MR-04523W), 07 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Mar 2004

D C Agarwal (MR-04524Y), 17 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2004

V K Popli (MR-04392W), 03 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Apr 2004

N C Arora (MR-04336X), 25 Sep 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Apr 2004

P S Santosh (MR-044021N), 21 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 31 May 2004

S K Rath (MR-03935L), 12 Dec 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jun 2004

Yogesh Chander (MR-04525F), 16 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Jun 2004

K K Basappa (MR-04338H), 23 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2004

P K Bhatnagar (MR-04068Y), 25 Dec 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 19 Jul 2004

B K Lal (MR-04395K), 18 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jul 2004

S C Pareek (MR-04396M), 08 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Jul 2004

V K Arora (MR-04536N), 25 Sep 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2004

Ashok Kaushik (MR-05090W), 31 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 30 Sep 2004

A T Kalghatgi (MR-04649W), 23 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Oct 2004

P K Murthy (MR-04851K), 08 Oct 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Oct 2004

Arun Tyagi (MR-05294H), 29 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Oct 2004

A K Gupta (MR-03857Y), 09 Feb 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Nov 2004

Mrs Shubha Nagpal (MR-03859K), 10 Jan 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Nov 2004

A K Nagpal (MR-03869N), 10 Jan 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Dec 2004

B Mukherjee (MR-03870H), 19 Jan 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Dec 2004

S C Adiseshiah (MR-03893K), 24 Jan 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 30 Dec 2004

S K Jatana (MR-03874Y), 13 Jan 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2005

R Murlidhar (MR-04544M), 09 Feb 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Jan 2005

P S Sukthankar (MR-04400K), 05 Feb 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Jan 2005

Capt to be Major

Macharla Bikshapathy (MS-13703A) (MR-08102L), AMC, 11 Oct 2003

Ankur Ahuja (MS-14115Y) (MR-08093P), AMC, 01 Jan 2005

(Miss) Preeti (MS-14242N) (MR-08095A), AMC, 09 Oct 2004

P R Roy (MS-13527N) (MR-07517N), AMC, 08 May 2001 (MoD Notification published in the gazette of India dated 30 Mar 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Capt

Capt Vishal Vikram Singh (MR-05058M), AMC, 30 Dec 2004

Capt Ashish Kumar Shukla (MR-08078A), AMC, 30 Dec 2004

Capt Ashok Kumar (MR-08081A), AMC, 30 Dec 2004

Capt Anurag Srivastava (MR-08048H), AMC, 30 Dec 2004

Capt Raj Ratan (MR-08060K), AMC, 30 Dec 2004

Capt Anand Kumar Katiyar (MR-08062P), AMC, 30 Dec 2004

Capt Deepak Mishra (MR-08072Y), AMC, 30 Dec 2004

SHIV KUMAR SHARMA

Brig

Dy DGAFMS(P)

No. 360, dated 28 June 2005—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be substantive Col (By Time Scale)

Lt Col B K Sharma (IC-25089H), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col U C Chibb (IC-25680W), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col D K Ghildyal (IC-31469X), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col A M Nazare (IC-25975M), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col A K Garg (IC-31470M), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Vinod Sud (IC-27014K), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col V K Mehta (IC-31734H), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col P R Joshi (IC-27036H), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col V K Rastogi (IC-31738Y), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col A S Sandhu (IC-27091Y), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col P J S Atwal (IC-31748H), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col S K Raina (IC-27255K), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Anil Kumar (IC-31768W), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Narindra Sharma (IC-27401Y), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col R S Yadav (IC-31774K), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Ganesh Sah (IC-27831H), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Pankaj Mehra (IC-31822Y), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col L T Singh (IC-27961L), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col K D S Sawhney (IC-31828A), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col A G S Koijam (IC-27982F), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col U Sashidharan (IC-31833L), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col D K Duarah (IC-27993N), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col C S Srinivas (IC-31859A), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col J S Ahlawat (IC-30058M), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col D V Malik (IC-31897W), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Uttam Singh (IC-30340X), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col P S Rao (IC-31901N), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col H S Tamber (IC-30345W), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col P S Kar (IC-32755L), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col M P Sharma (IC-30371X), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Sharma Ravi Prakash (IC-32871N), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col A J S Wadhawan (IC-30405A), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col R L Yadav (IC-33099F), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col U S Parab (IC-30457W), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col K Ramesh (IC-33392Y), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col S P Tripathi (IC-30472L), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col P S Mahi (IC-33583N), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col A S Budania (IC-30479P), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Tejinder Singh (IC-33685K), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Rajpal Malik (IC-30488W), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Tejinder Singh (IC-33835P), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col G S Pall (IC-30551A), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Bimal Dewan (IC-33851M), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col C R K Singh (IC-30757X), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col A S Patel (IC-33967H), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col V K Jesani (IC-30760X), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Raghubir Singh (IC-34069W), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col M I Ahlawat (IC-30775A), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col P Aggarwal (IC-34115A), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col L S Nandan (IC-30874H), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col B S Ahlawat (IC-34124F), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col K K Bora (IC-30877W), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col J J Kattady (IC-34138F), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Narinder Paul (IC-30888H), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col L M Pant (IC-34192P), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Amar Singh (IC-30902K), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col R S Nagar (IC-34210M), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col H K Lamba (IC-30923A), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Utpal Kumar Roy (IC-34244A), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col S N Upadhyaya (IC-31091W), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col S S Kadian (IC-34465M), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col R N Aiyappa (IC-31133X), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Ajit Kumar Roy (IC-34510N), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Pankaj Misra (IC-31145M), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Ashok Mall (IC-34531K), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col B S Rawat (IC-31188F), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col L K Achari (IC-34540L), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Balkrishan (IC-31194P), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col R K Soni (IC-34547P), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col Tekpal Singh (IC-31204N), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Rajesh Kumar (IC-34573W), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col R S Rawat (IC-31334W), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col S R Upadhyay (IC-34602A), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col V Bhardwaj (IC-31412H), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col Pradeep Dixit (IC-34627M), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col R K Baruah (IC-31425A), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col C M Halder (IC-34637W), Inf, 16 Dec 2004
Lt Col R C Katoch (IC-31444L), Inf, 16 Dec 2004	Lt Col B S Rawat (IC-34639F), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col P Kehersa (IC-34754F), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Harbhajnik Singh (IC-34794H), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A Swain (IC-34874A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Shyam Sunder (IC-34883F), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col P K Shetty (IC-34903K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Avtar Singh Maan (IC-34934K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col M S Salunke (IC-34951K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Kamal Bhalla (IC-34983M), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Vinod Gopalan (IC-35012N), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A Kumar (IC-35247A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col B N Suresh Kumar (IC-35328A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col V K Kaushal (IC-35332H), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col D S Sandhu (IC-35342M), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Vinod Kumar (IC-35368F), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Ajay Dubey (IC-35381L), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Mohan Dasan NV (IC-35484K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Neeraj Mehra (IC-35495W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col P K Tamang (IC-35531W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A K N Sreedharan (IC-35536P), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col S S Deol (IC-35601K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Bijai Singh (IC-35604X), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A S Rana (IC-35640H), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col G K S Kumar (IC-35674W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Baljit Singh (IC-35683X), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Surender Kumar (IC-35709F), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col D S Rana (IC-35744K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col P K Sarkar (IC-35765A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col L D Upadhyay (IC-35771N), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Ajai Yadav (IC-35787Y), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col M S Pun (IC-36002W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col C S Salaria (IC-36009A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col K V Ojha (IC-36084K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col S C Jha (IC-36151K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A K Bakshi (IC-36324W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A A Jadhav (IC-36326F), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col S C Katoch (IC-36432A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col B R Kapoor (IC-36433H), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col S K Dubey (IC-36497N), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col V K Seth (IC-36594L), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col Avtar Krishan (IC-36613L), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col H S R S Sisodia (IC-36658L), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A S Katoch (IC-36663W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col B Srivastava (IC-36696F), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Rajiv Kanwar (IC-36740A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col R C Dubey (IC-36760N), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col S K Joshi (IC-36761W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A K Sharma (IC-36767X), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col U S Upadhyaya (IC-36779M), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col X S Pillai (IC-36839W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col B S Bisht (IC-36840L), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col N S Gulia (IC-36846M), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col R S Yadav (IC-36868L), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col B S Bhullar (IC-36890W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col C S Manral (IC-36901X), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Arvind Nigam (IC-36941Y), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col K Chaudhary (IC-36971W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col D K Thapliyal (IC-37046A), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col M S Kanwar (IC-37093X), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col G P S Katal (IC-37095H), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col R S Buche (IC-37103W), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Y S Chauhan (IC-37107M), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col A K Sinha (IC-37110M), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Rai Singh (IC-37112X), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Jagdish Chander (IC-37241X), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col K M Ganapathy (IC-37249K), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col Irshad Ahmed (IC-37253M), Inf, 16 Dec 2004  
 Lt Col R S Behl (IC-37286X), Inf, 16 Dec 2004

#### Major to be substantive Lt Col

S S Sangwan (IC-37348M), Inf, 16 Dec 2004 but seniority from 31 Dec 2002

Note —The officer is already in the paid acting rank of Lt Col therefore this will not affect his pay and allowance but only for the purpose of fixing his seniority for the next select rank of Col.

#### Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

Rajiv Gaur (IC-43209), Engrs, 19 Jun 2003

Anurag Vohra (IC-45043), Engrs, 26 Apr 2003

L Mishra (IC-43207), Engrs, 19 Jun 2003

Dilbagh Singh (IC-41787), Engrs, 17 Dec 2003

Rakesh Kapila (IC-41092). Engrs. 18 Jun 2003

Subhash Chand (IC-41188), Engrs. 18 Jun 2003

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

Maj to Lt Col

SL03317 Puran Chand, SL(QM)

SL03318 SP Awasthi, SL(QM)

SL03321 Sadhu Singh, SL(QM)

SL03324 AS Hooda, SL(RO)

SL03331 Rajinder Kumar Katoch, SL(RO)

SL03332 Raghunath Singh, SL(RO)

SL03333 Shakti Lal, SL(RO)

SL03334 Attar Singh, SL(RC)

SL03337 George Vaidian K, SL(RO)

SL03338 Kuldip Singh, SL(RO)

SL03339 M Bharath Bhushan, SL(RO)

SL03340 Shankara Pillai, SL(RO)

SL03342 SSR Namana, SL(RO)

SL03343 BM Tiwari, SL(RO)

SL03344 PK Sharma, SL(RO)

SL03345 Tarlok Singh, SL(RO)

SL03347 DS Pannu, SL(RO)

SL03349 Hanif Din, SL(RO)

SL03350 JB Rajendran, SL(RO)

SL03351 MV Rao, SL(RO)

SL03352 Lakhsbir Singh, SL(RO)

SL03354 K Balasubramanian, SL(TEO)

SL03357 Balwinder Singh, SL(TEO)

SL03364 CS Dhillon, SL(ER)

SL03365 PK Ghose, SL(ER)

SL03366 S Chellapandian, SL(ER)

SL03374 YC Lohani, SL(ASW)

SL03382 Kulwant Singh, SL(TOT)

SL03386 Ram Phal, SL(CIP)

SL03389 Ninan Joseph, SL(CIP)

SL03390 PT Thomas, SL(CIP)

SL03391 Subash Chander, SL(CIP)

SL03392 DS Rathore, SL(CIP)

SL03393 Ravinder Nathan KV, SL(CIP)

SL03394 CP Singh, SL(CIP)

SL03395 SP Singh, SL(CIP)

SL03396 Parbhat Singh, SL(CIP)

SL03400 G Bhatt, SL(AOC)

SL03401 Dalip Chand, SL(AOC)

SL03402 Gurcharan Singh, SL(AOC)

SL03403 SS Randhawa, SL(AOC)

SL03407 Jaswant Singh, SL(SA)

SL03409 KS Yohannan, SL(SA)

SL03416 Abranana PV, SL(SA)

SL03411 K Ramaraj, SL(SA)

SL03414 Baldev Singh, SL(AE)

SL03423 Mahesh Kumar, SL(AE)

SL03425 OP Panghaal, SL(AE)

SL03426 YP Singh, SL(AE)

SL03431 Thathan Raman, SL(AE)

SL03432 SRN Rao, SL(AE)

SL03437 Mohan Lal, SL(AEC)

SL03438 Ganpat Singh, SL(AEC)

SL03439 Bharat Bhushan, SL(AEC)

SL03440 NK Gurung, SL(AEC)

SL03441 R Sateesh Chander, SL(AEC)

SL03442 KS Rathore, SL(AEC)

SL03485 Abdul Hamid, SL(TOT)

SL04008 RS Naidu, SL(APTC)

SL04598 DS Dubey, SL(RO)

16 Dec 2004

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

IC 42750 Karanjit Singh, EME

IC 42751 SK Nandal, Inf

IC 42752 Subhash Yadav, ADA

IC 42753 Bansi Ponnappa C, Inf

IC 42754 AK Nath, Sig

IC 42755 PK Saini, Mech Inf

IC 42756 Vikhyat Marwaha, EME

IC 42757 VS Malik, Inf

IC 42758 MJ Kumar, Engr

IC 42759 SK Lama, Inf

IC 42761 Keshav Aswal, Engr

IC 42762 Omesh Yadav, EME	IC 42805 Ratan Kumar, Arty
IC 42763 Rajeev Nehra, ASC	IC 42806 SK Jha, Inf
IC 42764 Pankaj Chouhan, Engr	IC 42807 JS Rajpurohit, Inf
IC 42766 Rajesh Puri, EME	IC 42808 Praveen Bahuguna, Engr
IC 42767 Anil Hooda, AC	IC 42809 Kishor Chand S, Mech Inf
IC 42768 Salim Asif, Inf	IC 42810 Sanjo VK, Arty
IC 42769 AS Yadav, EME	IC 42811 BS Shekhawat, Inf
IC 42770 Gagandeep S Panaich, AC	IC 42812 Rakesh Sharma, Arty
IC 42771 Sanjay Singh, Inf	IC 42813 CV Ajay, Inf
IC 42772 Mukul Singhal, AOC	IC 42814 BN Dubey, ASC
IC 42773 SK Sharma, Inf	IC 42815 Manas Kumar Das, Mech Inf
IC 42774 PK Jayaswal, Inf	IC 42817 Sudhir Paliwal, Arty
IC 42775 Jairam Kumar, Engr	IC 42818 Hitesh Kohli, Inf
IC 42776 PV Reddy, Inf	IC 42819 Dayanand Sewal, AVN
IC 42777 Ravi R Patil, Arty	IC 42820 Satinder Koshal, Inf
IC 42778 RS Shekhawat, Mech Inf	IC 42821 Sharad Shukla, Sig
IC 42779 Yogesh Kapoor, AC	IC 42822 Kapoor Singh, ASC
IC 42780 AK Singh, Inf	IC 42823 JS Pandher, Inf
IC 42781 Ulhas V Talur, ADA	IC 42825 SK Narain, Inf
IC 42782 Deepak Obhrai, Arty	IC 42826 Sharad Shukla, Arty
IC 42784 SK Mahapatra, Inf	IC 42828 Jasbir Singh, AOC
IC 42785 Bency P Jacob, Inf	IC 42830 Ajay Chowdhry, Inf
IC 42786 Surinder Yadav, ASC	IC 42831 Rupinder Singh, Arty
IC 42788 Jagdeep Kumar Gautam, Arty	IC 42832 Prabhat Kumar, Inf
IC 42790 Harit Pant, Inf	IC 42833 Gajinder Singh, Inf
IC 42791 Ashwani Chocma, Inf	IC 42834 NVS Sudhakar, Engr
IC 42792 Ajay Kumar Suri, AVN	IC 42836 Girish Chandra Sharma, Sig
IC 42793 Rajiv Bhola, Engr	IC 42837 Gurvinder Singh Bhandari, ADA
IC 42794 Suchindra Kumar MV, Inf	IC 42838 PR Murali, Arty
IC 42795 Jalaj Bhola, Sig	IC 42839 Bethi Surender Reddy, Arty
IC 42796 KC Panchanathan, Engr	IC 42840 Sanjay Singh, Engr
IC 42797 AS Chahil, Inf	IC 42841 NS Dahiya, Inf
IC 42798 Balbir Singh, Sig	IC 42842 Sushil Sharma, Inf
IC 42799 Sanjay Anand, AVN	IC 42843 Ravi Jhaldiyal, Inf
IC 42800 Randhir Mazumdar, Inf	IC 42844 KS Mahar, AOC
IC 42801 BS Sandhu, Inf	IC 42845 Anit Kaura, Inf
IC 42802 Bipul Chandra Khanduri, Arty	IC 42846 AVR Rao, Inf
IC 42803 Hafiz Khan, ADA	IC 42847 K Ramananda Acharya, Inf
IC 42804 NS Rajpurohit, ASC	

IC 42848 Ravi, Arty	IC 42895 RK Jha, AOC
IC 42849 Devesh Chaturvedi, Engr	IC 42896 Jagdish Karegoudar, Arty
IC 42850 Narendra Singh, Arty	IC 42897 HK Pokhariyal, Engr
IC 42851 PN Mohapatra, Inf	IC 42898 MM Varma, Arty
IC 42852 Ashish Jindal, Mech Inf	IC 42899 Sahaksra Balachandra, Engr
IC 42853 Gautam Oberoi, AC	IC 42901 V Taneja, Arty
IC 42854 Jawed Husain, ASC	IC 42902 Devinder Singh, AC
IC 42855 Deepak Kumar, ASC	IC 42903 SPS Brar, Arty
IC 42856 Chappa Seshagiri, Arty	IC 42904 NS Ghaman, Inf
IC 42857 GS Kahlon, Inf	IC 42905 VP Kumar, AOC
IC 42859 Joy Choudhury, Inf	IC 42906 TS Sandhu, Inf
IC 42860 Shivanand G Mane, ADA	IC 42907 DS Pokhariya, Inf
IC 42861 Manoj Kumar, Inf	IC 42908 IS Kohli, Inf
IC 42862 YS Mor, Mech Inf	IC 42909 Harish Chandhok, Arty
IC 42863 SS Sadashiv, Inf	IC 42910 NC Ellis, Mech Inf
IC 42864 M Satish Raj, Int	IC 42911 Avnish Kapoor, ADA
IC 42865 SS Bawa, Arty	IC 42912 RD Singh, Engr
IC 42866 VK Sharma, AC	IC 42913 Sushil Gurung, Mech Inf
IC 42867 Dharmendra Gupta, Inf	IC 42914 Ram S Gabri, Engr
IC 42869 Ravi Malhotra, Sig	IC 42915 Raj Vijayendra Singh, ASC
IC 42870 Biraj Sahay, Arty	IC 42916 KM Rao, Inf
IC 42872 PK Chowdhri, AOC	IC 42918 NK Rai, ASC
IC 42873 S Thapliyal, Engr	IC 42919 Manoj Kumar, Arty
IC 42875 SK Chhikara, Inf	IC 42920 Binu Varghese, Sig
IC 42877 S Nanda Kumar, Inf	IC 42921 Ramesh Yadav, Int
IC 42878 Arvind Mohan, Sig	IC 42922 Susheel Kumar, ASC
IC 42880 Anil Verma, Int	IC 42923 Aadesh Chopra, Inf
IC 42881 Sanjay Rihani, Engr	IC 42925 Binoy Mathai, EME
IC 42882 Prakash S Patil, Inf	IC 42926 Bhaskar Kalita, Inf
IC 42883 RS Ratra, Arty	IC 42927 Amrendra Pandey, Sig
IC 42884 Adts Gnanasir, Sig	IC 42928 IG Doddamani, Inf
IC 42885 Sanjay Thakur, Inf	IC 42929 Dushyant Kumar, Arty
IC 42886 GK Sharma, Inf	IC 42932 JS Dalai, Inf
IC 42887 PK Chahal, Int	IC 42933 Sanjay Joshi, ASC
IC 42889 Sudhendra Singh, Inf	IC 42935 Rajesh Kumar, Inf
IC 42890 SS Phougat, Mech Inf	IC 42936 Izajullah Ansari, Inf
IC 42891 Krishna Mohan, Sig	IC 42938 Sunil Misra, Sig
IC 42893 NA Seethi, ASC	IC 42939 Sharat Sharma, Engr
IC 42894 Piyush Agarwal, ADA	IC 42940 Azad Singh, ADA

IC 42941 Sunil A Patil, Mech Inf	IC 42982 PP Chandok, AOC
IC 42943 SK Shukla, Inf	IC 42983 AK Datta, Engr
IC 42944 AS Chahar, Inf	IC 42984 Santosh Joseph, Inf
IC 42945 Sudhanshu Sharma, EME	IC 42985 HC Singh, ASC
IC 42946 MV Shashidhar, Arty	IC 42986 Dinesh Kumar, Inf
IC 42947 Suresh Singh, AOC	IC 42987 KS Ram Mohan, Inf
IC 42948 AK Singh, Inf	IC 42988 PB Gurung, Inf
IC 42949 Rakesh Kumar Singh, Sig	IC 42989 Mahipal Singh, Inf
IC 42950 TK Joseph, Int	IC 42990 SS Ranot, Inf
IC 42951 JS Garah, ASC	IC 42991 Vivek Bhatnagar, Sig
IC 42952 Chayeet Singh Gauba, Inf	IC 42992 AK Sharma, Sig
IC 42953 GR Prasad, Arty	IC 42993 KVS Thanua, ASC
IC 42954 Pramod Kumar A, Inf	IC 42995 AK Gupta, Inf
IC 42955 Jarnail Singh, ADA	IC 42996 GK Vidyarthi, Inf
IC 42956 Sunil Kumar RI, Arty	IC 42997 Babu Lal, EME
IC 42957 Shashidhar VN, Inf	IC 42999 Harindra Tripathi, AOC
IC 42958 Hari Mohan Iyer, Arty	IC 43000 Subodh Garg, ASC
IC 42959 Pramod J Ninan, Arty	IC 43002 S Yuvraj Singh, ASC
IC 42960 Avinash Thakur, Arty	IC 43003 Sanjay Sehgal, Engr
IC 42961 Rajiv Thakur, AOC	IC 43005 Biswajit Sinha, Inf
IC 42962 NK Chamola, Engr	IC 43006 Rakesh D Bahuguna, Arty
IC 42963 RP Upadhaya, Arty	IC 43007 Vishwajeet Singh, Inf
IC 42964 SS Randhawa, AC	IC 43008 Devendra Singh, Engr
IC 42965 Vineet Kishore, Arty	IC 43009 Amrendra Narayan, ADA
IC 42966 Pachigolla Sankar, ADA	IC 43010 Bhubnesh Kumar Tyagi, Inf
IC 42967 Davinder Kassal, Inf	IC 43011 SK Sharma, Arty
IC 42968 JS Chhikara, Engr	IC 43013 SK Singh, Int
IC 42969 RB Chaudhary, Inf	IC 43014 Gautam Kalita, Inf
IC 42970 NKS Shekhawat, Inf	IC 43015 BS Rathore, Arty
IC 42971 Rajinder Singh, Inf	IC 43016 Sanjeev Sharma, Mech Inf
IC 42972 Rahul Pande, Inf	IC 43018 PK Sharma, Sig
IC 42973 Suresh Kumar, Engr	IC 43019 Virendra Taneja, Sig
IC 42974 Anoop Vaid, AC	IC 43020 Amarjit Singh, Sig
IC 42975 Mohan Singh, AOC	IC 43021 GS Rawat, Inf
IC 42976 PS Julka, Arty	IC 43022 PKS Bhatta, Inf
IC 42977 GG Pamidi, Mech Inf	IC 43023 Gur Avtar Singh, Mech Inf
IC 42979 Bhudeo Kumar, Sig	IC 43024 Jaydevsinh Rama, Arty
IC 42980 Sudhir Kumar Yadav, ASC	IC 43025 Ravi Bhardwaj, AC
IC 42981 DD Pandere, Inf	IC 43027 Sudershan Bhardwaj, AC

IC 43028 AK Sinha, Inf	IC 43076 DPS Sandhu, Inf
IC 43029 VK Chounal, Inf	IC 43077 RR Nair, Engr
IC 43030 Rajiv Dhar, Inf	IC 43078 Sanjeev Dubey, ASC
IC 43031 Amrik Singh, Inf	IC 43079 Satpreet Singh, Inf
IC 43033 GN Raghu Ram, Inf	IC 43080 BP Ratwal, AOC
IC 43034 Neeraj Shrivastava, Inf	IC 43081 GS Bawa, Mech Inf
IC 43035 Rajiv Verma, ADA	IC 43082 RA Khan, Arty
IC 43036 VS Bhatnagar, Arty	IC 43083 VS Shivrain, Inf
IC 43037 Devinder Yadav, Int	IC 43084 KP Sudhir, AC
IC 43038 Praveen Sharma, Inf	IC 43085 SS Rana, Inf
IC 43039 AK Ramanathan, Inf	IC 43086 Joginder Singh, Inf
IC 43040 MB Pun, Inf	IC 43087 Dinesh Kumar, Mech Inf
IC 43041 IBS Mangat, AOC	IC 43088 Abhaya Bhatnagar, AC
IC 43042 Aseem Bhatt, Inf	IC 43089 Hitesh Bhatnagar, Engr
IC 43043 SK Katyal, Sig	IC 43090 Pradeep Kochhar, Arty
IC 43044 RK Rana, Int	IC 43091 VSN Vasista, Inf
IC 43045 Bikram Singh, Arty	IC 43092 Ramphal, Arty
IC 43046 NJ Singh, Inf	IC 43093 Sanjeev Kumar Singh, EME
IC 43048 S Sivadasan Nair, Inf	IC 43094 SS Mann, Inf
IC 43049 Yashpal Balhara, Mech Inf	IC 43096 IJS Chawla, Arty
IC 43051 PP Singh, ASC	IC 43097 KK Srivastava, Arty
IC 43052 AK Pandey, ASC	IC 43098 PK Jha, Sig
IC 43053 VK Dhir, Inf	IC 43099 VN Bhardwaj, Inf
IC 43057 MV Kesava Rao, Arty	IC 43100 Ashok S Pawar, AOC
IC 43058 AK Singh, Inf	IC 43101 TSS Prasad, Sig
IC 43059, Lobzang Neema, Engr	IC 43102 Deepinder Singh, AOC
IC 43060 Sunil Singh, Sig	IC 43103 Lali Kapila, Inf
IC 43062 Amitabh Bose, Arty	IC 43104 Ravi Chowdhary N, ASC
IC 43063 AK Sharma, Engr	IC 43105 SK Bhardwaj, Arty
IC 43064 Niranjana Kumar, Inf	IC 43106 Sanjoy Mohan, Arty
IC 43065 SK Gupta, AOC	IC 43107 VK Shoree, Arty
IC 43066 SS Lalotra, Arty	IC 43108 H Najumudeen, Sig
IC 43068 Atul Marwaha, AOC	IC 43109 SK Roy, ADA
IC 43069 Manoj Kumar, ADA	IC 43110 PJ Lawrence, AOC
IC 43070 SK Verma, ADA	IC 43111 Mahendra Singh J Jhala, Inf
IC 43071 Swamy Clement, ASC	IC 43112 AK Singh, Sig
IC 43072 Raman Malik, Inf	IC 43113 GS Bedi, Inf
IC 43073 Rakesh Raina, Inf	IC 43114 JS Gurung, AC
IC 43075 Sukhdeep Bhatta, ADA	IC 43116 SK Nagpal, Arty
	IC 43119 Ashok Malik, Engr



IC 43120 Bose K Joseph, Arty	IC 43206 KM Upadhyaya, AEC
IC 43121 P Srinagesh, ADA	IC 43210 Binod Kumar, AEC
IC 43122 NL Karia, Inf	IC 43214 Subrahmanyam Palaparthi NSS, AEC
IC 43123 Rajan Bakshi, Inf	IC 43216 Bhanu Pratap Singh, EME
IC 43124 LDV Prasad Rao, Engr	IC 43217 Mohan Singh, M Inf
IC 43125 AK Chakrabarti, Sig	IC 43218 PS Minhas, AC
IC 43126 Pradeep Sofat, Inf	IC 43219 Alok Kacker, Inf
IC 43127 Narender Kumar, ASC	IC 43220 SPS Sidhu, M Inf
IC 43128 Biswajit Mondal, Engr	IC 43221 AS Kandari, M Inf
IC 43129 Mahindra Bhatnagar, Inf	IC 43222 Bharat Singh Rawat, EME
IC 43130 George KY, Sig	IC 43223 RK Jha, Engrs
IC 43131 George K Poonjati, AOC	IC 43224 John K John, M Inf
IC 43132 Anil Chawla, Engr	IC 43225 GS Shan, AOC
IC 43133 Lokesh Sharma, AOC	IC 43226 Ashok Kumar Sharma, EME
IC 43134 Sanjay Mathur, Arty	IC 43227 RS Singh, M Inf
IC 43135 PK Mishra, Arty	IC 43228 M Rajendran, EME
IC 43136 SS Rathore, Inf	IC 43229 Tejinder Singh, M Inf
IC 43137 Sanjay Rawat, ASC	IC 43230 JK Singh, AC
IC 43138 Rajendran Nair, Arty	IC 43231 SS Johal, AOC
IC 43139 Anil Sibal, ADA	IC 43232 Mohit Nautiyal, Engrs
IC 43141 S Kothari, Arty	IC 43233 Tirath Singh Sapra, Engrs
IC 43143 KR Rajkumar, Inf	IC 43234 Chitkara A, AC
IC 43144 SK Datta, Inf	IC 43235 Chacko MD, Inf
IC 43145 Jai Singh, ASC	IC 43236 Sanjeev Khatri, Inf
IC 43146 Rahul Jauhri, Mech Inf	IC 43238 Sanjay Rawal, Sigs
IC 43148 AK Sharma, Inf	IC 43239 Harinder Singh, Arty
IC 43149 V Kannan, AOC	IC 43241 RL Hanagi, Inf
IC 43150 Davinder Singh, AC	IC 43242 NS Shekhawat, AOC
IC 43151 GP Singh, AOC	IC 43243 S Raja, Inf
IC 43152 KS Swami, Sig	IC 43244 MS Jodha, ASC
IC 43154 Rajesh Kumar Nair, EME	IC 43245 NS Raja Subramani, Inf
IC 43155 Suresh VP, ASC	IC 43246 SK Kurelay, Sigs
IC 43157 NP Singh, Inf	IC 43249 MK Sagoch, Inf
IC 43159 Anil Gulati, AOC	IC 43250 RN Mathur, Inf
IC 43161 Harjeet Singh, Arty	IC 43251 S Sharma, ADA
IC 43162 Tikaji, Inf	IC 43252 KH Gawas, Sigs
IC 43163 PK Pathak, Inf	IC 43253 Rajendra Singh, Inf
IC 43182 KN Padha, AEC	IC 43254 SS Kahlon, Engrs
IC 43203 JK Laxman, MF	IC 43257 P Srivastava, AVN

IC 43258 Vijay Bhaskar, Inf	IC 43299 Deepak Badoni, Engrs
IC 43259 SKS Panwar, Inf	IC 43300 PS Rajpurohit, Arty
IC 43260 NK Verma, Engrs	IC 43301 SP Singh, Inf
IC 43261 Pramod Kumar, Arty	IC 43302 M Khandekar, Arty
IC 43262 A Arun, Inf	IC 43303 CS Satyanarayana, Arty
IC 43263 SK Baliwal, Inf	IC 43304 Rajiv Malhotra, Inf
IC 43264 Alok Vats, Arty	IC 43305 Ravi Prakash, Arty
IC 43265 Rajiv Minocha, ASC	IC 43306 J Singh, Arty
IC 43266 RC Khajuria, Inf	IC 43307 NR Kumar, Inf
IC 43267 VK Menon, Arty	IC 43308 Naresh Kumar, Engrs
IC 43268 Sanjeev Dalal, Engrs	IC 43309 Anil Kumar, ASC
IC 43269 NS Kahlon, Sigh	IC 43311 P Jha, ADA
IC 43270 GS Sandhu, Arty	IC 43312 KD Sharma, Arty
IC 43272 RV Sadhotra, ASC	IC 43313 Gaurav Sharma, Inf
IC 43273 A Samanta, Inf	IC 43314 AK Singh, Inf
IC 43274 S Gopinath, Inf	IC 43315 R George, Arty
IC 43275 MS Tomar, AC	IC 43316 RS Dhankhar, ASC
IC 43276 Sanjay Kapur, Arty	IC 43317 RKH Sindhu, Arty
IC 43277 Rajesh Bhukar, Arty	IC 43319 Sunil Kotnala, Inf
IC 43278 Arun Saraf, Sigs	IC 43320 R Bhatia, Inf
IC 43279 Sumer Sobti, AC	IC 43321 VC Katoch, Arty
IC 43280 RL Patro, Inf	IC 43322 Yogesh Samnol, M Inf
IC 43281 Rakesh Rana, AC	IC 43323 Rakesh Rastogi, Sigs
IC 43282 Anurag Chander, Engrs	IC 43324 Rajesh Kumar, Arty
IC 43283 Jagdeep Dahiya, Arty	IC 43325 CS Arvind, Inf
IC 43284 AK Gupta, Arty	IC 43326 Manu Mehrotra, Engrs
IC 43285 DP Pandey, Inf	IC 43327 NS Pandian, Arty
IC 43286 JS Saran, Inf	IC 43330 JS Sandhu, Inf
IC 43287 MK Singh, Inf	IC 43331 SC Panwar, Inf
IC 43288 Sandeep Sable, Engrs	IC 43332 Prawin Kumar, ASC
IC 43289 SB Nair, Inf	IC 43333 K Narayanan, Inf
IC 43290 Manish Gaur, AOC	IC 43334 RS Yadav, Arty
IC 43291 RV Pawar, Inf	IC 43337 Karamjit Singh, Inf
IC 43293 Sanjay Sharma, Inf	IC 43338 KB Jairaj, Inf
IC 43294 AK Pandey, Inf	IC 43340 Rajinder Singh, ASC
IC 43295 Rajiv Khosla, Inf	IC 43341 BS Reddy, Engrs
IC 43296 VK Mishra, Inf	IC 43342 Rakesh Rana, Inf
IC 43297 JS Sidana, EME	IC 43343 Rajeeva Kumar, Inf
IC 43298 SS Birdie, Sigs	IC 43344 D Ohri, AC

IC 43345 Sudhir Handa, Sigs	IC 43390 SC Sadangi, Inf
IC 43346 Ravindra Singh Chauhan, EME	IC 43391 SK Datta, Inf
IC 43347 KN Singh, AC	IC 43392 Uday Chopra, Arty
IC 43349 M Nijhawan, Engrs	IC 43393 RA Mandhar, AOC
IC 43350 SK Lenka, Inf	IC 43394 Sandeep Misra, Engrs
IC 43351 A Nandi, Arty	IC 43395 MK Bindal, Arty
IC 43353 SPS Bal, Arty	IC 43396 Sanjay Kharbada, Arty
IC 43354 JS Sandhu, AC	IC 43397 Anil Pushkarna, Inf
IC 43355 Gurdial Singh, Engrs	IC 43398 Kulbir Singh, Inf
IC 43357 DK Joshi, Inf	IC 43399 Ajit Singh, Inf
IC 43358 VP Chitte, Arty	IC 43400 MS Rao, Inf
IC 43359 P Mylapron, Inf	IC 43401 Nawal Duggal, M Inf
IC 43360 S Shukla, AOC	IC 43402 MK Gupta, AOC
IC 43361 Polash Choudhury, Inf	IC 43403 VS Thapa, AOC
IC 43363 VK Pokhriyal, EME	IC 43405 D Ajwani, Arty
IC 43364 SS Khara, Int	IC 43406 Anil Chander, Sigs
IC 43365 J Hota, Sigs	IC 43407 S Pavamani, Arty
IC 43366 AS Parwar, Inf	IC 43408 BK Singh, Engrs
IC 43367 VK Daur, Arty	IC 43411 C Kurma Rao, Inf
IC 43368 Varghese AT, ASC	IC 43412 MS Jodha, AC
IC 43369 Akash Ghosh, Sigs	IC 43413 Ashutosh Badial, Inf
IC 43370 Johnson P Mathew, Inf	IC 43414 Tara Paratap Singh Rana, Inf
IC 43371 Rajiv Nandaq, Inf	IC 43415 DPS Chahal, Sigs
IC 43372 MK Yadav, Arty	IC 43416 SK Chauhan, EME
IC 43373 R Babu MC, Inf	IC 43417 Ashok Kumar, AOC
IC 43374 Ivin George, Inf	IC 43418 DD Sharma, ASC
IC 43376 Sanjiv Dutt, Inf	IC 43420 SK Singh, Inf
IC 43378 BK Trivedi, Sigs	IC 43421 KS Rao, Inf
IC 43379 Ved Paul, EME	IC 43422 RS Suri, Engrs
IC 43380 JK Menon, Inf	IC 43423 S Tiwari, Arty
IC 43381 DK Dahiya, ASC	IC 43425 Krishan Lal Bishnoi, ASC
IC 43382 Rajeev Sharma, Engrs	IC 43426 Atesh Chahar, Inf
IC 43383 Susej Bose, Inf	IC 43427 Yashpal Kajla, Inf
IC 43384 PK Rai, M Inf	IC 43429 BC Sharma, Sigs
IC 43385 OP Pandey, Arty	IC 43431 MS Karkhanis, Inf
IC 43386 AKS Rathore, Arty	IC 43432 S Biswas, AOC
IC 43387 Rahul Bakshi, ASC	IC 43433 JM Gurung, Inf
IC 43388 MK Singh, Inf	IC 43434 SP Singh, Engrs
IC 43389 PK Singh, Inf	IC 43436 Kawaljeet Singh, Arty

IC 43437 R Bhargava, Arty	IC 43485 HS Anand, Sigs
IC 43438 R Suresh, EME	IC 43486 KS Thakur, Inf
IC 43439 Govind Singh, AC	IC 43488 OK Pawar, Sigs
IC 43440 Rajeev Lowe, Arty	IC 43489 Atul Sharma, Inf
IC 43441 Paliam Vivek, AC	IC 43490 Raja Sharma, Engrs
IC 43442 Babu Abraham, Inf	IC 43491 AP Singh, AC
IC 43443 Sahib Singh Sandhu, Arty	IC 43492 HP Singh, Inf
IC 43444 P Gopalakrishnon Menon, Inf	IC 43493 Pankaj Gaur, Inf
IC 43445 Ajay Khandpur, Arty	IC 43494 Amit Hajela, Inf
IC 43446 BC Rai, AOC	IC 43495 SB Bishnoi, Inf
IC 43447 Atre Hemant Arvind, Sigs	IC 43496 Vijender Kumar Singh, AOC
IC 43448 IS Bains, ASC	IC 43497 Sonam Takpa, Int
IC 43450 Inderjeet Singh, Arty	IC 43498 Anil Guliani, Arty
IC 43451 Ravi Kumar, AOC	IC 43499 Anil Singh, Arty
IC 43452 Rajnish Kapur, EME	IC 43500 Sital Singh, Engrs
IC 43454 D Mukherjee, Inf	IC 43501 Rajeev Tewari, Inf
IC 43455 HR Vinayak, M Inf	IC 43502 AJ Alexander, AOC
IC 43456 S Debnath, Engrs	IC 43503 SS Rathee, Int
IC 43457 NK Sharma, Inf	IC 43504 WS Sharadrao, Inf
IC 43458 GK Bhadauria, Inf	IC 43505 Vijay Pal Shivach, Inf
IC 43460 AS Srivastava, Arty	IC 43506 S Vig, AC
IC 43461 Svsa Prasad, Engrs	IC 43508 Subhrant Shankar, Inf
IC 43462 Surendranath MS, Inf	IC 43509 Joginder Singh, Arty
IC 43463 KS Dhillon, Inf	IC 43510 Mohinder Singh, Arty
IC 43464 RS Raghav, Inf	IC 43511 Rajesh Panta, Inf
IC 43465 Vijaya Kumar, VS, Engrs	IC 43512 SK Sawhney, Arty
IC 43466 R Pattney, AC	IC 43513 S Bhargava, ASC
IC 43467 Arvind Kumar, Sigs	IC 43514 RS Hooda, Engrs
IC 43469 MS Yadav, Jag	IC 43515 RK Jeer, Inf
IC 43470 BS Malia, Inf	IC 43516 UC Prasad, Engrs
IC 43471 SS Sidhu, Inf	IC 43517 MV Ramkrishna, Arty
IC 43472 PC Nair, Inf	IC 43518 Swaran Kumar, Inf
IC 43473 Pramod Roy, Inf	IC 43519 KR Chandran, M Inf
IC 43476 NP Singh, Arty	IC 43522 AS Junior, Arty
IC 43477 KC Kalita, Arty	IC 43524 S Dhamankar, Arty
IC 43479 Vijay Sahgal, Arty	IC 43525 Prabjet Singh, Sigs
IC 43482 MP Tandon, Inf	IC 43526 BS Sambyal, Inf
IC 43483 Pardeep Singh, Arty	IC 43528 US Virik, ASC
IC 43484 SD Goswami, Inf	IC 43529 P Kaushik, Arty

IC 43530 Arup Saha, Engrs  
IC 43531 T Rai, Sigs  
IC 43532 Arvinder Singh, AOC  
IC 43533 NN Bajpayee, EME  
IC 43534 VK Misra, ASC  
IC 43535 Sumesh Gupta, Engrs  
IC 43536 Sunny Kurian M, Arty  
IC 43537 LC Katoch, Inf  
IC 43538 RK Malhotra, Arty  
IC 43539 BN Bhandari, Inf  
IC 43540 M Giridhar, Arty  
IC 43541 SC Prasad, Sigs  
IC 43542 RC Rohilla, M Inf  
IC 43543 Joydeep Dey, Inf  
IC 43544 AK Singh, Inf  
IC 43545 JP Saikia, Arty  
IC 43546 P Vyas, Engrs  
IC 43547 RK Singh, Inf  
IC 43548 Sanjay Joshi, Arty  
IC 43549 DS Locham, Arty  
IC 43550 Alok Karunakar, Sigs  
IC 43551 Amarjit Singh, Inf  
IC 43552 Gurpreet Singh, AOC  
IC 43553 Surinder Monga, Inf  
IC 43554 Mohit Sikka, Inf  
IC 43555 SS Sengar, Arty  
IC 43556 Rakesh Raghuvanshi, ASC  
IC 43558 Ved Parkash, Engrs  
IC 43560 AG Chavan, Inf  
IC 43561 UC Mehta, Arty  
IC 43562 ML Narasimha, ASC  
IC 43563 Sanjay Wahal, Inf  
IC 43564 Arvind Kohli, Inf  
IC 43565 H Mehta, AC  
IC 43566 Kuldeep Kapoor, Sigs  
IC 43568 Nirdesh Kumar Rangra, AOC  
IC 43570 Pergat Singh, Arty  
IC 43571 VJ Karande, AOC  
IC 43572 Vineet Dev, Arty

IC 43573 Mridul Sharma, Arty  
IC 43575 Navtej Singh, Inf  
IC 43576 A Swaroop, Sigs  
IC 43577 Arvinder Singh, Inf  
IC 43578 Manish Khullar, EME  
IC 43580 Sanjiv Sudan, Inf  
IC 43581 RPS Mankotia, M Inf  
IC 43582 Ashwin Dev, Sigs  
IC 43583 Rahul Grover, AC  
IC 43584 SC Gaur, Engrs  
IC 43586 Sanjay Singh, Sigs  
IC 43587 A Roy, Arty  
IC 43588 Amit Raizaday, AOC  
IC 43589 RPS Bajaj, Inf  
IC 43590 Sunil Sharma, EME  
IC 43591 Anurag Saxena, EME  
IC 43593 Vishal Bhargav, Inf  
IC 43594 GS Kalkat, Arty  
IC 43595 KN Sreekumar, AC  
IC 43597 Anil Ahuja, Arty  
IC 43598 JS Randhawa, M Inf  
IC 43599 AK Prashar, Arty  
IC 43600 APS Sidhu, Inf  
IC 43601 SK Saxena, Inf  
IC 43602 Madhur Goyal, Inf  
IC 43603 AK Jha, ASC  
IC 43604 AP Singh, Inf  
IC 43605 NBS Riar, ASC  
IC 43607 NK Chandra, AC  
IC 43608 Austin J Collaco, Inf  
IC 43609 Rajesh Rohmetra, Engrs  
IC 43610 EA Khan, AOC  
IC 43611 Munindra Tripathi, Sigs  
IC 43614 Arun Parashar, M Inf  
IC 43615 Sukhbir Singh Suhag, Engrs  
IC 43618 MG Thimmaya, Engrs  
IC 43620 A Thakur, Inf  
IC 43648 John Henry Samuel, AEC  
IC 43649 KK Ghosh, AEC

IC 43651 RS Prasad, Sigs	IC 45479 Manmohan Sood, JAG
IC 43652 P Kumar, AEC	IC 45480 Kanwal Bir Singh Sandhu, Arty
IC 45435 Ram Niwas, Inf	IC 45481 Krishnan Kuttu Manu, AOC
IC 45436 Ombir Singh Takkar, Inf	IC 45482 Ugam Singh Sodha, EME
IC 45437 Satpal Singh Raghav, Inf	IC 45483 Kishore Kumar Mishra, Arty
IC 45438 Dev Anand Singh Lohamaror, Inf	IC 45485 Ajay Sharma, ASC
IC 45439 Ashis Bhattacharyya, AC	IC 45486 Ranveer Singh Parmar, Arty
IC 45440 Jamil Ahmed Khan KK, AC	IC 45487 Parvat Singh, ASC
IC 45441 Sebastian Bernard, EME	IC 45488 S Veerasangili, Arty
IC 45442 Lakshman Singh Bharat Singh Chauhan, AC	IC 45489 Chhabir Tej Singh Gill, AC
IC 45444 Kamal Singh, Arty	IC 45490 Nasser Hussain Dubey, Arty
IC 45445 Balinder Mohan Talwar, ASC	IC 45491 Jagdeep Singh Lally, Arty
IC 45446 Jai Prakash Tiwari, AOC	IC 45492 Ajay Bir Singh Bhandari, Arty
IC 45447 R Bala Subramanian, JAG	IC 45493 Rajeev Kumar, EME
IC 45448 Rajesh Thakur, ASC	IC 45494 Anil Kumar Sharma, Arty
IC 45449 KK Kiren, Arty	IC 45495 Bal Krishan Bhardwaj, ASC
IC 45451 R Ratheesh Nair, Arty	IC 45496 Nazar N Eduljee, EME
IC 45452 Janak Singh Shekhawat, ASC	IC 45497 Pinky Vinay Kakkar, AOC
IC 45454 Anil Kumar Singh, Arty	IC 45498 Yashpaul Singh, Arty
IC 45455 Manoj Kumar Sah, AC	IC 45499 Deshpande Sudhir Bhal Chandra, Arty
IC 45456 Rakesh Joshi, Arty	IC 45500 Rajiv Mehrotra, JAG
IC 45457 Nair Rajiv Ravindran, Arty	IC 45501 Ramesh Kumar Biala, ADA
IC 45458 Melath Unnikrishnan, ASC	IC 45502 Paramjit Singh Grewal, ASC
IC 45459 Shubhoday Mukherjee, Arty	IC 45503 Sunil Sharma, AOC
IC 45460 Ajwant Singh Grewal, Arty	IC 45504 Jatinder Chakravarty, Arty
IC 45461 Joginder Singh Rana, Arty	IC 45506 Dhanesh Kumar Sharma, Arty
IC 45462 Vinod Kumar Pant, AOC	IC 45507 Rajdeep Singh, Arty
IC 45463 Rajesh Pandey, Arty	IC 45508 KS Vasudevan, AOC
IC 45464 Sunil Kumar Gupta, EME	IC 45509 N Bhaskar, ASC
IC 45465 Prashant Dabholkar, Arty	IC 45510 Sanjay Mehta, Arty
IC 45466 Vinod Sawhney, Arty	IC 45511 Prafulia Kumar Singh, AOC
IC 45467 Brijesh Kumar Singh, Arty	IC 45512 Krishna Chandra Upadhyaya, Arty
IC 45468 Navrattan Joshi, AOC	IC 45513 NK Sharma, JAG
IC 45469 Jasvir Singh Gulia, ASC	IC 45514 Emmanuel Raj Kumar, ASC
IC 45470 Desai Chandrasahas Shrirang, ADA	IC 45515 Pradeep Kumar Singh, Arty
IC 45471 Sunil Datt, EME	IC 45516 Eftekhak Ali Khan, Arty
IC 45473 Tapendra Singh, Arty	IC 45517 Rakesh, JAG
IC 45474 Mrinal Kant Roy, Arty	IC 45518 A Salaria, AOC
IC 45475 Sunil Pathak, EME	IC 45519 Chandra Kant Agarwal, JAG
IC 45477 Mukul Bhalla, EME	IC 45520 Sri Kant, EME

IC 45521 Onkar Sharma, Arty  
 IC 45523 Robin John Fernandes, Inf  
 IC 45524 Vishwanathan Subramaniam, M Inf  
 IC 45525 Vijay Nair, Inf  
 IC 45527 Sandeep Mittal, M Inf  
 IC 45528 Nandakumar P, M Inf  
 IC 45529 Ajit Chopra, AC  
 IC 45530 Arun Sharma, Arty  
 IC 45531 BG Jagadeesh, EME  
 IC 45533 Anil Bhatt, AC  
 IC 45534 N Pathania, ADA  
 IC 45535 Sunil Pratap Rao Bhosle, Inf  
 IC 45536 Rajeev Pandey, AC  
 IC 45537 Harbinder Singh Rup, Arty  
 IC 45538 Jai Narain Rai, Inf  
 IC 45539 Vishvanath Vidyadhar Godbole, Inf  
 IC 45540 Rakesh Thakur, AC  
 IC 45541 TP Jagadeesh Chandran, Inf  
 IC 45542 PN Balasubramanian, EME  
 IC 45543 CV Sridhar, Inf  
 IC 45544 Ashok Kini H, Inf  
 IC 45545 Arun Dev Singh Samyal, Inf  
 IC 45546 Deepinder Jit Singh Chahal, AC  
 IC 45548 Vikas Uppal, Inf  
 IC 45549 Sanjay Sethi, Arty  
 IC 45551 M Siva Kumar, Inf  
 IC 45552 Ranjit Singh, Inf  
 IC 45553 Karamjeet Singh, Sigs  
 IC 45554 Sunil Kumar Yadav, Inf  
 IC 45555 Monish Datta, Inf  
 IC 45556 Rajeev Panwar, Inf  
 IC 45557 Bikram Jit Singh, Inf  
 IC 45558 Mukesh Juyal, Inf  
 IC 45559 Nirmal Singh, Engrs  
 IC 45561 Hemant Kumar Puri, Arty  
 IC 45562 Jayan Jacob Varghese, AC  
 IC 45563 P Narayan Menon, AC  
 IC 45564 Dinesh Chadha, Arty  
 IC 45565 Har Kishan Basoya, Inf

IC 45567 Jawahar Barnana, Arty  
 IC 45568 Maxual Roberts, Inf  
 IC 45569 Shakil Ahmed, Inf  
 IC 45570 Trilochan Singh Parmar, EME  
 IC 45571 Ramesh Kumar M, Engrs  
 IC 45572 Akhil Sharma, Inf  
 IC 45573 Neeraj Jha, Inf  
 IC 45575 Dinesh Joseph Lyall, Inf  
 IC 45576 Ravi Pratap Singh, EME  
 IC 45577 Gautam Ganguly, Inf  
 IC 45579 James Anil E, Inf  
 IC 45581 Rajesh Kumar Mishra, Inf  
 IC 45582 Kalia Prasad Singh, Inf  
 IC 45583 Jagdish Narayan Pandey Arty  
 IC 45584 Sumir Jit Singh Randhawa, Inf  
 IC 45585 Basudev Mitra, Inf  
 IC 45586 Sanjeev Malhotra, Inf  
 IC 45587 Kamal Singh Pathania, AC  
 IC 45588 Nand Kishore Subhedar, AC  
 IC 45589 Rajesh Seth, Inf  
 IC 45590 Manmohan Singh, Int  
 IC 45591 Anupam Mathur, EME  
 IC 45592 Bimal Rai, ASC  
 IC 45595 Joshi Vivek J, Arty  
 IC 45596 Sharad Saran, Inf  
 IC 45597 Sanjiv Shukla, Sigs  
 IC 45598 Abhijit Das, EME  
 IC 45599 Arup Sanyal, Sigs  
 IC 45601 Pardeep Kumar, EME

16 Dec 2004

AJAY GOYAL  
 Dy Dir

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 361, dated 29 June 2005—The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2004 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5					
(S/Shri/Smt)									
DR Nath	DRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200	TH Palkar	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500
K Borah	DRL	TO 'B'	TO 'C'	—do—	A Purushottam	ASL	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200
SS Sagar	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	—do—	TV Subba Rao	ASL	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500
AK Bakshi	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	—do—	Mir Shamsuddin	ASL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
JP Soi	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	—do—	Shaik Baji	ASL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
Brij Bhushan Gupta	TBRL	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500	TS Srinivasan	DFRL	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200
Gurdeep Singh	TBRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—	V Vasudevan	DFRL	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500
Basant Lal	TBRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—	SM Paunikar	ADRDE	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200
Parmeshwari Sharma	TBRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—	RN Tiwari	ADRDE	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500
Bhaskar Chakraborty	ITR	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200	KM Dube	ADRDE	TO 'A'	TO 'B'	—do—
Avijit Roy	ITR	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500	RK Danikhel	DRDE	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200
Apurba Kumar De	ITR	TO 'A'	TO 'B'	—do—	Chhaya Saxena	DRDE	TO 'B'	TO 'C'	—do—
RN Dutta	ITR	TO 'A'	TO 'B'	—do—	Usha Kaveeshwar	DRDE	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500
VS Rokade	R&DE (Engrs)	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200	OP Hooda	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200
GB Suryawanshi	—do—	TO 'B'	TO 'C'	—do—	SN Singh	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	—do—
N Thankappan	—do—	TO 'B'	TO 'C'	—do—	SC Arora	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	—do—
ED Mahajan	—do—	TO 'B'	TO 'C'	—do—	Shree Niwas	SSPL	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500
AR Kute	—do—	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500	DV Narang	SSPL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
PG Shinde	—do—	TO 'A'	TO 'B'	—do—	MG Chavan	NMRL	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200
KB Wagh	—do—	TO 'A'	TO 'B'	—do—	L Chandrasekhar	NMRL	TO 'B'	TO 'C'	—do—
NG Fengase	—do—	TO 'A'	TO 'B'	—do—	B Lalitha S Reddy	NMRL	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500
VD Kapare	—do—	TO 'A'	TO 'B'	—do—	DK Jawale	HEMRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
BN Khandale	—do—	TO 'A'	TO 'B'	—do—	VV Phadtare	HEMRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
HA Tank	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	10,000-325-15,200	AD Baraskar	HEMRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
AP Yerpude	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	—do—	KS Job	HEMRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
PK Phadke	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	—do—	RE Jagtap	HEMRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
SV Gumaste	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	—do—	SJ Pawar	HEMRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
PK Ghosh	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	—do—	MB Shah	HEMRL	TO 'A'	TO 'B'	—do—
DR Gaikwad	ARDE	TO 'B'	TO 'C'	—do—	M Jayalaxmi	MTRDC	TO 'A'	TO 'B'	—do—
NL Bingewar	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	8,000-275-13,500	UB Shewale	R&DE (Engrs)	STA 'C'	TO 'A'	7,450-225-11,500
MY Nene	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	—do—	AY Shitole	R&DE (Engrs)	STA 'C'	TO 'A'	—do—
BN Mahadik	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	—do—	SS Taware	R&DE (Engrs)	STA 'C'	TO 'A'	—do—
SS Kapade	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	—do—	KA Patil	R&DE (Engrs)	STA 'C'	TO 'A'	—do—
K Gunaseelan	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	—do—					
NY Phatak	ARDE	TO 'A'	TO 'B'	—do—					



1	2	3	4	5
AS Chittar	R&De (Lngrs)	STA 'C'	TO 'A'	7,450-225- 11,500
Gayadhar Sethi	ITR	STA 'C'	TO 'A'	—do—
S Jena	ITR	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Harihar Jena	ITR	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Rajendra Singh	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Sangeeta Bansal	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Mohan Lal	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Sangeeta Gulati	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
AD Sharma	ADRDE	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Badrul Qamar	ADRDE	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Gulab Singh	ADRDE	STA 'C'	TO 'A'	—do—
MS Meena	ADRDE	STA 'C'	TO 'A'	—do—
KVVS Murthy Reddy	ASL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
K Ravi Kumar Reddy	ASL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
NG Malvankar	NMRL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Sajjan Singh	SSPL	STA 'C'	TO 'A'	—do—
YV Sreenivasa Rao	DRDE	STA 'C'	TO 'A'	—do—
Arut Pavai SK	MTRDC	STA 'C'	TO 'A'	—do—
BK Badrinath	LRDE	STA 'C'	TO 'A'	—do—
MR Vijayendra	DFRL	STA 'C'	TO 'A'	—do—

The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 02 Sep 2004 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
MM Marathe	HEMRL	TO 'A'	To 'B'	8000-275- 13,500

The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 03 Sep 2004 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
S Chokalingam	ARDE	TO 'A'	To 'B'	8000-275- 13,500

BB SHARMA, DD (Pers-I)

#### AIR BRANCH

No. 362, dated 28th June 2005—The President of India is pleased to make the following promotions :—

(JWOs to Sub WOs)

Service No. Rank, Name, Trade & Date of Sub WO

285898 WO Bhaskaran Pallath House, ACH GD, 08 Jun 02

286139 WO Ram Sahay Giri, ACH GD, 04 Dec 02

286377 WO Shive Bhushan Singh, ACH GD, 01 May 03

287410 WO Indra Deo, ACH GD, 11 Oct 03

290657 WO Pulis Singh, ACH GD, 02 Oct 01

291505 WO Ramesh Chandra Mohanty, ACH GD, 03 Jun 03

291917 WO Kollu Ruhanumantha Rao, ACH GD, 11 Oct 03

295236 WO Ajit Kumar Haldar, ACH GD, 02 Oct 01

295468 WO Mano Ranjan Banik, ACH GD, 02 Dec 01

295657 WO Chithabhakam Chandrasekharan, ACH GD, 06 Jun 02

295697 WO Kamiksha Prasad Yadav, ACH GD, 11 Oct 03

295925 WO Labh Singh, ACH GD, 06 Jun 02

296077 WO Jagannath Prasad Misra, ACH GD, 09 Aug 03

296165 WO Bulaki Ram Das, ACH GD, 04 Dec 02

296193 WO Shyam Bihari Singh, ACH GD, 04 Dec 02

296265 WO Prabhu Dayal, ACH GD, 04 Dec 02

296272 WO Shiva Narayan, ACH GD, 04 Dec 02

296400 WO Kanhya Lal, ACH GD, 04 Dec 02

296424 WO Lallan Singh, ACH GD, 04 Dec 02

296429 WO Shyam Bihari Singh, ACH GD, 04 Dec 02

296431 WO Bali Ram Singh, ACH GD, 04 Dec 02

296433 WO Sachchidanand Pandey, ACH GD, 04 Dec 02

296434 WO Sinod Kumar Singh, ACH GD, 04 Dec 02

296473 WO Sushanta Kumar Bhattachar Jee, ACH GD, 04 Dec 02

296495 WO Hem Kumar, ACH GD, 04 Dec 02

296536 WO Kutty Krishnan V, ACH GD, 04 Dec 02

296703 WO Sebastian NS, ACH GD, 04 Dec 02

296708 WO Jai Prakash Narain, ACH GD, 04 Dec 02

296778 WO Sharad Damle, ACH GD, 04 Dec 02

296807 WO Baban Tiwary, ACH GD, 01 May 03

296809 WO Dip Narayan Prasad Choudhary, ACH GD, 04 Dec 02

296814 WO Rajesaba Nabisaba Pinjar, ACH GD, 01 May 03

- 296891 WO Bikash Chandra Das, ACH GD, 04 Dec 02
- 296903 WO Balak Ram, ACH GD, 04 Dec 02
- 296915 WO Man Singh, ACH GD, 01 May 03
- 296957 WO Baldev Singh, ACH GD, 01 May 03
- 297024 WO Harbans Singh, ACH GD, 01 May 03
- 297055 WO Babu Singh, ACH GD, 01 May 03
- 297057 WO Shiv Raj Singh, ACH GD, 01 May 03
- 297211 WO Ram Ran Vijay Prasad Singh, ACH GD, 01 May 03
- 297222 WO Lal Deo Gosain, ACH GD, 01 May 03
- 297276 WO Sivanpillai N, ACH GD, 11 Oct 03
- 297290 WO Chand Govind Singh, ACH GD, 01 May 03
- 297295 WO Mohammed Omer, ACH GD, 01 May 03
- 297331 WO Dwijendra Prasad Dubey, ACH GD, 01 May 03
- 297352 WO Hare Ram Ram, ACH GD, 01 May 03
- 297382 WO Kamal Narayan, ACH GD, 01 May 03
- 297394 WO Jagan Nath, ACH GD, 01 May 03
- 297404 WO Ram Swaroop, ACH GD, 15 Aug 03
- 297409 WO Chhedi Lal Kuril, ACH GD, 03 May 03
- 297444 WO Bhargavan Thekkevalil Pappu, ACH GD, 01 May 03
- 297462 WO Narinder Mohan Joshi, ACH GD, 01 May 03
- 297463 WO Bhandari Ram, ACH GD, 03 Jun 03
- 297509 WO Tapan Kumar Das, ACH GD, 09 Aug 03
- 297548 WO Janardan Prasad, ACH GD, 01 May 03
- 297586 WO Ram Krishna Chhipa, ACH GD, 03 Jun 03
- 297734 WO Ram Prasad Ram, ACH GD, 03 Jun 03
- 297735 WO Shiwrati Singh, ACH GD, 03 Oct 03
- 297846 WO Bhuwan Prakash Pandey, ACH GD, 05 Aug 03
- 297858 WO Govind Singh Kshatriy, ACH GD, 03 Jun 03
- 297901 WO Jabar Singh Rathore, ACH GD, 15 Aug 03
- 297902 WO Dhani Ram, ACH GD, 05 Aug 03
- 297933 WO Mahendra Singh, ACH GD, 05 Aug 03
- 297947 WO Harnam Singh Thakur, ACH GD, 01 May 03
- 298017 WO Shaik Jeelani Basha, ACH GD, 15 Aug 03
- 298018 WO Murthy K K, ACH GD, 05 Aug 03
- 298053 WO Ganesh Prasad Sharma, ACH GD, 09 Aug 03
- 298054 WO Binay Kumar Verma, ACH GD, 05 Aug 03
- 298057 WO Prayag Raj, ACH GD, 09 Aug 03
- 298064 WO Sampat Kumar Tiwari, ACH GD, 03 Jun 03
- 298065 WO Ram Narayan Mistry, ACH GD, 05 Aug 03
- 298067 WO Sheo Prasad Singh, ACH GD, 05 Aug 03
- 298136 WO T Lazar, ACH GD, 11 Aug 03
- 298202 WO Gugan Ram Sirwa, ACH GD, 11 Aug 03
- 298266 WO Ram Naresh Maurya, ACH GD, 15 Aug 03
- 298267 WO Ramadhar Prajapati, ACH GD, 09 Aug 03
- 298294 WO Ramanand Kumhar, ACH GD, 05 Aug 03
- 298370 WO Surendra Nath Bajpai, ACH GD, 15 Aug 03
- 298372 WO Hanuman Singh Passi, ACH GD, 15 Aug 03
- 298407 WO Om Prakash, ACH GD, 09 Aug 03
- 298413 WO Babu M G C, ACH GD, 05 Aug 03
- 298438 WO Mahendra Pratap Singh, ACH GD, 09 Aug 03
- 298461 WO Chandra Shekhar Pandey, ACH GD, 05 Aug 03
- 298659 WO Lal Deo Ram, ACH GD, 11 Oct 03
- 298825 WO Sheo Kumar Awasthi, ACH GD, 03 Oct 03
- 298859 WO Naba Kumar Das, ACH GD, 15 Aug 03
- 298944 WO Rammehar Dahiya, ACH GD, 03 Oct 03
- 299161 WO Prethwish Ranjan Dey, ACH GD, 11 Oct 03
- 299283 WO Gheesu Singh Rajpurohit, ACH GD, 11 Oct 03
- 299288 WO Nawal Singh Rawat, ACH GD, 11 Oct 03
- 299377 WO R Raja Sekaran, ACH GD, 03 Oct 03
- 299507 WO Nishir Kumar Gupta, ACH GD, 03 Oct 03
- 299581 WO Bharat Singh Yadav, ACH GD, 13 Oct 03
- 299610 WO Shambhoo Nath, ACH GD, 13 Oct 03
- 299849 WO Mahamad Hanif, ACH GD, 13 Oct 03
- 299894 WO Deonarayan Mishra, ACH GD, 13 Oct 03
- 299986 WO Ram Naresh Awasthi, ACH GD, 13 Oct 03
- 601146 WO Sheolakhan Singh, ACH GD, 01 May 03
- 601183 WO Sheo Shanker Lal, ACH GD, 01 May 03
- 601610 WO Shiva Charan, ACH GD, 09 Aug 03
- 601832 WO Raja Ram Singh, ACH GD, 09 Aug 03
- 610119 WO Krishna Chandra Sahu, ACH GD, 11 Oct 03
- 610385 WO Ramaraju Nagabhushana Rao, ACH GD, 13 Oct 03
- 610499 WO Nachhattar Singh, ACH GD, 11 Oct 03

- 610607 WO P Subramanian, ACH GD, 11 Oct 03
- 615131 WO Champalal Bhargava, ADSO, 02 Feb 04
- 616208 WO Girish Chandra Sarmah, ADSO, 04 Feb 04
- 616451 WO Soumendra Kumar Guha, ADSO, 02 Jan 03
- 616682 WO Ganesh Chandra Das, ADSO, 02 Jan 03
- 618178 WO Nithiananda Subash S, ADSO, 01 Jun 02
- 618629 WO Ravi Pratap Singh Tomar ADSO, 04 Feb 04
- 619508 WO Sharma Radhe Shyam G, ADSO, 02 Jan 03
- 619660 WO Surinder Pal Singh, ADSO, 02 Jan 03
- 619924 WO Ram Chandra Prasad Gupta, ADSO, 01 Jun 02
- 620266 WO Balvinder Singh Rajput, ADSO, 02 Jan 03
- 620700 WO Ramkishan, ADSO, 02 Feb 04
- 620859 WO Sannasi Gowder Rajaram, ADSO, 02 Jan 03
- 620970 WO Omprakash Sharma, ADSO, 01-Sep 02
- 622160 WO Rabindra Kumar Samant Roy, ADSO, 02-Jan 04
- 622569 WO Alok Kumar Jha, ADSO, 02 Feb 04
- 622595 WO Anil Kant Dave, ADSO, 02 Feb 04
- 622827 WO Ramendra Kumar Chaturvedi, ADSO, 02 Feb 04
- 624129 WO Roop Narayan Chaudhary, ADSO, 02 Feb 04
- 634881 WO George P Jacob, ADSO, 02 Jan 03
- 635298 WO Kuldeep Singh Nanda, ADSO, 02 Jan 03
- 636023 WO Anmol Duvedi, ADSO, 02 Feb 04
- 636518 WO Shyam Jee Pandey, ADSO, 02 Feb 04
- 636875 WO Krishnananda Shukla, ADSO, 02 Feb 04
- 636946 WO Naresh Pal Sharma Haritas, ADSO, 02 Feb 04
- 651426 WO Dhaval Shankh Ashok Ganpat, ADSO, 02 Feb 04
- 651617 WO Dillip Kumar Muduli, ADSO, 02 Jan 03
- 651845 WO Padma Ker Jha, ADSO, 02 Feb 04
- 652018 WO Sharma Shri Ram, ADSO, 02 Feb 04
- 652318 WO Parma Nand Singh, ADSO, 02 Feb 04
- 292927 WO Sree Samir Kumar Koyal, AF FIT, 03 Sep 02
- 293202 WO Subash Chander Kakkar, AF FIT, 03 Feb 02
- 293349 WO Triloka Ram Jat, AF FIT, 02 Oct 01
- 293645 WO Jitender Pal Singh Duggal, AF FIT, 03 Mar 03
- 293663 WO Deepak Bhardwaj, AF FIT, 02 Jul 02
- 641661 WO Virender Singh, AF FIT, 03 Nov 02
- 641876 WO Chandra Sekhar Azad, AF FIT, 03 Sep 02
- 642202 WO K. Narayanan Nair, AF FIT, 03 Aug 01
- 642236 WO Anand Kumar Sharma, AF FIT, 03 Aug 01
- 642241 WO Syed Sultan Ahmad, AF FIT, 03 Aug 01
- 642277 WO Bharat Ram, AF FIT, 03 Aug 01
- 642278 WO Bindraban Singh, AF FIT, 03 Aug 01
- 642279 WO Ramautar, AF FIT, 03 Aug 01
- 642294 WO Pawan Kumar Gupta, AF FIT, 03 Aug 01
- 642486 WO Sanket Piyush, AF FIT, 03 Apr 02
- 642490 WO Rajendra Ray, AF FIT, 02 Jul 02
- 642632 WO Ganesh Kumar, AF FIT, 03 Aug 01
- 642680 WO Birabar Nayak, AF FIT, 02 Aug 02
- 642742 WO Jai Kant Prasad, AF FIT, 03 Aug 01
- 642795 WO Vijay Kumar Gupta, AF FIT, 03 Apr 02
- 642855 WO Gyan Singh, AF FIT, 03 Feb 02
- 642863 WO Deo Raj Ram, AF FIT, 03 Aug 01
- 642864 WO Prithvi Raj Khetar Pal, AF FIT, 03 Aug 01
- 643010 WO Shiwjee Prasad, AF FIT, 03 Feb 03
- 643019 WO Sahab Singh Rath, AF FIT, 02 Oct 01
- 643020 WO Rama Nand Pant, AF FIT, 02 Oct 01
- 643022 WO Hardeep Singh, AF FIT, 03 Feb 02
- 643040 WO Umashankar Singh, AF FIT, 03 Nov 02
- 643045 WO Murali Krishna P R, AF FIT, 03 Feb 03
- 643062 WO Ram Krishan Singh, AF FIT, 02 Aug 02
- 643066 WO Hari Pal Singh, AF FIT, 03 Feb 02
- 643331 WO Surjit Singh, AF FIT, 02 Oct 01
- 643335 WO Ashok Kumar Rai, AF FIT, 05 Dec 01
- 643342 WO Hari Krishna Sahu, AF FIT, 03 Dec 02
- 643355 WO Om Prakash Verma, AF FIT, 02 Jul 02
- 643356 WO Raghu Bansh Singh, AF FIT, 02 Oct 01
- 643357 WO Vibhuti Bhushan Singh, AF FIT, 03 Apr 02
- 643371 WO Ramesh Chander, AF FIT, 02 Oct 01
- 643379 WO Jagan Mohnarao Bonam, AF FIT, 02 Oct 01
- 643384 WO SO Singh, AF FIT, 02 Aug 02
- 643386 WO Bahadur Ram, AF FIT, 03 Feb 02
- 643397 WO Suresh Chandra Pandey, AF FIT, 03 Apr 02
- 643399 WO Ram Baho Patel, AF FIT, 05 Dec 01

- 643400 WO Santosh Kumar Singh, AF FIT, 03 Feb 03  
 643401 WO Girija Prasad Bind, AF FIT, 05 Dec 01  
 643409 WO Sheo Prakash, AF FIT, 03 Feb 02  
 643762 WO Kuldip Singh, AF FIT, 05 Dec 01  
 643770 WO Manaram Bishnoi, AF FIT, 03 Feb 02  
 643771 WO Mahipal Singh, AF FIT, 03 Apr 02  
 643774 WO Jagdish Chandra Dohollia, AF FIT, 03 Apr 02  
 643792 WO Mahendra Kumar Madhup, AF FIT, 03 Apr 02  
 643839 WO Kailash Ram, AF FIT, 03 Apr 02  
 643842 WO Hari Krishna Chaudhary, AF FIT, 03 Feb 02  
 644069 WO Sowami Nath Sah, AF FIT, 03 Sep 02  
 644195 WO Om Prakash Verma, AF FIT, 02 Aug 02  
 644212 WO Ved Prakash Sharma, AF FIT, 03 Feb 02  
 644216 WO Chandeshwar Singh, AF FIT, 03 Nov 02  
 644217 WO Unnikrishnan P, AF FIT, 03 Feb 03  
 644233 WO Pitabas Sahu, AF FIT, 03 Feb 02  
 644234 WO Hruda Nanda Baral, AF FIT, 05 Dec 01  
 644239 WO Sankara Pillai Venugopal, AF FIT, 05 Dec 01  
 644254 WO Dharmdeo Singh, AF FIT, 03 Feb 02  
 644263 WO Daya Shanker Singh, AF FIT, 02 Aug 02  
 644270 WO Naipal Verma, AF FIT, 05 Dec 01  
 644604 WO Sunil Kumar Srivastava, AF FIT, 03 Sep 02  
 644625 WO Ghulam Rasul, AF FIT, 03 Feb 03  
 644630 WO Bishnu Kant Choudhary, AF FIT, 02 Aug 02  
 644649 WO Shiva Shanker Thakur, AF FIT, 03 Sep 02  
 644655 WO Ranvir Singh Chaudhery, AF FIT, 03 Feb 02  
 644664 WO Amarnath Roy, AF FIT, 02 Jun 02  
 644669 WO Shiv Sagar Lal, AF FIT, 03 Feb 02  
 644674 WO Ahmad Shoyab, AF FIT, 02 Aug 02  
 644678 WO Ajai Kumar Shrivastawa, AF FIT, 03 Feb 02  
 644680 WO Raghbir Singh, AF FIT, 02 Jul 02  
 644686 WO Yogendra Singh, AF FIT, 02 Jun 02  
 644692 WO Amar Singh Wilson, AF FIT, 02 Jun 02  
 644694 WO Girdhari Lal Sharma, AF FIT, 03 Feb 02  
 657069 WO Rama Prasad Yadav, AF FIT, 03 Nov 02  
 657075 WO Divakaran Mayandi, AF FIT, 05 Dec 01  
 657085 WO Rameshchandra Saha, AF FIT, 03 Feb 03  
 657087 WO Sarat Chandra Das, AF FIT, 05 Dec 01  
 657091 WO Bhuratana Singh Yadav, AF FIT, 02 Jun 02  
 657360 WO Ompal Tomer, AF FIT, 03 Feb 02  
 657367 WO Vijay Pal Singh, AF FIT, 03 Feb 02  
 657374 WO Lallan Prasad Gupta, AF FIT, 02 Jul 02  
 657614 WO Paras Nath Singh, AF FIT, 03 Feb 03  
 657619 WO Rup Kishor, AF FIT, 02 Oct 02  
 657639 WO Bhera Ram Suthar, AF FIT, 02 Jun 02  
 657888 WO Mukhdeo Singh, AF FIT, 02 Jun 02  
 657897 WO Naba Kishore Majhi, AF FIT, 03 Nov 02  
 657900 WO Nagendra Mishra, AF FIT, 02 Jul 02  
 657908 WO Naresh Kumar, AF FIT, 02 Oct 02  
 657917 WO Krishna Mohan Singh, AF FIT, 02 Jul 02  
 657921 WO Durga Shanker, AF FIT, 02 Jul 02  
 657924 WO Kirodi Singh Tomor, AF FIT, 03 Nov 02  
 658171 WO Pokharkar Anil Nanabhau, AF FIT, 03 Dec 02  
 658181 WO Mahipal Singh Vaswani, AF FIT, 03 Dec 02  
 658193 WO Mohammad Shamsul Afaq, AF FIT, 02 Jul 02  
 658195 WO Ganesh Singh, AF FIT, 02 Jul 02  
 658197 WO Rajeshwar Prasad Upadhyay, AF FIT, 02 Jul 02  
 658416 WO Lalta Prasad Gupta, AF FIT, 03 Nov 02  
 658417 WO Anoop Singh, AF FIT, 03 Nov 02  
 658443 WO Shri Ram Rai, AF FIT, 03 Sep 02  
 658671 WO Tapan Sarkar, AF FIT, 03 Nov 02  
 658674 WO Shree Ram Singh, AF FIT, 03 Dec 02  
 658677 WO Kanwar Pal Singh, AF FIT, 03 Dec 02  
 658681 WO Baljinder Singh, AF FIT, 03 Dec 02  
 658692 WO Misiruddin Laskar, AF FIT, 03 Dec 02  
 658924 WO Bindhya Chal Thakur, AF FIT, 03 Dec 02  
 658927 WO Ajit Kumar Yadav, AF FIT, 03 Nov 02  
 658930 WO Bikram Singh, AF FIT, 03 Nov 02  
 658932 WO Tarlochan Singh, AF FIT, 03 Feb 03  
 658934 WO Vedvrit Tyagi, AF FIT, 03 Dec 02  
 658940 WO Ram Niwas Changal, AF FIT, 03 Nov 02  
 659055 WO Binod Bihari Singh, AF FIT, 03 Dec 02  
 659061 WO Jitendra Singh, AF FIT, 03 Dec 02  
 659108 WO Purna Chandra Nayak, AF FIT, 03 Feb 03  
 659221 WO Lalit Chandra Deka, AF FIT, 03 Feb 03

- 659230 WO Dulal Chandra Sarkar, AF FIT, 03 Nov 02
- 659309 WO Bhim Puri Goswami, AF FIT, 03 Jan 03
- 659398 WO Ram Prasad Dhariwal, AF FIT, 03 Feb 03
- 659451 WO Kaushal Kumar Rai, AF FIT, 01 Mar 03
- 659495 WO Sachida Nand Prasad, AF FIT, 03 Jan 03
- 659499 WO Birendra Prasad, AF FIT, 03 Jan 03
- 659520 WO Sewa Singh, AF FIT, 03 Feb 03
- 659675 WO Kailash Chandra Baswal, AF FIT, 03 Jan 03
- 659676 WO Ashok Kumar Rana, AF FIT, 03 Feb 03
- 659681 WO Bhim Singh Bisht, AF FIT, 03 Feb 03
- 659694 WO Chet Ram Gujar, AF FIT, 03 Jan 03
- 659766 WO Mahesh Narain Vishwakarma, AF FIT, 03 Mar 03
- 659767 WO Mahendra Pal Shakya, AF FIT, 03 Feb 03
- 659852 WO Pawan Kumar Mishra, AF FIT, 03 Mar 03
- 659928 WO Sutantra Kumar, AF FIT, 03 Mar 03
- 659962 WO Mahendra Singh, AF FIT, 03 Mar 03
- 660005 WO Shambhu Sharan, AF FIT, 03 Mar 03
- 660012 WO Hare Ram Pandey, AF FIT, 03 Mar 03
- 660057 WO Basanta Kumar Mahapatra, AF FIT, 03 Apr 03
- 660059 WO Bhikari Charan Sahu, AF FIT, 03 Mar 03
- 660122 WO Narayana Dev Gopalan Nair, AF FIT, 03 Apr 03
- 660160 WO Kuppusamy Krishnan, AF FIT, 03 May 03
- 660177 WO Braj Bhushan Mishra, AF FIT, 03 Apr 03
- 660195 WO Shambhu Nath Khadgaha, AF FIT, 03 Apr 03
- 660197 WO Tarni Charan Gope, AF FIT, 03 Mar 03
- 660201 WO Jarnail Singh, AF FIT, 03 Apr 03
- 660211 WO Jaswinder Singh, AF FIT, 03 Apr 03
- 660281 WO Rajendra Prasad, AF FIT, 03 May 03
- 660292 WO Dilip Kumar Guchhait, AF FIT, 03 May 03
- 660594 WO Kirnapure Keshao Narayanrao, AF FIT, 03 May 03
- 661103 WO Satyapal Singh Kataria, AF FIT, 03 May 03
- 289858 WO Yash Paul Sharma, AFSO, 01 Aug 03
- 603807 WO Hira Singh Dhillon, AFSO, 01 Jan 03
- 604234 WO Raj Bali Singh, AFSO, 03 Jun 03
- 604417 WO Rajender Kumar Malik, AFSO, 03 Jun 02
- 604453 WO Shaktinath Mishra, AFSO, 01 Jan 03
- 631472 WO Fataram, AFSO, 03 Jun 03
- 631608 WO Vijay Shanker Ray, AFSO, 03 Jun 03
- 631609 WO Jay Mangal Singh, AFSO, 03 Jun 03
- 631704 WO Ananda Namadeo Yadav, AFSO, 01 Aug 03
- 631946 WO Nand Lal Prasad Singh, AFSO, 01 Aug 03
- 631988 WO Vinod Kumar, AFSO, 03 Jun 03
- 632021 WO Aditya Kumar Srivastva, AFSO, 04 Oct 03
- 632048 WO Ajoy Kumar Some, AFSO, 01 Aug 03
- 632282 WO Grish Chandra Sharma, AFSO, 03 Sep 02
- 632293 WO Ram Naresh Verma, AFSO, 01 Jan 03
- 632307 WO Mahindra Kumar Pradhan, AFSO, 03 Sep 02
- 632393 WO Tula Ram, AFSO, 01 Jan 03
- 632403 WO Sampat Raj Sharma, AFSO, 01 Jan 03
- 632438 WO Sakat Pal, AFSO, 03 Jun 03
- 632662 WO Tapas Kumer Halder, AFSO, 01 Feb 03
- 632668 WO Tapan Kumar Das, AFSO, 03 Jan 03
- 632670 WO Raja Ram Das, AFSO, 03 Jan 03
- 632686 WO GH Hassan Parray, AFSO, 01 Jan 03
- 632735 WO Gautam Singh, AFSO, 03 Jan 03
- 632737 WO Vijaya Shanker Singh, AFSO, 07 Feb 03
- 632738 WO Krishna Pal Singh Yadav, AFSO, 01 Feb 03
- 632790 WO Braj Kishor Prasad Verma, AFSO, 07 Feb 03
- 632817 WO Lal Babu Choudhary, AFSO, 02 Oct 03
- 632870 WO Parsuram Giri, AFSO, 04 Oct 03
- 632873 WO Damodar Singh, AFSO, 07 Feb 03
- 632934 WO Dinesh Chandra Singh, AFSO, 03 Feb 03
- 632998 WO Aram Singh, AFSO, 05 Feb 03
- 633175 WO Satyavir Singh Kakhtan, AFSO, 04 Oct 03
- 298578 WO Rajender Prasad, CAT ASSTT, 01 Feb 03
- 299028 WO Ram Sumiran, CAT ASSTT, 01 Feb 03
- 299257 WO Pradip Kumar Gogoi, CAT ASSTT, 04 Oct 03
- 299302 WO Kalyan Chand, CAT ASSTT, 04 Oct 03
- 299464 WO Venkatesan Valu Kanthan, CAT ASSTT, 01 Feb 03
- 299600 WO Tulsi Ram, CAT ASSTT, 01 Apr 03
- 610150 WO Ajeet Kumar Srivastav, CAT ASSTT, 04 Oct 03
- 610297 WO Paras Nath Mishra, CAT ASSTT, 04 Oct 03
- 610427 WO V Ramachandran, CAT ASSTT, 01 Apr 03

610695 WO Lakham Singh Pal, CAT ASSTT, 04 Oct 03	297782 WO Gurdass Chand, CLK ACCTS, 02 Nov 02
610900 WO Bhubaneswar Thakuria, CAT ASSTT, 04 Oct 03	297808 WO Vasudevan Sankaran, CLK ACCTS, 02 Nov 02
611395 WO Satvir Singh, CAT ASSTT, 04 Oct 03	297820 WO Narayanan Satheendran, CLK ACCTS, 02 Nov 02
279802 WO Sudama Shah, CLK ACCTS, 02 Nov 02	297843 WO Umesh Chand Sharma, CLK ACCTS, 02 Nov 02
296555 WO Bhag Singh, CLK ACCTS, 07 Nov 01	297945 WO Shurbir Singh, CLK ACCTS, 02 Nov 02
296682 WO Raghunath Prasad Kaushik, CLK ACCTS, 01 Apr 02	298036 WO Dharm Nath Singh, CLK ACCTS, 02 Nov 02
297026 WO Inder Singh Saroe, CLK ACCTS, 02 Nov 02	298037 WO Krishn Deo Tiwari, CLK ACCTS, 02 Nov 02
297232 WO Bimal Chandra Bhanja, CLK ACCTS, 02 Jul 02	298075 WO Abdul Rashid Ansari, CLK ACCTS, 02 Dec 02
297281 WO Sakir Ali, CLK ACCTS, 02 Jul 02	298161 WO Sri Gopal Das, CLK ACCTS, 02 Dec 02
297307 WO Parshotam Lal, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298200 WO Basu Dev Biswas, CLK ACCTS, 02 Dec 02
297313 WO Sharvan Kumar Yadava, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298249 WO Balam Ram Thakur, CLK ACCTS, 02 Dec 02
297324 WO Badhab Chandra Thakuria, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298268 WO Dharampal, CLK ACCTS, 02 Dec 02
297333 WO Awadhesh Kumar Pathak, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298341 WO Meckal Joseph Antony, CLK ACCTS, 02 Jan 03
297343 WO Unnithan R V, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298364 WO Bajjnath Kushwaha, CLK ACCTS, 02 Dec 02
297363 WO Mohindar Singh Gahlawat, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298365 WO Sri Harsh Tripathi, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297369 WO Shiv Prasad, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298369 WO Sukh Ram, CLK ACCTS, 02 Jan 03
297370 WO Rama Shanker Dubey, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298394 WO Surendran Damodaran, CLK ACCTS, 02 Jan 03
297371 WO Ramshanker Panday, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298396 WO Tilok Singh, CLK ACCTS, 02 Jan 03
297373 WO Sharda Prasad Mishra, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298397 WO Ram Saroop Sharma, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297461 WO Singh S, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298436 WO Kishore Chandra Misra, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297559 WO Rajpal Singh Malik, CLK ACCTS, 02 Sep 02	298440 WO Pramoda Kumara Patra, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297613 WO Thomas CA, CLK ACCTS, 02 Sep 02	298460 WO Prabhu Nath Sharma, CLK ACCTS, 03 Feb 03
297634 WO Baldev Singh, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298474 WO Bal Deo Sah, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297660 WO Shyam Chandra Jha, CLK ACCTS, 02 Sep 02	298584 WO Jogesh Chandra Kalita, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297681 WO Dukhisyam Ghorai, CLK ACCTS, 02 Aug 02	298611 WO Sardari Lal Sharma, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297703 WO Shiv Murti, CLK ACCTS, 02 Sep 02	298709 WO Ramesh Kumar, CLK ACCTS, 03 Feb 03
297705 WO Parameswar Roy, CLK ACCTS, 02 Nov 02	298719 WO Ramjas Pal Saini, CLK ACCTS, 04 Jan 03
297712 WO Thakurdas Sarkar, CLK ACCTS, 02 Sep 02	298741 WO Chinmoy Majumdar, CLK ACCTS, 03 Feb 03
297745 WO Ashok Kumar, CLK ACCTS, 02 Sep 02	298812 WO Shiv Lal Sharma, CLK ACCTS, 03 Feb 03
297775 WO Tarini Sarma, CLK ACCTS, 02 Nov 02	298826 WO Krishna Kumar Gupta, CLK ACCTS, 03 Feb 03
297779 WO Khajur Singh Narriana, CLK ACCTS, 02 Sep 02	

- 298835 WO Mawasi Ram Nagar, CLK ACCTS, 03 May 03  
298845 WO Asharfilal Sankhwar, CLK ACCTS, 03 May 03  
298867 WO Natwar Lal Sharma, CLK ACCTS, 03 May 03  
298894 WO Jayaram Panda, CLK ACCTS, 03 May 03  
298912 WO Kanwal Singh, CLK ACCTS, 03 May 03  
298991 WO Narayan Singh Purohit, CLK ACCTS, 03 May 03  
299010 WO Hari Kishore Trivedi, CLK ACCTS, 03 May 03  
299013 WO Girija Shanker Pandey, CLK ACCTS, 03 May 03  
299124 WO Roy Choudhury B, CLK ACCTS, 01 Jun 03  
299158 WO Manoranjan Mandal, CLK ACCTS, 01 Jun 03  
299165 WO Rameshwor Prasad Dubedi, CLK ACCTS, 01 Aug 03  
299254 WO Hansraj Rajput, CLK ACCTS, 01 Jun 03  
299274 WO Abdul Rashid, CLK ACCTS, 01 Jun 03  
299276 WO Braj Kishore Bharti, CLK ACCTS, 01 Jun 03  
299354 WO M N Chellappan Nair, CLK ACCTS, 01 Jun 03  
299393 WO Kalarikal Vidiadharan, CLK ACCTS, 01 Aug 03  
299497 WO Bachan Singh, CLK ACCTS, 01 Aug 03  
645042 WO Ram Phal Ohlan, CLK ACCTS, 02 Sep 02  
294745 WO Moti Lal Patel, CLK GD, 03 Aug 01  
295251 WO Kedar Nath Sah, CLK GD, 01 Feb 03  
295652 WO Shaik Ismael, CLK GD, 01 Feb 03  
295770 WO P Krishnadasan, CLK GD, 01 Jan 02  
295928 WO Joseph PA, CLK GD, 01 Jan 02  
296427 WO Ram Janam Sharma, CLK GD, 03 Feb 02  
296459 WO Randhir Singh, CLK GD, 02 Jul 02  
296565 WO Atma Ram, CLK GD, 02 Jul 02  
296867 WO Gurdev Singh, CLK GD, 02 Jul 02  
297092 WO Pasnoor Madhusudhan Reddy, CLK GD, 02 Jul 02  
297162 WO Dibyen Du Roy, CLK GD, 01 Feb 03  
297287 WO Hemshankar Singh, CLK GD, 01 Feb 03  
297407 WO Inder Singh Kushwaha, CLK GD, 02 Jan 03  
297495 WO Sher Singh Bainsla, CLK GD, 01 Feb 03  
297523 WO Prakash Chand Gupta, CLK GD, 04 Jan 03  
297553 WO Ved Pal Singh, CLK GD, 02 Jan 03  
297589 WO Ramesh Kumar Alag, CLK GD, 04 Jan 03  
297657 WO Shivakant Pandey, CLK GD, 04 Jan 03  
297732 WO Madan Prasad Sahu, CLK GD, 04 Jan 03  
297733 WO Ram Nath Yadav, CLK GD, 04 Jan 03  
297747 WO Banshi Lal, CLK GD, 04 Jan 03  
297749 WO Radha Krishan Sharma, CLK GD, 01 Feb 03  
297750 WO Basudev Singh, CLK GD, 04 Jan 03  
297752 WO Babu Lal, CLK GD, 06 Jun 03  
297768 WO Dharani Dhar Sarma, CLK GD, 04 Jan 03  
297789 WO Pritam Singh, CLK GD, 04 Jan 03  
297830 WO Dharamvir, CLK GD, 04 Jan 03  
297937 WO Ram Krishna Upadhyay, CLK GD, 04 Jan 03  
298007 WO Ashuthosh Chattopadhyay, CLK GD, 04 Jan 03  
298008 WO Bachan Upadhyay, CLK GD, 04 Jan 03  
298023 WO Alope Kumar Mondal, CLK GD, 04 Jan 03  
298031 WO Arjun, CLK GD, 04 Jan 03  
298032 WO Lalan Prasad Rai, CLK GD, 01 Feb 03  
298033 WO Sheo Shankar Prasad Singh, CLK GD, 04 Jan 03  
298035 WO Awadhesh Singh, CLK GD, 04 Jan 03  
298059 WO Hari Nath Tiwari, CLK GD, 01 Feb 03  
298089 WO Laba Nyo Rauilo, CLK GD, 01 Feb 03  
298143 WO Om Prakash Yadav, CLK GD, 01 Feb 03  
298144 WO Gaya Suddin, CLK GD, 01 Feb 03  
298145 WO Permeshwar, CLK GD, 01 Feb 03  
298149 WO Shiv Kumar, CLK GD, 03 Feb 03  
298166 WO Md Amir Ali, CLK GD, 01 Feb 03  
298174 WO Ratan Singh, CLK GD, 03 Feb 03  
298204 WO Vidyadhar Singh Sunda, CLK GD, 01 Feb 03  
298207 WO Gopal Singh Tanwar, CLK GD, 01 Feb 03  
298213 WO Sukh Ram, CLK GD, 01 Feb 03  
298219 WO Lallu Ram Bunsawal, CLK GD, 03 Feb 03  
298231 WO Harge Sharad Chandra, CLK GD, 03 Feb 03  
298256 WO Baij Nath, CLK GD, 01 Feb 03  
298300 WO Charanjit Singh Gill, CLK GD, 03 Feb 03



298302 WO Bansode Dnyanoba Namdeo, CLK GD, 03 Feb 03

298310 WO Ramesh Patil B, CLK GD, 05 Feb 03

298359 WO Balbir Singh Chadha, CLK GD, 01 May 03

298363 WO Jagdish Chand, CLK GD, 03 Feb 03

298392 WO Ashok Kumar Awasthi, CLK GD, 01 May 03

298398 WO Bodhraj, CLK GD, 05 Feb 03

298400 WO Prithipal Singh, CLK GD, 01 May 03

298410 WO Rajinder Singh, CLK GD, 05 Feb 03

298415 WO Perumalla Palli Jona, CLK GD, 01 May 03

298421 WO Vuddaraju Murali Krishnam Raju, CLK GD, 01 May 03

298444 WO Panna Lal Thakur, CLK GD, 01 May 03

298469 WO Deo Kumar Lall, CLK GD, 01 May 03

298470 WO Ram Swarup Thakur, CLK GD, 01 May 03

298471 WO Jagadamba Mishra, CLK GD, 06 Jun 03

298472 WO Yogendra Singh, CLK GD, 06 Jun 03

298492 WO Palve Dattu Eknath, CLK GD, 06 Jun 03

298503 WO Laxman Singh Rawat, CLK GD, 06 Jun 03

298525 WO Unnikrishnan Allikal House, CLK GD, 10 Jun 03

298530 WO Ridmal Acharaj, CLK GD, 04 Aug 03

298543 WO Rajendra Prasad Tiwari, CLK GD, 01 May 03

298546 WO Satya Prasad Budakuty, CLK GD, 06 Jun 03

298557 WO Lakkoju Ramatarakam, CLK GD, 06 Jun 03

298558 WO Vulli Bhaskara Rao, CLK GD, 06 Jun 03

298583 WO Buddhi Ram Rajbangshi, CLK GD, 06 Jun 03

298593 WO Harish Kumar Gupta, CLK GD, 06 Jun 03

298626 WO Naresh Kumar Gupta, CLK GD, 10 Jun 03

298652 WO Ram Sagar Bharati, CLK GD, 10 Jun 03

298661 WO Surinder Mohan, CLK GD, 10 Jun 03

298664 WO Premchand Masuta, CLK GD, 10 Jun 03

298666 WO Mahesh Kumar, CLK GD, 10 Jun 03

298730 WO Bharat Rai, CLK GD, 10 Jun 03

298763 WO Mangal Singh, CLK GD, 10 Jun 03

298774 WO B Shanmugam, CLK GD, 01 Jul 03

298807 WO Jayanta Kumar Mittra Majumdar, CLK GD, 10 Jun 03

298816 WO Lekhran Sharma, CLK GD, 10 Jun 03

298833 WO Shivdas Patil, CLK GD, 10 Jun 03

298877 WO Joginder Singh, CLK GD, 10 Jun 03

298890 WO Deo Narayan Pandey, CLK GD, 01 Jul 03

298898 WO Musafir Roy, CLK GD, 10 Jun 03

298902 WO Hardatt Singh Yadav, CLK GD, 04 Aug 03

299000 WO Om Prakash Saha, CLK GD, 01 Jul 03

299002 WO Kishori Singh, CLK GD, 04 Aug 03

299018 WO Raghveshwar Ram, CLK GD, 04 Aug 03

299026 WO Roop Narain Vishwakarma, CLK GD, 04 Aug 03

299128 WO Ram Jatan Shaw, CLK GD, 04 Aug 03

299129 WO Surya Narayan Sharma, CLK GD, 04 Aug 03

299143 WO Arjan Singh Tanjoo, CLK GD, 04 Aug 03

299188 WO Appigatla Prasad, CLK GD, 04 Aug 03

299267 WO Pashupati Nath Jha, CLK GD, 04 Aug 03

299271 WO Awadh Bihari Singh, CLK GD, 04 Aug 03

602583 WO Omparkash Sharma, CLK GD, 04 Aug 03

645381 WO Jai Krishna Singh, CRYPTO, 04 Jul 01

647671 WO Prem Sagar Gupta, CRYPTO, 05 Mar 02

693713 WO Narayan Dutta Sharma, ED INST, 04 Apr 03

693781 WO Beta Lal, ED INST, 02 Aug 02

694782 WO Sukhdev Singh Sahdev, ED INST, 12 Aug 02

694784 WO Deb Singh Khati, ED INST, 12 May 01

694789 WO Binoda Nand Jha, ED INST, 07 Jul 03

694895 WO Vijayabhanu Padmanbhan, ED INST, 02 Apr 03

694897 WO Ramalingam Ganapathi Sundaram, ED INST, 02 Aug 02

694899 WO Pardha Sarathi Krishna Iyer, ED INST, 02 Feb 02

694983 WO Sudhansu Kumar Samal, ED INST, 12 May 01

694985 WO Animesh Kumar Singh, ED INST, 07 Jul 03

700009 WO Umed Singh, ED INST, 04 Aug 02

700027 WO Narendra Prasad Kothiyal, ED INST, 12 Aug 02

700028 WO Chandran Subba Pillai, ED INST, 05 Jul 03

700029 WO Bala Bhaskar Burra Rao, ED INST, 16 Jul 03

700776 WO Bensam Rose Victor Manoj, ED INST, 16 Jul 03

700809 WO Dibakar Rout, ED INST, 18 Jul 03

700812 WO Abhimanyu Patel, ED INST, 16 Jul 03



- 700928 WO Yogendra Singh, ED INST, 16 Jul 03  
700931 WO Devendra Chandra Joshi, ED INST, 16 Jul 03  
701116 WO Shashank Shekhar Jha Bachchan, ED INST, 16 Jul 03  
701117 WO Pratip Chandra Mazumdar, ED INST, 16 Jul 03  
281070 WO Gulab Chand Ram, ELECT FIT, 02 Jul 02  
292846 WO Nepal Singh, ELECT FIT, 01 Aug 01  
299195 WO Darshan Singh, ELECT FIT, 02 Nov 01  
605152 WO Binder Pal, ELECT FIT, 02 Nov 01  
605906 WO Mauji Lal Yadav, ELECT FIT, 01 Nov 02  
605943 WO Harnam Singh, ELECT FIT, 02 Jun 02  
606163 WO Amrik Singh Vaid, ELECT FIT, 02 Nov 01  
606377 WO Durga Shanker, ELECT FIT, 02 Jun 02  
606451 WO Kailash Babu, ELECT FIT, 01 Nov 02  
606697 WO Lakshmi Narayan Choudhary, ELECT FIT, 03 Feb 02  
607076 WO Nasim Ahmad Khan, ELECT FIT, 02 Nov 01  
607583 WO Suresh Chandra Mahapatra, ELECT FIT, 02 Jun 02  
607616 WO Rajinder Singh Sarwara, ELECT FIT, 01 Aug 01  
607682 WO Madan Lal Mukar, ELECT FIT, 02 Mar 01  
607824 WO Jai Bhagwan, ELECT FIT, 02 Mar 01  
608064 WO Surendra Pratap Narain Singh, ELECT FIT, 06 Jan 03  
608198 WO Gouri Shyam Pattanaik, ELECT FIT, 02 Jun 02  
608231 WO Ram Bahadur Yadav, ELECT FIT, 02 Jun 02  
608387 WO Dinesh Chandra Tanwar, ELECT FIT, 02 Jun 02  
608529 WO Nirmal Kumar Kundu, ELECT FIT, 03 Feb 02  
608675 WO Sube Dar Ram, ELECT FIT, 02 Jun 02  
608689 WO Jarrup Singh, ELECT FIT, 06 Jan 01  
608717 WO Suresh Chandra Saraswat, ELECT FIT, 04 Jan 01  
608735 WO Umesh Chandra Kaushal, ELECT FIT, 02 Mar 01  
608780 WO Kapil Deo Mandal, ELECT FIT, 02 Oct 02  
608786 WO Kirtya Nand Keshari, ELECT FIT, 01 Aug 01  
608816 WO Bal Chand Ram Yadav, ELECT FIT, 02 Mar 01  
608873 WO Kameshwar Tatma, ELECT FIT, 01 Aug 01  
608933 WO Narain Singh, ELECT FIT, 02 Nov 01  
609039 WO K Sreedharan, ELECT FIT, 02 Mar 01  
609053 WO Kishori Prasad Singh, ELECT FIT, 01 Nov 02  
609055 WO Ashok Kumar, ELECT FIT, 02 May 01  
609066 WO Bhim Singh Sohi, ELECT FIT, 06 Jan 03  
609077 WO Antarijyami Panigrahy, ELECT FIT, 02 Nov 01  
609201 WO Chaudhary Satyanarayan Sudama, ELECT FIT, 02 Jun 02  
609229 WO M Sivagnanam Gounder, ELECT FIT, 02 Oct 02  
609339 WO Chhiber D R, ELECT FIT, 02 Mar 01  
609340 WO Aheibam Achou Singh, ELECT FIT, 02 Jul 02  
609396 WO Anil Vishvanath Watwe, ELECT FIT, 02 Jun 02  
609423 WO Uma Shanker Dixit, ELECT FIT, 02 Nov 01  
609426 WO Subedar Singh, ELECT FIT, 02 Nov 01  
609465 WO Balam Singh Negi, ELECT FIT, 03 Feb 02  
609514 WO Rajendra Kumar Upadhyay, ELECT FIT, 02 Nov 01  
609552 WO Babu Thomas, ELECT FIT, 01 Jan 02  
609554 WO Bijendra Singh, ELECT FIT, 02 Nov 01  
609555 WO Kehar Singh Yadav, ELECT FIT, 01 Jan 02  
609585 WO Adhir Kumar Chandra, ELECT FIT, 01 Jan 02  
609616 WO Birendra Prasad Singh, ELECT FIT, 03 Feb 02  
609673 WO Ashok Kumar Sharma, ELECT FIT, 02 Jul 02  
609712 WO Binay Singh, ELECT FIT, 02 Jul 02  
609713 WO Nitya Nand Singh, ELECT FIT, 03 Feb 02  
609731 WO Chander Singh Thakur, ELECT FIT, 02 Jul 02  
609762 WO Dalip Kumar Paliwal, ELECT FIT, 03 Feb 02  
609786 WO Binaya Kumar Baral, ELECT FIT, 02 Jul 02  
609814 WO Prem Chand Sharma, ELECT FIT, 03 Feb 02  
609824 WO Shiwjee Singh, ELECT FIT, 01 Nov 02

- 609836 WO Vijay Prakash, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 609842 WO Naresh Kumar Sinha, ELECT FIT, 02 Jul 02
- 609949 WO Amrik Singh, ELECT FIT, 03 Feb 02
- 609962 WO Kiranpal Singh, ELECT FIT, 01 Nov 02
- 609996 WO G Radhakrishnan Nair, ELECT FIT, 02 Jun 02
- 634542 WO Jeet Singh Pundir, ELECT FIT, 12 Jan 03
- 650020 WO Om Prakash Sinha, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 650021 WO Raja Baboo Ray, ELECT FIT, 02 Jun 02
- 650032 WO Jalaluddin Ansari, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650057 WO Manohar Lal Sharma, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650058 WO Virendra Singh, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650107 WO Laxman Singh Rawat, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650119 WO Bal Ram Singh, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 650135 WO Yougesh Kumar Pandey, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650136 WO Kashava Ram Mishra, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650150 WO Tushar Kanti Pal, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650152 WO Krishanpal Sharma, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650154 WO Jaipal Singh Verma, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650176 WO Rampat Urph Kalicharan Bhati, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650259 WO Revati Raman Rampal, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 650264 WO Amar Nath, ELECT FIT, 01 Nov 02
- 650265 WO Baijnath, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650318 WO Yellapragada P R P, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650374 WO Mohammad Asaraf Jamal, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 650388 WO Nimba Ram Parihar, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 650394 WO Radha Krishna Prasad, ELECT FIT, 01 Nov 02
- 650446 WO Mohammad Farahim, ELECT FIT, 02 Oct 02
- 650447 WO Raj Kumar Singh, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 650449 WO Sheo Kumar Rai, ELECT FIT, 01 Nov 02
- 650551 WO Om Prakash Choudhary, ELECT FIT, 08 Jan 03
- 650620 WO Satish Kumar Singh, ELECT FIT, 12 Jan 03
- 650647 WO Suthar Dhinagar Ram, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 650651 WO Madan Mohan Sharma, ELECT FIT, 12 Jan 03
- 650672 WO Mahander Singh, ELECT FIT, 08 Jan 03
- 650729 WO Jitendra Kumar Singh, ELECT FIT, 12 Jan 03
- 650781 WO Randhir Singh Saini, ELECT FIT, 12 Jan 03
- 650784 WO Surindar Mohan, ELECT FIT, 06 Jan 03
- 296657 WO Eapen K O, ENG FIT, 02 Feb 02
- 299450 WO Inagadapa Subba Rao, ENG FIT, 02 Nov 02
- 631607 WO Bharat Singh, ENG FIT, 02 Dec 02
- 641048 WO Bijaya Kumar Bhadaty, ENG FIT, 03 Apr 03
- 641516 WO Dayanand Mandal, ENG FIT, 02 Mar 03
- 641518 WO Harinandan Yadav, ENG FIT, 02 Jan 03
- 641526 WO Hirendra Kumar Das, ENG FIT, 03 Aug 02
- 641812 WO Gouri Charan Bose, ENG FIT, 02 Jun 02
- 641823 WO Dash Ashok Kumar, ENG FIT, 02 Apr 02
- 641990 WO Gorakh Singh, ENG FIT, 02 Feb 02
- 642010 WO Kishan Swaroop Bhatnagar, ENG FIT, 02 Sep 02
- 642134 WO Vijayakumar Kunjuraman Vijayan, ENG FIT, 02 Jan 03
- 642376 WO Madhu T K, ENG FIT, 02 Oct 02
- 642426 WO Sunil Chandra Banik, ENG FIT, 02 Feb 02
- 642476 WO Awadhesh Kumar Chowdhary, ENG FIT, 02 Feb 02
- 642481 WO Mohd Asghar Imam, ENG FIT, 03 Aug 01
- 642483 WO Bhola Prasad Singh, ENG FIT, 02 Jun 02
- 642498 WO Satya Prakash, ENG FIT, 02 Dec 02
- 642571 WO Jai Govind Prasad Azay, ENG FIT, 02 Apr 02
- 642615 WO Rajan Lal Verma, ENG FIT, 03 Jul 02
- 642643 WO Surinder Singh Gill, ENG FIT, 03 Jul 02
- 642678 WO Biswa Nath Sahu, ENG FIT, 02 Apr 02
- 642895 WO Ravi Kant, ENG FIT, 02 Apr 02
- 642898 WO Vijay Singh Rajpal, ENG FIT, 02 Jan 03
- 643109 WO Jagrup Chand, ENG FIT, 02 Sep 02
- 643111 WO Sarbjit Singh, ENG FIT, 02 Jul 01
- 643123 WO Ram Bhagwan Singh, ENG FIT, 02 Apr 02
- 643155 WO Hammir Singh Sisodia, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643159 WO Ramesh Mishra, ENG FIT, 02 Jun 02
- 643425 WO Ratikanta Mondal, ENG FIT, 03 Aug 01

- 643427 WO Sujit Kumar Das, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643428 WO Bikas Chakrabarti, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643430 WO Prasad Hari Shankar, ENG FIT, 02 Jun 02
- 643435 WO Bijai Bahadur Rai, ENG FIT, 02 Sep 02
- 643436 WO Ratilanta Bhuyan, ENG FIT, 02 Jun 02
- 643437 WO Krushna Chandra Sahoo, ENG FIT, 02 Oct 02
- 643467 WO Raj Narayan Tiwari, ENG FIT, 02 Apr 02
- 643468 WO Arun Kumar Ojha, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643483 WO Katavathpurayil Ravindran, ENG FIT, 02 Sep 02
- 643504 WO Parshu Ram Nagar, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643529 WO Lal Mani Manik, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643533 WO Mithilesh Prasad Singh, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643549 WO Rameshwar Prasad Singh, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643553 WO Ashok Kumar Gupta, ENG FIT, 02 Oct 02
- 643554 WO Umesh Chandra Upadhyay, ENG FIT, 02 Apr 02
- 643556 WO Nagendra Kumar Khare, ENG FIT, 02 Nov 02
- 643567 WO Hrushikesh Jena, ENG FIT, 02 Jun 02
- 643852 WO Prem Chand Sharma, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643892 WO Vijaya Kumar, ENG FIT, 02 Oct 02
- 643910 WO Hira Lal Singh, ENG FIT, 03 Jul 02
- 643913 WO Ran Bijaya Singh, ENG FIT, 03 Jul 02
- 643916 WO Kanhaiya Pathak, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643918 WO Mohammad Kamaluddin Ansari, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643919 WO Mohammad Allauddin Ansari, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643923 WO Vidya Sagar Singh, ENG FIT, 03 Aug 01
- 643932 WO Vasam Chandra Karan, ENG FIT, 02 Jun 02
- 643949 WO Thomas Thomas, ENG FIT, 03 Dec 01
- 643986 WO Subhash Chandra, ENG FIT, 02 Oct 01
- 643995 WO Anil Kumar Shukla, ENG FIT, 02 Sep 02
- 644001 WO Lal Ji Ram, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644004 WO Madan Mohan Tiwari, ENG FIT, 02 Oct 01
- 644005 WO Girish Kumar, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644071 WO Chhadami Lal Shakya, ENG FIT, 02 Oct 01
- 644280 WO Parvesh Kumar Saini, ENG FIT, 02 Jun 02
- 644282 WO Nazar Singh, ENG FIT, 02 Sep 02
- 644316 WO Sukhvir Singh Jakher, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644319 WO Ran Singh Rawat, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644323 WO Prem Singh Dalal, ENG FIT, 02 Sep 02
- 644347 WO Ganga Sagar Sharma, ENG FIT, 02 Oct 01
- 644379 WO Vijay Kumar Sharma, ENG FIT, 03 Jul 02
- 644385 WO Baikunth Vyas, ENG FIT, 03 Aug 01
- 644394 WO Indra Deo Singh, ENG FIT, 03 Apr 03
- 644400 WO Nagendra Charan Bajpei, ENG FIT, 02 Jun 03
- 644415 WO Achhelal Pal, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644416 WO Karn Deo Singh, ENG FIT, 03 Aug 02
- 644499 WO Gyan Chand Sharma, ENG FIT, 02 Mar 03
- 644502 WO Omprakash Upadhyay, ENG FIT, 03 Jul 02
- 644722 WO Suresh Prasad, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644725 WO Shiwji Thakur, ENG FIT, 02 Nov 02
- 644730 WO Sharad Mohan Khare, ENG FIT, 02 Oct 02
- 644731 WO Mahesha Nand Singh, ENG FIT, 03 Aug 02
- 644732 WO Ramesh Prasad Shaw, ENG FIT, 03 Apr 03
- 644733 WO Ashok Kumar Singh, ENG FIT, 02 Nov 02
- 644738 WO Amal Krishna Debnath, ENG FIT, 02 Oct 02
- 644756 WO Katoch Gautam Chand, ENG FIT, 02 Mar 03
- 644771 WO Narendra Kumar Padhi, ENG FIT, 02 Jan 03
- 644773 WO Khageswar Swain, ENG FIT, 02 Dec 02
- 644783 WO Girish Chandra Verma, ENG FIT, 03 Aug 02
- 644784 WO Vijaypal Singh, ENG FIT, 02 Nov 02
- 644792 WO Yogendra Prasad, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644796 WO Raghu Bansh Singh, ENG FIT, 02 Oct 01
- 644809 WO Brij Bhushan Singh, ENG FIT, 03 Dec 01
- 644814 WO Balak Ram, ENG FIT, 02 Feb 02
- 644817 WO Raghuvir Singh, ENG FIT, 02 Feb 02
- 644820 WO Rajkumar Dixit, ENG FIT, 02 Feb 02
- 644822 WO Vishwambhar Prasad, ENG FIT, 03 Jul 02
- 644827 WO Dinanath Choudhary, ENG FIT, 03 Jul 02
- 644832 WO Rakhal Majumdar, ENG FIT, 03 Feb 03
- 644839 WO Sanwat Singh Yadav, ENG FIT, 03 Aug 02
- 644840 WO Satya Prakash Sharma, ENG FIT, 03 Apr 03
- 644851 WO Rajender Singh Malik, ENG FIT, 03 Jul 02
- 644853 WO Rishi Pal Singh, ENG FIT, 03 Dec 01

- 644859 WO Sarwan Ram, ENG FIT, 02 Feb 02
- 657097 WO Birendra Kumar Singh, ENG FIT, 02 Nov 02
- 657098 WO Mahendra Singh, ENG FIT, 03 Aug 02
- 857145 WO Ashok Kumar Singh, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657389 WO Gopal Pandey, ENG FIT, 02 Jan 03
- 657422 WO Lal Pratap Singh, ENG FIT, 02 Feb 02
- 657427 WO Satya Prakash Sharma, ENG FIT, 03 Dec 01
- 657653 WO Ramjee Upadhyay, ENG FIT, 02 Dec 02
- 657689 WO Mahesh Chandra Sharma, ENG FIT, 3 Jul 02
- 657692 WO Ashwani Kumar Sharma, ENG FIT, 03 Jul 02
- 657693 WO Ram Kumar Tripathi, ENG FIT, 02 Jan 03
- 657696 WO Sehrab Ali, ENG FIT, 02 Jan 03
- 657698 WO Premnath, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657701 WO Ram Kumar Pandey, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657927 WO Anand Kumar Rai, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657941 WO Brij Bhushan Singh, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657953 WO Rameshwar Dayal Sharma, ENG FIT, 12 Jan 03
- 657957 WO Mohan Singh Rathore, ENG FIT, 03 Jul 02
- 657965 WO Ramesh Singh Chauhan, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657968 WO Raghubir Prasad Pal, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657972 WO Mathura Prasad Yadav, ENG FIT, 03 Aug 02
- 657974 WO Awdhesh Kumar Singh, ENG FIT, 03 Aug 02
- 658201 WO Surya Nath Yadav, ENG FIT, 03 Feb 02
- 658203 WO Sudip Kumar Biswas, ENG FIT, 02 Sep 02
- 658219 WO Gurmeh Singh, ENG FIT, 03 Aug 02
- 658222 WO Bhanwar Lal Nayak, ENG FIT, 03 Aug 02
- 658223 WO Sajjan Lal Mathur, ENG FIT, 02 Sep 02
- 658231 WO Somanathan T K, ENG FIT, 03 Aug 02
- 658239 WO Lal Chandra Mishra, ENG FIT, 02 Sep 02
- 658463 WO Nirottam Kumar Singh, ENG FIT, 02 Mar 03
- 658479 WO Jadunath Singh, ENG FIT, 02 Sep 02
- 658500 WO Phoola Ram, ENG FIT, 03 Feb 03
- 658725 WO Kaloo Ram, ENG FIT, 03 Feb 03
- 658744 WO Pitamber Kumar Sharma, ENG FIT, 02 Mar 03
- 658756 WO Chandra Prakash Gaur, ENG FIT, 02 Mar 03
- 658946 WO Krishan Lal, ENG FIT, 02 Mar 03
- 658963 WO Ram Kishore Singh, ENG FIT, 03 Feb 03
- 658964 WO Ravi Shanker Prasad Singh, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659046 WO Bhishm Deo Kumar, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659076 WO Surendra Kumar Verma, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659086 WO Sridam Chandra Das, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659107 WO Bipin Bihari Das, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659238 WO Mantosh Sen, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659413 WO Jai Singh Chahal, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659426 WO Rameshwar Prasad, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659553 WO Binder Singh, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659671 WO Birsain Duhoon, ENG FIT, 03 Feb 03
- 659677 WO Raghubir Singh Negi, ENG FIT, 03 Feb 03
- 291692 WO Rangji, EQPT ASST, 02 Sep 02
- 295148 WO Raj Narain Ram, EQPT ASST, 02 Apr 02
- 295793 WO V Lingaiah, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 295967 WO Nandu Singh, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 296368 WO Shive Prasad, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 296443 WO Durga Ram Bharti, EQPT ASST, 02 Oct 01
- 296613 WO Durgamadhaba Pattanaik, EQPT ASST, 02 Sep 02
- 296967 WO Gajendra Singh Chauhan, EQPT ASST, 02 Dec 01
- 296996 WO Basu Deo Singh, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 297148 WO Surinder Singh, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 297212 WO Bhagirath Sinha, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 297335 WO Subhash Chander Mehra, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 297348 WO Prabin Kumar Pyne, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 297784 WO Amar Nath, EQPT ASST, 02 May 03
- 297904 WO Chandra Pal Mishra, EQPT ASST, 02 Apr 02
- 297906 WO Gulshan Lal, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 298011 WO Dilip Kumar Roy, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 298116 WO Paramu PM, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 298153 WO Jagdev Prasad Kushwaha, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298155 WO Surendra Kumar, EQPT ASST, 02 Jun 02
- 298220 WO Jagdish Prasad, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298380 WO Kanwar Bhan, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298386 WO Chitra Nand Sharma, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298389 WO Lal Bihari Singh, EQPT ASST, 02 Jul 02

- 298403 WO Ved Prakash, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 298486 WO Aminbhavi Chandrkant Laxman, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298490 WO Surinder Kumar Bassi, EQPT ASST, 02 Jun 02
- 298576 WO Satyavir Singh Phogat, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298581 WO Deba Prasad Daityari, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298589 WO Harendra Kumar Dey, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298597 WO Jagdish Prasad, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 298599 WO Shyam Singh, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298601 WO Hind Pal, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298618 WO Ram Pal Sharma, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298633 WO Bhim Singh Dhalaria, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298753 WO Rajendrapratap, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298787 WO Rengaswamy Vellasamy, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298810 WO Suresh Chandra Pal, EQPT ASST, 02 Jul 02
- 298848 WO Charan Jit Kumar, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298853 WO Deka Jogendra Nath, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298892 WO Shiv Ram Pandiar, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298947 WO Hawa Singh, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298955 WO Pawan Kumar Thakur, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 298971 WO Sujan Chand Chauhan, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 299014 WO Jai Bhagwan Verma, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 299015 WO Singhasan Singh, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 299038 WO Ram M, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 299041 WO Vijay Narayan Pandey, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 299074 WO Ravindran Kollon, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 299082 WO Amrik Singh Battu, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 299136 WO Harbans Singh, EQPT ASST, 02 Sep 02
- 299137 WO Balan Kokkatan, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 299166 WO Sheo Shankar Lal, EQPT ASST, 02 Sep 02
- 299171 WO Chandra Kishore Awasthi, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299198 WO Tapan Kumar Bose, EQPT ASST, 02 Sep 02
- 299220 WO Mahendra Prasad Mahato, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299222 WO Prem Singh Deswal, EQPT ASST, 02 Sep 02
- 299229 WO Krishnan Asokan, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299249 WO Balwant Singh Rawat, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 299299 WO Kharaiti Lal Bhalla, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299309 WO Surya Deo Shukla, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 299402 WO Harish Chander Kachhawaha, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299403 WO Durga Das Tunwer, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299404 WO Laxman Singh Chauhan, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299432 WO Medidi Hymeswar Rao, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299446 WO Avulamonda Venkataiah, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299451 WO Kailash Chander Sharma, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299523 WO Tika Ram, EQPT ASST, 02 Oct 02
- 299529 WO Arun Kumar Santra, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 299530 WO Pankaj Kumar Kapuria, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299537 WO Maman Singh Bhardwaj, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299563 WO Iqbal Ahmed, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 299568 WO Malay Goswami, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 299571 WO Ram Khilawan, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 299638 WO Dhaneswar Malla, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299658 WO Satya Narayan Rai, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 299663 WO Kamta Prasad Singh, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 299697 WO Shaik Abdul Rahiman, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299721 WO Keshar Khan Silawat, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299723 WO Laik Ahmad, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 299736 WO Kahtuluri Anwar Khan, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 299750 WO S Harjeet Singh, EQPT ASST, 02 Jan 03
- 299756 WO Galha Singh, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 299843 WO Ram Govind Singh, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299847 WO Bishweshwar Sharma, EQPT ASST, 02 Dec 02

- 299848 WO Shivaji Shukla, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 299901 WO Ram Mohan CP, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299912 WO Butta Venkatesu, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 299918 WO Bijoy Kumar Mazumder, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 299931 WO Jagdamba Prasad Yadav, EQPT ASST, 02 May 03
- 299950 WO Romesh Chander Sharma, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 299968 WO Prabhu Nath Prasad Sah, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 299975 WO Prem Chandra, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 299988 WO Chhunnu, EQPT ASST, 02 Dec 02
- 602420 WO Guli Charan Singh, EQPT ASST, 02 Aug 02
- 607346 WO Sudama Prasad, EQPT ASST, 02 Nov 02
- 610033 WO Balibhader Singh Jamwal, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 610048 WO Kartar Singh Thakur, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 610061 WO Jai Narain Singh, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610066 WO Beeram Singh, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 610083 WO J Samuel Kutty, EQPT ASST, 02 Feb 03
- 610087 WO M Subramanian, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610128 WO Surendra Mallick, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610147 WO Pritam Dass Kumar, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610162 WO Kambili Prabhakaran, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610212 WO Dhiraj Singh, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610219 WO Anand Singh Rana, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610230 WO Shyam Lal Srivastava, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610233 WO Kamal Prasad Singh, EQPT ASST, 02 May 03
- 610267 WO Gopal Chandra Chakraborty, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610276 WO Charles Saldanha, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610293 WO Kamla Pati Singh, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610295 WO Upendra Kumar Bhakta, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610305 WO Nar Singh, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610325 WO Ganesh Singh, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610336 WO Subhash Chandra Sen, EQPT ASST, 02 May 03
- 610341 WO Sukh Ram Singh, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610342 WO Yadav Parashu Ram, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610343 WO Avtar Singh, EQPT ASST, 02 May 03
- 610351 WO Rameshwar Singh, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610357 WO Chandra Badan Singh, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610388 WO Ravindran Nair, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610392 WO Tilak Raj, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610450 WO Subodha Chandra Das, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610452 WO Vijayan Veeran, EQPT ASST, 02 Mar 03
- 610465 WO Kapoora Ram Deora, EQPT ASST, 02 May 03
- 610486 WO Kishore Chand Lavana, EQPT ASST, 02 May 03
- 610491 WO Paramjit Singh, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610505 WO Krishna Mohan Singha, EQPT ASST, 02 Apr 03
- 610530 WO G Ashok Rao, EQPT ASST, 02 May 03
- 610547 WO Murli Manohar Saigal, EQPT ASST, 02 May 03
- 610550 WO Gurcharan Singh, EQPT ASST, 02 May 03
- 610554 WO Som Ram Chhibber, EQPT ASST, 02 May 03
- 610589 WO Subedar Choudhary, EQPT ASST, 02 May 03
- 648247 WO Bishan Singh Shekhawat, EQPT ASST, 02 Aug 01
- 669018 WO Rajeev Valiya Veetil, FLT ENG, 02 Jun 02
- 669242 WO Khillari Kashinath Bhika, FLT ENG, 02 Jun 02
- 675132 WO Ramphal, FLT ENG, 02 Jun 02
- 675475 WO Randhir Singh Sidhu, FLT ENG, 23 Aug 02
- 676134 WO Sailesh Kumar Singh, FLT ENG, 04 Jun 02
- 677019 WO Ramesh Chandra Joshi, FLT ENG, 02 Jun 02
- 678078 WO Harbans Lal Kalshi, FLT ENG, 06 Jun 02
- 658570 WO Daya Nand Jha, FLT GUN, 03 Feb 02
- 659308 WO Ram Chandar Sharma, FLT GUN, 02 May 02
- 661178 WO Ramesh Chand, FLT GUN, 03 Oct 02
- 661335 WO Ramchandra Mishra, FLT GUN, 03 Oct 02
- 294288 WO Suresh Chandra Bor Borua, GTI, 19 Jun 03
- 296220 WO Shiwa Narayan Tiwari, GTI, 15 Jun 03

- 296222 WO Rajaram Sharma, GTI, 13 Jun 03
- 296224 WO Tata Sivarama Bhukta, GTI, 01 Jun 03
- 296225 WO Ramesh Chandra Santra, GTI, 05 Jun 03
- 296229 WO Subroto Kumar Chatterji, GTI, 01 Sep 03
- 296233 WO Gurmit Singh, GTI, 03 Jun 03
- 296234 WO Padakulangra Ouseph Devassy, GTI, 01 Jun 03
- 610187 WO Ranjore Singh, GTI, 01 Sep 03
- 610222 WO Madhukar Murlidhar Bharambe, GTI, 09 Jun 03
- 610383 WO Kedar Nath, GTI, 01 Sep 03
- 610759 WO Subhas Chandra Basak, GTI, 17 Jun 03
- 610945 WO Ashok Bhimaji Lokare, GTI, 09 Jun 03
- 611141 WO Ram Sharan, GTI, 01 Jan 04
- 611588 WO Mana Ram Bishnoi, GTI, 01 Jan 04
- 611817 WO Bava Joseph, GTI, 01 Feb 04
- 612169 WO Madala Rama Rao, GTI, 04 Aug 03
- 612254 WO Jugal Kishor Singh, GTI, 01 Feb 04
- 612491 WO Sobhanan Sivadasan, GTI, 01 Sep 03
- 727050 WO Patil Mohan Ram Chandra, GTI(S), 01 Jan 04
- 285367 WO Hari Narayan Ojha, IAF (P), 01 May 03
- 286033 WO Abadhuta Rout, IAF (P), 02 Jun 01
- 286048 WO Chhedi Singh Rathor, IAF (P), 02 Jun 02
- 286174 WO Ved Prakash, IAF (P), 02 Nov 01
- 286334 WO K Anantha Kumar K, IAF (P), 02 Jan 02
- 286473 WO Ranajit Kumar Dutta, IAF (P), 03 Feb 02
- 286610 WO Mankeshwar Singh, IAF (P), 04 Jul 02
- 286727 WO Nitya Nand Roy, IAF (P), 04 Jul 02
- 286737 WO Prem Singh Yadav, IAF (P), 04 Jul 02
- 286829 WO Jai Pal Dalal, IAF (P), 04 Jul 02
- 286831 WO Kartar Singh, IAF (P), 04 Jul 02
- 286836 WO Darbari Lal Bali, IAF (P), 02 Oct 02
- 286839 WO Varghes Varghese Arackal, IAF (P), 04 Jul 02
- 286840 WO Paulose Thomas, IAF (P), 02 Oct 02
- 286847 WO M Purushothaman, IAF (P), 04 Jul 02
- 286856 WO Sharma L C, IAF (P), 02 Oct 02
- 286858 WO Ganesh Shanker Misra, IAF (P), 05 Nov 02
- 286860 WO Ram Kumar Singh, IAF (P), 02 Oct 02
- 286962 WO Keezhettu Jllom Vasudevan Elay, IAF (P), 05 Nov 02
- 286963 WO P C Philip, IAF (P), 01 Nov 02
- 286972 WO Nagendra Nath Ojha, IAF (P), 01 May 03
- 286975 WO Roop Chand, IAF (P), 03 Nov 02
- 287062 WO Bijay Bahadur Singh, IAF (P), 01 May 03
- 287082 WO Edathil Antony Francis, IAF (P), 02 Jan 03
- 287083 WO Sher Singh Tomar, IAF (P), 02 Jan 03
- 287084 WO Jagdish Chand Kaihintyal, IAF (P), 05 Nov 02
- 287097 WO Nand Kishore, IAF (P), 02 Jan 03
- 287199 WO Gyanender Singh Bansal, IAF (P), 03 May 03
- 287202 WO Suresh Chandra Hota, IAF (P), 02 Jan 03
- 287207 WO Hans Raj Mheen, IAF (P), 02 Jan 03
- 287388 WO Kothakonda Venkatesham, IAF (P), 03 May 03
- 607187 WO Surendra Kumar Dwivedi, INST FIT, 03 Jun 02
- 607188 WO Kunwar Singh, INST FIT, 03 Nov 02
- 608166 WO Hem Chander, INST FIT, 03 Jun 02
- 608234 WO Yugul Kishor Tiwari, INST FIT, 03 Jul 02
- 608610 WO Gyan Chand Srivastava, INST FIT, 03 Nov 02
- 608790 WO Sheo Yatan Singh, INST FIT, 03 Aug 02
- 608991 WO Ramendra Singh Sachan, INST FIT, 03 Aug 01
- 609046 WO Kamal Nayan Singh, INST FIT, 03 Oct 02
- 609048 WO Nirmal Kumar Singh, INST FIT, 03 Aug 01
- 609050 WO Jai Nath Singh, INST FIT, 01 Nov 02
- 609251 WO Shivajee Singh, INST FIT, 03 Nov 02
- 609257 WO Bachcha Prasad, INST FIT, 03 Feb 02
- 609317 WO Pramod Kumar Sharma, INST FIT, 03 Jun 02
- 609332 WO Vijaya Sankara Mohana Devadas, INST FIT, 03 Oct 02
- 609347 WO Ashok Kumar, INST FIT, 03 Jun 02
- 609360 WO Sukant Kumar Rath, INST FIT, 03 Jun 02
- 609598 WO Devendra Kumar Verma, INST FIT, 03 Nov 02
- 609670 WO Mohammad Aslam Khan, INST FIT, 03 Oct 02
- 609675 WO Girish Mohan Kundlia, INST FIT, 03 Oct 02



609678 WO Hinchh Lal Kushawaha L. INST FIT, 03 Aug 02	242646 WO Tapan Kumar Basu, MED ASST, 02 Jul 02
609728 WO Jaibir Singh Paweriya, INST FIT, 03 Jul 02	242658 WO Shyam Bahadur Verma, MED ASST, 02 Jul 02
609742 WO Bhuneshwar Prasad Shaw, INST FIT, 03 Aug 02	242661 WO Sarnam Singh, MED ASST, 02 Jul 02
609763 WO Prakash Chandra Choudhury, INST FIT, 03 Jul 02	242663 WO Radhey Shyam Prasad Gupta, MED ASST, 02 Jul 02
609843 WO Jagannath Singh, INST FIT, 03 Oct 02	242668 WO Ved Bias Sharma, MED ASST, 02 Jul 02
609848 WO Brahma Nand Sharma, INST FIT, 03 Jun 02	242677 WO RK Nayak, MED ASST, 02 Jul 02
609890 WO Batchala Latchaiah, INST FIT, 03 Nov 02	242683 WO Purna Gopal Chaudhuri, MED ASST, 02 Aug 02
609921 WO Jagdish Singh Rajput, INST FIT, 03 Oct 02	242690 WO Sadanandan P, MED ASST, 02 Jul 02
609924 WO Vishambhar Singh Baswan, INST FIT, 03 Aug 02	242705 WO Prasad Baijnath, MED ASST, 02 Aug 02
609936 WO Kameshwer Prasad, INST FIT, 01 Nov 02	242706 WO Kunwar Lallan Singh, MED ASST, 02 Aug 02
609944 WO Inder Singh Malik, INST FIT, 03 Aug 02	242721 WO Vishnu Lal Taunk, MED ASST, 02 Aug 02
609959 WO Davandra Singh Taotia, INST FIT, 03 Aug 02	242723 WO Kailash Chandra Sharma, MED ASST, 02 Aug 02
650010 WO Mrityunjaya Kumar Singh, INST FIT, 03 Nov 02	242726 WO Narendra Tiwari, MED ASST, 02 Aug 02
650014 WO Vijay Kumar Singh, INST FIT, 03 Dec 02	242727 WO Shree Bhagwan Singh, MED ASST, 02 Aug 02
650089 WO Anantha Charan Sahoo, INST FIT, 03 Dec 02	242732 WO Shrinivas Tripathi, MED ASST, 02 Aug 02
650092 WO Satya Narayan Gupta, INST FIT, 21 Jan 03	242753 WO Nikhil Kumar Mondal, MED ASST, 02 Aug 02
650093 WO Rama Shanker, INST FIT, 03 Dec 02	242757 WO Yadunandan Prasad, MED ASST, 02 Aug 02
650101 WO Krishna Pillai Mohanan Pillai, INST FIT, 02 Feb 03	242758 WO Shiw Saran P D Singh, MED ASST, 02 Aug 02
650113 WO Murari Prasad Gupta, INST FIT, 21 Jan 03	242769 WO Chainak Chandra Deka, MED ASST, 02 Sep 02
650115 WO Janardan Yadav, INST FIT, 03 Dec 02	242770 WO Ashok Irasangappa Jevoor, MED ASST, 02 Sep 02
242343 WO Avtar Singh, MED ASST, 02 Aug 01	242772 WO Mangulu Dalai, MED ASST, 02 Oct 02
242370 WO Wadekar Wasudeo Namdeo, MED ASST, 02 Aug 01	242773 WO Govindachandra Purohita, MED ASST, 02 Sep 02
242423 WO Parshotam Singh Bandral, MED ASST, 02 Oct 01	242774 WO Purna Chandra Jain, MED ASST, 02 Sep 02
242431 WO Zainulabeddin Khan, MED ASST, 02 Dec 01	242788 WO A Baby Philip, MED ASST, 02 Nov 02
242452 WO Shabbir Khan, MED ASST, 02 Oct 01	242794 WO Raja Ram Singh, MED ASST, 02 Oct 02
242477 WO Janak Kumar, MED ASST, 02 Dec 01	242800 WO Dharam Pal Singh Sharma, MED ASST, 02 Oct 02
242596 WO Nand Kishor, MED ASST, 02 Jun 02	242818 WO Ram Uggar Misra, MED ASST, 02 Oct 02
242629 WO Ram Chandra Gupta, MED ASST, 02 Jul 02	242823 WO Hari Kumar Prasad Kesari, MED ASST, 02 Nov 02
242634 WO Roshan Lal Pokhariyal, MED ASST, 02 Jul 02	242831 WO Diwakar Datt Sharma, MED ASST, 02 Oct 02
242635 WO Surender Singh Manral, MED ASST, 02 Jul 02	242838 WO Arabinda Kumar Paul, MED ASST, 02 Jan 03
242637 WO Bijendar Jha, MED ASST, 02 Aug 02	



- 242840 WO Mahendra Kumar Rai, MED ASST, 02 Dec 02
- 242841 WO Ajit Singh Punjabi, MED ASST, 02 Dec 02
- 242842 WO Avtar Singh, MED ASST, 02 Jan 03
- 242843 WO Thankachan Oommen, MED ASST, 02 Dec 02
- 242857 WO Sukhbir Singh, MED ASST, 02 Feb 03
- 242858 WO Khem Chand Dhiman, MED ASST, 02 Feb 03
- 242862 WO Thripurari Atchuta Ramayya, MED ASST, 02 Feb 03
- 242869 WO Kamal Jit Singh, MED ASST, 02 Mar 03
- 242872 WO Tiwari Surya Kumar, MED ASST, 02 Apr 03
- 242877 WO Raj Deo Bhagat, MED ASST, 02 Apr 03
- 242878 WO Surjya Narayan Panda, MED ASST, 02 Apr 03
- 242881 WO Mangal Singh Yadav, MED ASST, 02 Mar 03
- 242884 WO Balbir Singh, MED ASST, 02 Mar 03
- 242893 WO Harish Kumar Srivastava, MED ASST, 02 Feb 03
- 242895 WO Pramod Kumar Singh, MED ASST, 02 Apr 03
- 242896 WO Kapoor Singh, MED ASST, 02 Mar 03
- 242897 WO Rajendra Singh, MED ASST, 02 May 03
- 242908 WO Balak Ram, MED ASST, 02 May 03
- 242914 WO Kalyan Singh Rathore, MED ASST, 02 May 03
- 242917 WO Bechan Lal Gupta, MED ASST, 02 May 03
- 242922 WO Raghaw Prasad Singh, MED ASST, 02 May 03
- 242924 WO Ramjit Singh, MED ASST, 02 May 03
- 242926 WO Chit Ranjan Sharma, MED ASST, 02 May 03
- 242935 WO Mahaboob Subbhani, MED ASST, 02 May 03
- 242935 WO Nand Lal, MED ASST, 02 May 03
- 603967 WO Gopala Pillay KP, MED ASST, 02 Jul 02
- 609356 WO Om Prakash Choubey, MED ASST, 02 May 03
- 612603 WO Kapishwar Singh, MED ASST, 02 Aug 02
- 617984 WO Lalan Prasad, MED ASST, 02 Apr 03
- 632081 WO Suresh Pandey, MED ASST, 02 Mar 03
- 603798 WO Mukti Narayan Mishra, MET ASST, 03 Dec 02
- 604360 WO Arun Bikash Dhar, MET ASST, 01 May 02
- 604788 WO Gorakh Nath, MET ASST, 03 Aug 02
- 631828 WO Chhote Lal Yadav, MET ASST, 03 Aug 02
- 632338 WO S Ponnann, MET ASST, 03 Jan 03
- 632374 WO Naresh Chand, MET ASST, 03 Jun 03
- 632398 WO Parmeshwar Dayal, MET ASST, 03 Dec 02
- 632405 WO Ram Lal Enania, MET ASST, 03 Jun 03
- 632739 WO Satya Narain Singh, MET ASST, 03 Dec 02
- 632747 WO Mohammad Jamalur Raza, MET ASST, 05 Dec 02
- 632937 WO Brajesh Dubey, MET ASST, 03 Jan 03
- 633209 WO Naib Singh, MET ASST, 01 Aug 03
- 633240 WO Shri Govind Pal, MET ASST, 03 Aug 03
- 633426 WO Jai Kishan, MET ASST, 01 Aug 03
- 286415 WO Krishna Chandra Mishra, MT FIT, 02 Jun 02
- 286994 WO S Subramanian, MT FIT, 02 Apr 02
- 287241 WO N Natarajan, MT FIT, 02 Apr 02
- 287308 WO Lal Babu Singh, MT FIT, 02 Sep 02
- 287450 WO Ramashray Singh, MT FIT, 02 Aug 02
- 287454 WO Bhupinder Jit Singh Chadha, MT FIT, 02 Jun 02
- 287459 WO Om Pal Nagwan, MT FIT, 02 Jul 02
- 287494 WO Narayanappa Udayashankar, MT FIT, 02 Apr 02
- 287608 WO K Subramaniam, MT FIT, 02 Apr 01
- 287617 WO Shaik Vali, MT FIT, 02 Jun 02
- 287670 WO Panchu Singh, MT FIT, 02 Jun 02
- 287685 WO Mahadev Das, MT FIT, 02 Feb 02
- 615090 WO Raveendran Umasadan Variem, MT FIT, 02 Jul 02
- 615508 WO S Marudhavanan, MT FIT, 02 Aug 01
- 615700 WO Mohinder Singh Bal, MT FIT, 02 Jun 02
- 615708 WO Kana Ram Rajput, MT FIT, 02 Feb 02
- 616337 WO Janardhanan Meleatm, MT FIT, 02 Feb 02
- 659068 WO Parsu Ram Singh, MT FIT, 02 Apr 02
- 659082 WO Gouranga Chandra Sil, MT FIT, 02 Apr 02
- 659089 WO Bhaba Dev Ojha, MT FIT, 02 Feb 02
- 659171 WO Jai Narayan Gupta, MT FIT, 02 Apr 02
- 659324 WO Baldev Singh, MT FIT, 02 Sep 02
- 659360 WO Ramphal Singh Dhankher, MT FIT, 02 Apr 02

- 659304 WO Harishchandra Sh. oran, MT FIT, 02 Oct 02  
 659412 WO Joginder Singh, MT FIT, 02 Apr 02  
 659446 WO Jag Vir Singh Chauhan, MT FIT, 02 Sep 02  
 659455 WO Satish Chandra Katiyar, MT FIT, 02 Jun 02  
 659493 WO Sudhir Prasad Yadava, MT FIT, 02 Oct 02  
 659692 WO Choudhary Bibal Singh, MT FIT, 02 Oct 02  
 285455 WO Tej Narayan Singh, MTD, 05 Feb 02  
 286268 WO Gopalakrishna Pillai G, MTD, 05 Feb 02  
 286369 WO Ramjee Singh, MTD, 05 Feb 02  
 287435 WO M Venkatachalam, MTD, 05 Feb 02  
 287455 WO Chet Ram Sharma, MTD, 05 Feb 02  
 287460 WO Prabh Dyal Singh Dev, MTD, 05 Feb 02  
 287577 WO Kunwar Ram, MTD, 01 Feb 02  
 287866 WO Roop Singh Rajpurohit, MTD, 05 Feb 02  
 287924 WO Ganga Sagar Choudhary, MTD, 06 Sep 02  
 287927 WO Ram Naresh Shukla, MTD, 05 Feb 02  
 287978 WO Kushal Kumar Sharma, MTD, 03 Jun 02  
 612369 WO Sanjanand Singh, MTD, 03 Jun 02  
 615023 WO Bipin Bihari Mallick, MTD, 03 Apr 02  
 615047 WO H B Raju, MTD, 03 Apr 02  
 615050 WO Jai Narain Singh Joon, MTD, 02 Sep 02  
 615067 WO M D Sadek Ali, MTD, 05 Feb 02  
 615113 WO Ajmer Singh, MTD, 03 Apr 02  
 615209 WO Ananta Ram Sahu, MTD, 03 Jun 02  
 615270 WO Raj Kishor Singh, MTD, 02 Sep 02  
 615283 WO Nathoo Ram Sharma, MTD, 03 Apr 02  
 615534 WO Sankar Nath Mukhopadhyay, MTD, 03 Apr 02  
 615686 WO Phool Chand, MTD, 03 Jun 02  
 615692 WO Rajender Prasad Yadav, MTD, 02 Jun 02  
 615714 WO Ram Jyotish, MTD, 02 Sep 02  
 615743 WO Bhagya Narayan Singh, MTD, 03 Jun 02  
 616110 WO Bhawani Prasad Jaiswal, MTD, 06 Sep 02  
 616146 WO Malkiat Singh Pubial, MTD, 03 Jun 02  
 616176 WO Braj Kishore Sinha, MTD, 03 Jun 02  
 616339 WO Raju Thachayil Kizhakkathil, MTD, 03 Jun 02  
 616383 WO Ramkishor Tripathi, MTD, 03 Jun 02  
 616391 WO Rajendra Prasad, MTD, 03 Jun 02  
 616405 WO Kartick Chandra Das, MTD, 07 Sep 02  
 616416 WO Vijay Kumar Singh, MTD, 06 Sep 02  
 616564 WO Shaik Shajahan, MTD, 02 Sep 02  
 616565 WO S Muni Ratnam Achar, MTD, 02 Sep 02  
 616569 WO Raj Govind Ojha, MTD, 03 Jun 02  
 616574 WO Abdulkhaliq Qurashi, MTD, 03 Jun 02  
 616576 WO Chandra Prakash, MTD, 03 Jun 02  
 616586 WO Nellikkandi Sahadevan, MTD, 06 Sep 02  
 616596 WO Nirmal Singh Sahota, MTD, 03 Jun 02  
 616600 WO Ajit Baruah, MTD, 02 Sep 02  
 616602 WO Raghu Raj Prasad Yadav, MTD, 02 Sep 02  
 616606 WO Hara Dhan Dey, MTD, 02 Sep 02  
 616608 WO Hare Krishna Das, MTD, 04 Sep 02  
 616619 WO Mohan Sah, MTD, 04 Sep 02  
 616620 WO Brajendra Bir Verma, MTD, 06 Sep 02  
 616621 WO Kailash Bihari Sinha, MTD, 02 Sep 02  
 616625 WO S Naganathan, MTD, 02 Jan 03  
 616628 WO P Edwin Sugumar, MTD, 02 Jan 03  
 616631 WO Pritam Singh, MTD, 02 Sep 02  
 616636 WO Rajvinder Singh Jagdev, MTD, 02 Jan 03  
 616637 WO Vijay Kumar Dogra, MTD, 06 Sep 02  
 616638 WO Sanatan Mohanty, MTD, 02 Jan 03  
 616642 WO Sajjan Singh Rathore, MTD, 02 Jan 03  
 616643 WO Nop Singh, MTD, 02 Jan 03  
 616644 WO Shimbu Dayal Yadav, MTD, 02 Jan 03  
 616650 WO Kumaresh Mondal, MTD, 04 Jan 03  
 616656 WO Raj Kishore Sah, MTD, 04 Jan 03  
 616658 WO Tarapada Mandal, MTD, 02 Jan 03  
 616664 WO Kehar Singh, MTD, 04 Jan 03  
 616793 WO Bodh Narain Sharma, MTD, 02 Jan 03  
 616794 WO Shiva Kumar Yadav, MTD, 02 Jan 03  
 616795 WO Ram Nath Misra, MTD, 04 Jan 03  
 616796 WO Bhagwan Dix, MTD, 02 Jan 03  
 616800 WO Krishan Chander Sehrawet, MTD, 04 Jan 03  
 616802 WO Matadin Yadav, MTD, 03 Mar 03  
 616842 WO Laxmi Dhar Maharana, MTD, 03 Mar 03  
 616844 WO Suresh Pal Panwar, MTD, 03 Mar 03  
 616846 WO Yogendra Rai, MTD, 01 Feb 03  
 616849 WO Narayan Singh Rathor, MTD, 01 Feb 03  
 616850 WO Rajendra Singh Shaktawat, MTD, 05 Feb 03

616854 WO Nimba Ram Godhara, MTD, 03 Mar 03  
 616858 WO Amarendra Prasad Singh, MTD, 05 Feb 03  
 616864 WO Ram Sewak Prasad, MTD, 05 Feb 03  
 616873 WO Probhat Chandra Bora, MTD, 05 Feb 03  
 616882 WO Sasanka Sekhar Pratihar, MTD, 03 Mar 03  
 616896 WO Randhir Singh, MTD, 01 Feb 03  
 617063 WO Prakash Ninaji Kene, MTD, 03 May 03  
 617076 WO Konde Bose Babu, MTD, 03 Mar 03  
 617092 WO Hanuman Prasad Acharya, MTD, 03 May 03  
 617093 WO Kishan Lal Acharya, MTD, 03 May 03  
 617108 WO Chandra Kishore Prasad Singh, MTD, 03 May 03  
 617110 WO Kamaleswar Bora, MTD, 03 May 03  
 617124 WO Jaggan Nath Verma, MTD, 03 May 03  
 617150 WO Ananda Bhima Powar, MTD, 03 May 03  
 617163 WO Rajendra Prasad Tiwari, MTD, 03 May 03  
 617170 WO Larence, MTD, 03 May 03  
 287739 WO I Sudhakaran Nair, MUSN, 02 Apr 02  
 616505 WO Chandrabhan Vishwakarma, MUSN, 01 Feb 04  
 293112 WO Varghese Joseph, PHOTO FIT, 02 Nov 02  
 293196 WO MD Shamim Siddiqui, PHOTO FIT, 02 Aug 02  
 293383 WO Shatrughna Lall, PHOTO FIT, 02 Jul 02  
 293405 WO Joginder Singh, PHOTO FIT, 01 Jun 03  
 293695 WO Karan Singh Suhag, PHOTO FIT, 02 Sep 02  
 293773 WO Krishna Murari Dubey, PHOTO FIT, 01 Mar 03  
 293894 WO Vijaykumar Sharma, PHOTO FIT, 02 Sep 02  
 295786 WO Kishore Chand, PHOTO FIT, 02 Aug 01  
 299320 WO Jalandhar Panda, PHOTO FIT, 02 Jun 02  
 641011 WO Deolal Prasad, PHOTO FIT, 02 Nov 02  
 641041 WO Nandkishor Dattatry Wadwalkar, PHOTO FIT, 02 Oct 02  
 641330 WO Raghu Raj Singh, PHOTO FIT, 02 Jan 03  
 641344 WO Sansar Chand Sharma, PHOTO FIT, 02 Jan 03  
 641950 WO Ram Phal, PHOTO FIT, 01 Mar 03  
 296223 WO Hayat Singh Mahra, PJI, 30 May 03  
 625224 WO Chauhan Lalit Kishore, PMF (ELEC), 03 Mar 04

638141 WO Prasanna Kumar B V, PMF (ELEC), 03 Mar 04  
 653179 WO Shailendra Kumar Rai, PMF (ELEC), 03 Mar 04  
 653397 WO Sami Rao Sampath, PMF (ELEC), 03 Mar 04  
 653617 WO Vasupalle Eswara Reddy, PMF (ELEC), 03 Mar 04  
 661290 WO SK Abdul Odud, PMF (MECH), 16 Jul 03  
 666924 WO Syed Abdul Matin, PMF (MECH), 16 Jul 03  
 666932 WO Shyam Manohar, PMF (MECH), 16 Jul 03  
 667389 WO Yoginder Mehta, PMF (MECH), 16 Jul 03  
 667626 WO Subodh Kumar, PMF (MECH), 16 Jul 03  
 667649 WO Shashi Deo Pal, PMF (MECH), 16 Jul 03  
 667664 WO Pawar Jijaba Maruti, PMF (MECH), 16 Jul 03  
 616713 WO Abhi Manyu Behera, RAD FIT, 28 Jun 04  
 618316 WO Srikant Mukherjee, RAD FIT, 28 Jun 04  
 619842 WO Joyanta Saha, RAD FIT, 30 Jun 04  
 619918 WO Surendra Roy, RAD FIT, 30 Jun 04  
 620368 WO Shao Mangal Prasad, RAD FIT, 30 Jun 04  
 620537 WO Subhash Chand Mittal, RAD FIT, 30 Jun 04  
 620763 WO Sukhdeep Singh, RAD FIT, 30 Jun 04  
 620883 WO Kumar Anil Chandra, RAD FIT, 30 Jun 04  
 621996 WO Mrinmay Sinha, RAD FIT, 30 Jun 04  
 623097 WO Ashokumar Mantakara Thankappan, RAD FIT, 02 Jul 04  
 623524 WO Anil Kumar Singh, RAD FIT, 02 Jul 04  
 623763 WO Ramsewak Singh, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624463 WO Shyam Vilas, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624464 WO Anil Kumar Misra, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624480 WO Virendra Pratap Singh, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624482 WO Dewta Prasad Verma, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624540 WO Satendra Singh Sidhu, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624584 WO Subhash Murlidhar Funde, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624598 WO Chavan Ajinath Gulab, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624847 WO Hari Shankar Pandey, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624848 WO Rajkumar Singh Jaiswal, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624856 WO Rajendra Sah, RAD FIT, 02 Jul 04  
 624953 WO Shri Prakash Pandey, RAD FIT, 02 Jul 04

- 625038 WO Karamvir Tanwar, RAD FIT, 02 Jul 04
- 625101 WO Arun Kumar, RAD FIT, 02 Jul 04
- 625104 WO Gangeshwar Misra, RAD FIT, 02 Jul 04
- 625244 WO MD Nayyar Azam, RAD FIT, 02 Jul 04
- 625323 WO Surendra Prasad Dixit, RAD FIT, 02 Jul 04
- 625333 WO Rajendra Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 625614 WO Avtar Singh Dehal, RAD FIT, 02 Jul 04
- 636262 WO Ram Dular Kushawaha, RAD FIT, 02 Jul 04
- 636364 WO Jawahar Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 636895 WO Bal Vidya Dhar Mishra, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637126 WO Joy Kollanur Lazar, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637374 WO Subhash Chandra Pandey, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637483 WO Faiyaz Hussain, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637498 WO Pramod Kumar Tyagi, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637684 WO Ganesh Prasad Senapati, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637728 WO Ram Bahadur Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637771 WO Paripurna Nand Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637881 WO Sohanlal Mahala, RAD FIT, 02 Jul 04
- 637923 WO Omvir Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638011 WO Nrusingh Pradhan, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638058 WO Swarnkar, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638059 WO Ram Milan, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638068 WO Tarkeshwar Tiwari, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638071 WO Vijai Pal Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638073 WO Ashok Kumar Awasthi, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638113 WO Pabitra Kumar Mitra, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638133 WO Provash Chandra Bairagi, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638233 WO Sunil Kumar Yadav, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638299 WO Chandra Bhanu Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638327 WO Chougule Shivaji Prabhu, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638435 WO Niranjana Tripathy, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638481 WO Rajan Ji Srivastava, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638493 WO Ashok Kumar Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638501 WO Ramlakshman Kumar, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638502 WO Jogesh Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638514 WO Subramaniyan Tirunilaye Seshan, RAD FIT, 02 Jul 04
- 638634 WO Suthar Shyam Lal, RAD FIT, 02 Jul 04
- 651265 WO Joseph Daniel Raj, RAD FIT, 30 Jun 04
- 651329 WO Kalyan Roy Choudhery, RAD FIT, 30 Jun 04
- 651574 WO Ramendra Pal, RAD FIT, 30 Jun 04
- 652004 WO Dhruv Narayan Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652097 WO Rajendra Prasad Yadava, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652543 WO Ram Chandra Shukla, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652640 WO Yadav Tejpal, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652702 WO Ratnala Eswara Rao, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652804 WO Mustafa Khan, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652806 WO Ram Darash Yadav, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652821 WO Om Vir Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652894 WO Ramesh Kumar Sihmar, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652930 WO Umashankar Lal, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652965 WO Bagave Mahadeo Gundu, RAD FIT, 02 Jul 04
- 652983 WO Sitaram Dash, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653064 WO Vijai Narain Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653089 WO Mishri Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653201 WO Ajit Kumar Chawdhury, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653223 WO Mohinder Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653296 WO Sada Nand Singh Kushwaha, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653327 WO Radharaman Tirpathi, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653341 WO Surendra Pal, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653347 WO Manjeet Singh Rana, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653355 WO Narender Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653425 WO Saini Chandra Bhan, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653455 WO Sanjay Kumar, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653510 WO Amar Pal, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653511 WO Shashi Kant Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653517 WO Inder Pal Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653540 WO Rajan Bhaskaran, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653583 WO Nai Chunni Lal Jhinnoo, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653595 WO Umesh Chandra Jena, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653642 WO Kamlesh Upadhyay, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653701 WO Karm Bir Singh, RAD FIT, 02 Jul 04
- 653784 WO Rajender Parsad, RAD FIT, 02 Jul 04
- 601175 WO Bijendra Singh, RDO FIT, 03 May 03

- 601256 WO Rajendra Prasad, RDO FIT, 08 Jan 03
- 601361 WO Bikash Chandra Chakrabarty, RDO FIT, 04 Jul 02
- 601385 WO Ramesh Chandra Mangaraj, RDO FIT, 04 Feb 02
- 602192 WO Bhuneswer Prasad Singh, RDO FIT, 08 Jan 03
- 602245 WO Chandra Kumar Das, RDO FIT, 01 May 02
- 602489 WO Rajan P K, RDO FIT, 05 Feb 03
- 602800 WO Satyendra Kumar Das, RDO FIT, 02 Jul 02
- 603513 WO Hari Shanker Gupta, RDO FIT, 05 Feb 03
- 604372 WO Robin Kumar Paul, RDO FIT, 01 May 02
- 604385 WO Lachhman Dass, RDO FIT, 02 Jul 02
- 604413 WO Vijay Kumar Shoraya, RDO FIT, 05 Feb 03
- 604420 WO Chandra Mohan Singh, RDO FIT, 02 Jul 02
- 604585 WO Sherbahadur Singh, RDO FIT, 05 Feb 03
- 604657 WO Mahesh Singh Rajput, RDO FIT, 01 May 02
- 604933 WO Baneswan Sharma, RDO FIT, 08 Jan 03
- 604983 WO Bhaskaran K, RDO FIT, 08 Jan 03
- 631015 WO Gian Singh, RDO FIT, 08 Jan 03
- 631039 WO Rajesh Kumar Chaturvedi, RDO FIT, 08 Jan 03
- 631040 WO Rajendra Prasad, RDO FIT, 05 Feb 03
- 631068 WO Mangta, RDO FIT, 05 Feb 03
- 631116 WO Ram Lal Jat, RDO FIT, 05 Feb 03
- 631182 WO S Mal Arulraj Jawahar, RDO FIT, 08 Jan 03
- 631247 WO Tarif Singh Babervall, RDO FIT, 05 Feb 03
- 631313 WO Sattar Mohammad, RDO FIT, 05 Feb 01
- 631519 WO Baitullah Khan, RDO FIT, 01 May 01
- 631520 WO Ram Autar Yadav, RDO FIT, 01 May 01
- 631525 WO Krishna Kant Yadav, RDO FIT, 08 Jan 03
- 631580 WO Ranvir Singh, RDO FIT, 05 Feb 03
- 631615 WO Raj Kumar Singh, RDO FIT, 02 Jul 02
- 631760 WO Mina Ketan Pati, RDO FIT, 08 Jan 03
- 631804 WO Birender Kumar Sharma, RDO FIT, 02 Sep 02
- 631983 WO Shaik Khadar Masthan, RDO FIT, 02 Sep 02
- 631994 WO Chandra Shekhar Sharma, RDO FIT, 02 Jan 02
- 632005 WO Sudarshan Kumar Ghosh, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632030 WO Ramesh Singh Chauhan, RDO FIT, 05 Feb 03
- 632175 WO Krishna Nand Singh, RDO FIT, 05 Feb 03
- 632189 WO Ramji Prasad, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632226 WO Mohammad Yaseen, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632232 WO Rajendra Prasad Shukla, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632238 WO Bhagwan Prasad, RDO FIT, 05 Feb 03
- 632372 WO Pradeep Kumar Sharma, RDO FIT, 05 Feb 03
- 632427 WO Bedar Yadav, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632589 WO Uday Prasad Gupta, RDO FIT, 08 Jan 03
- 632658 WO Ganga Sagar Prasad, RDO FIT, 04 Jan 02
- 632743 WO Madan Kumar Awasthi, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632772 WO Vinod Kumar Verma, RDO FIT, 03 May 03
- 632783 WO Madhukar Maroti Ambade, RDO FIT, 04 Jul 02
- 632796 WO Kamleshwar Prasad Lall, RDO FIT, 02 Apr 02
- 632797 WO Shiva Nath Choudhary, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632801 WO Parma Nand Prasad, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632803 WO Puranjay Kumar, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632804 WO Ram Prawesh Singh, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632906 WO Kishan Lal Saharan, RDO FIT, 02 Jul 02
- 632917 WO Raghuveer, RDO FIT, 02 Apr 02
- 632930 WO Dharam Pal Singh, RDO FIT, 04 Feb 02
- 632950 WO Arvind Kumar, RDO FIT, 05 Feb 03
- 632979 WO Mahavir Singh, RDO FIT, 02 Apr 02
- 632986 WO Harpal Singh Panwar, RDO FIT, 02 Apr 02
- 632997 WO Devendra Giri, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633030 WO Ramashray Prasad, RDO FIT, 02 Jul 02
- 633062 WO Murugesu Pillai Selvaraj, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633069 WO Kittappa Ramesh Kumar, RDO FIT, 04 Jul 02
- 633110 WO Sumer Singh, RDO FIT, 05 Feb 03
- 633229 WO Swapn Kumar Sarkar, RDO FIT, 02 Jul 02
- 633250 WO Rama Shankar Gupta, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633254 WO Ram Bhawan Singh, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633257 WO Kedar Ram, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633278 WO Janeshver Prasad Tomar, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633279 WO Rishi Kumar Tangar, RDO FIT, 05 Feb 03
- 633294 WO Chhabinath Singh Yadav, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633304 WO Jaipal Singh Bhadyan, RDO FIT, 02 Sep 02

- 633349 WO Ram Niwas Gupta, RDO FIT, 04 Apr 02
- 633417 WO M K Subrahmanyam, RDO FIT, 04 Jul 02
- 633448 WO Krishna Prakash, RDO FIT, 04 Apr 02
- 633451 WO Parmanand Choudhary, RDO FIT, 02 Sep 02
- 633452 WO Suresh Kumar, RDO FIT, 04 Apr 02
- 633471 WO Narayan Ram, RDO FIT, 05 Feb 03
- 633488 WO Sukhdev Kumar Rayzada, RDO FIT, 02 Apr 02
- 633522 WO Rajendra Singh, RDO FIT, 01 May 02
- 633557 WO Ajit Singh Sindhu, RDO FIT, 03 May 03
- 633566 WO Charan Singh Yadav, RDO FIT, 01 May 02
- 633637 WO Raghaba Sangrama Singh, RDO FIT, 02 Sep 02
- 633679 WO Nirmal Chandra Saha, RDO FIT, 08 Jan 03
- 633697 WO Birendra Kumar Sharma, RDO FIT, 03 May 03
- 633699 WO Mohan Lal Gulati, RDO FIT, 02 Sep 02
- 633801 WO Satnam Singh, RDO FIT, 02 Sep 02
- 633839 WO Sangivi Narayana, RDO FIT, 01 May 02
- 633843 WO Pranab Kumar Nag, RDO FIT, 01 May 02
- 633845 WO Sakeri Narayana Murty, RDO FIT, 02 Sep 02
- 633855 WO Virendra Prakash Sharma, RDO FIT, 08 Jan 03
- 633928 WO Sarata Kumar Pradhan, RDO FIT, 03 May 03
- 633942 WO Hari Om, RDO FIT, 08 Jan 03
- 633976 WO Bishwanath Singh, RDO FIT, 02 Sep 02
- 634107 WO Raj Kishor Singh, RDO FIT, 03 May 03
- 634113 WO Satyendra Singh, RDO FIT, 08 Jan 03
- 634116 WO Ram Kumar Singh Panwar, RDO FIT, 08 Jan 03
- 634126 WO Hari Krishna Gupta, RDO FIT, 02 Sep 02
- 634134 WO Dilip Kumar Deka, RDO FIT, 03 May 03
- 634156 WO Amar Nath Tewari, RDO FIT, 08 Jan 03
- 634157 WO Jagat Ram, RDO FIT, 08 Jan 03
- 634161 WO Yugul Kishor, RDO FIT, 03 May 03
- 634287 WO Ram Pravesh Singh, RDO FIT, 08 Jan 03
- 634316 WO Dhurva Singh Kushwaha, RDO FIT, 08 Jan 03
- 634393 WO Satyapal Singh Sharma, RDO FIT, 02 Sep 02
- 634394 WO Pujari Muralidhara, RDO FIT, 03 May 03
- 634415 WO Tarkeshwar Mishra, RDO FIT, 02 Sep 02
- 634431 WO Abhaya Prakash Misra, RDO FIT, 08n Jan 03
- 634441 WO Bhola Nath Prasad, RDO FIT, 08 Jan 03
- 634593 WO Chanchal Kumar Singh, RDO FIT, 03 May 03
- 634669 WO Vijay Kumar Sharma, RDO FIT, 03 May 03
- 634751 WO Hari Nath Ram, RDO FIT, 03 May 03
- 634757 WO Gupta Ramesh Chandra, RDO FIT, 03 May 03
- 634775 WO Madan Singh Bharat, RDO FIT, 03 May 03
- 634853 WO Bhanwar Lal Jyani, RDO FIT, 03 May 03
- 650856 WO Aniya Kumar Panigrahi, RDO FIT, 03 May 03
- 650959 WO Satish Chandra Dhyani, RDO FIT, 03 May 03
- 290582 WO Ram Lal Carpenter, RDO TECH, 02 May 02
- 600620 WO Karingali Divakaran, RDO TECH, 02 May 02
- 601961 WO Charan Singh Verma, RDO TECH, 02 Nov 02
- 604362 WO Jagdish Chandra Ojha, RDO TECH, 01 Nov 01
- 631228 WO Man Mohan Singh, RDO TECH, 01 Jul 01
- 631507 WO Jitendra Nath Singh, RDO TECH, 02 Nov 02
- 631566 WO Om Prakash Sharma, RDO TECH, 01 Nov 01
- 631730 WO Shatrughna Ram, RDO TECH, 02 Nov 02
- 634943 WO Ram Lochan Prasad, RDO TECH, 02 Nov 02
- 632045 WO Anjan Kumar Chaudhuri, RDO TECH, 01 Jul 01
- 632167 WO Bharat Dubey, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632169 WO Dinesh Prasad Shrivastava, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632170 WO Raj Nath Roy, RDO TECH, 02 Nov 02
- 632299 WO Ram Chandra Sharma, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632354 WO Keshawa Prasad Singh, RDO TECH, 02 Nov 02
- 632358 WO Lalan Chaturbedy, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632414 WO Bhrigu Nath Sharma, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632434 WO Vijay Kumar Singh Pundir, RDO TECH, 02 Nov 02

- 632513 WO Mohan Singh, RDO TECH, 04 Jan 01
- 632543 WO Dibakar Nayak, RDO TECH, 04 Nov 02
- 632569 WO Ompal Singh Punder, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632585 WO Maheshwar Prasad Verma, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632759 WO Sat Bhagwan Dahiya, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632795 WO Jag Narain Singh, RDO TECH, 02 Jun 01
- 632952 WO Uday Bhan Singh, RDO TECH, 01 Nov 01
- 632985 WO Kanwar Pal, RDO TECH, 02 Jun 01
- 633022 WO Yogendra Singh, RDO TECH, 02 Dec 02
- 633031 WO Shatrughna Singh, RDO TECH, 02 Dec 02
- 633100 WO Vijay Prasad Gupta, RDO TECH, 02 Dec 01
- 633111 WO Sachida Nand Dubey, RDO TECH, 03 Feb 02
- 633113 WO Shiv Pujan Prasad, RDO TECH, 03 Nov 2001
- 633125 WO Surendra Prasad, RDO TECH, 02 Dec 2002
- 633185 WO Narendra Singh, RDO TECH, 03 Feb 2002
- 633187 WO Gajendra Singh, RDO TECH, 03 Feb 2002
- 633192 WO Rajinder Kumar Jaura, RDO TECH, 03 Feb 2002
- 633289 WO Ram Chandra Prasad, RDO TECH, 03 Feb 2002
- 633388 WO D Egnesuwar Rao Duna, RDO TECH, 02 Dec 2002
- 633393 WO Surinder Singh Gill, RDO TECH, 03 Feb 2002
- 633433 WO Vikram Singh Verma, RDO TECH, 02 May 2002
- 633437 WO Shiv Kumar Sharma, RDO TECH, 02 May 2002
- 633441 WO Virendra Singh, RDO TECH, 03 Feb 2002
- 633432 WO Suresh Singh, RDO TECH, 02 May 2002
- 633608 WO Shankar Mukherjee, RDO TECH, 02 May 2002
- 633646 WO Mahesh Ram, RDO TECH, 02 May 2002
- 633669 WO Ajeet Singh, RDO TECH, 02 Nov 2002
- 633819 WO Suresh Ray, RDO TECH, 02 May 2002
- 291927 WO M Veera Chandran, SEW, 02 Nov 2002
- 292006 WO Atma Ram Gossain, SEW, 02 Sep 2002
- 292143 WO Ram Deo Singh, SEW, 02 Sep 2002
- 292258 WO Prabhakaran Alikkal Parambil K, SEW, 02 Aug 2002
- 292285 WO Baboo Lal Bhargava, SEW, 02 Aug 2002
- 292286 WO Tej Bhadur Singh, SEW, 02 Aug 2002
- 292378 WO Balbir Singh Khokhar, SEW, 02 Aug 2002
- 292517 WO Udaram Kumawat, SEW, 02 Nov 2002
- 292567 WO Kali Ram, SEW, 04 Dec 2002
- 292602 WO Surendra Prasad Mishra, SEW, 02 Nov 2002
- 292888 WO Abdul Shakoor Khan Kayamkhani, SEW, 04 Dec 2002
- 292965 WO V Seshagiri Rao, SEW, 02 Feb 2003
- 293000 WO Vakkala Gadda Bhavanarayana, SEW, 02 Feb 2003
- 293070 WO Karnail Singh, SEW, 02 Mar 2003
- 293141 WO B Ramachandran, SEW, 02 May 2003
- 601115 WO Raj Guru Roy, TELST RTO, 02 Dec 2001
- 601492 WO Ram Krishan, TELST RTO, 02 Feb 2002
- 602143 WO Ram Bahadur Ray, TELST RTO, 02 Oct 2002
- 602145 WO R. Ayyappan, TELST RTO, 02 Oct 2002
- 602157 WO Om Prakash Sakholia, TELST RTO, 02 Oct 2002
- 602162 WO Ved Raj, TELST RTO, 02 Nov 2002
- 602165 WO Sapan Mukherjee, TELST RTO, 02 Nov 2002
- 602167 WO Om Narayan Shukla, TELST RTO, 02 Nov 2002
- 602176 WO Chandra Bhushan Giri, TELST RTO, 02 Nov 2002
- 602377 WO Pabitra Pradhan, TELST RTO, 02 Dec 2002
- 602379 WO Sanyasi Pradhan, TELST RTO, 02 Dec 2002
- 602402 WO Rajinder Singh, TELST RTO, 03 Jan 2003
- 602423 WO Manoranjan Roy, TELST RTO, 02 Dec 2002
- 602437 WO Chandra Kurup CPVRK, TELST RTO, 03 Jan 2003
- 602446 WO Gurbachan Singh Pelia, TELST RTO, 03 Jan 2003
- 602452 WO Ravindra Singh Baghel, TELST RTO, 15 Jul 2003
- 602464 WO Awadhesh Prasad, TELST RTO, 03 Jan 2003
- 602711 WO Gandhi Ram Guleria, TELST RTO, 03 Jan 2003
- 602713 WO Kanwal Singh, TELST RTO, 03 Feb 2003
- 602715 WO Suraj Mal, TELST RTO, 03 Feb 2003
- 602731 WO Shyamal Chakraborty, TELST RTO, 02 Apr 2003



602740 WO Sudhakar Prakash Awasthi, TELST RTO, 02 Mar 2003

602744 WO Narendra Kumar Pandey, TELST RTO, 03 Feb 2003

602945 WO Ranvir Singh, TELST RTO, 03 May 2003

602953 WO Suwalal Gujer, TELST RTO, 03 Jun 2003

602959 WO Ved Perkash Dalal, TELST RTO, 03 May 2003

602960 WO Azab Singh, TELST RTO, 03 May 2003

602968 WO C Athmacharan, TELST RTO, 03 Jun 2003

291155 WO Chhanga Singh, WPN FIT, 02 Nov 2002

291501 WO Saroj Dutta, WPN FIT, 03 Feb 2003

291867 WO Kalathil Govindan Achari Soman, WPN FIT, 01 May 2002

291931 WO Shatrughna Pandit, WPN FIT, 02 Jan 2003

292095 WO Horendra Nath Borah, WPN FIT, 01 Mar 2003

292266 WO Basheer Ahmad, WPN FIT, 02 Nov 2001

292324 WO Aganoo Ram, WPN FIT, 02 Jan 2003

292357 WO Kanak Kumar Chaudhuri, WPN FIT, 07 Aug 2002

292403 WO Balwant Singh, WPN FIT, 04 Jul 2002

292778 WO Rajendra Upadhyay, WPN FIT, 04 Jul 2002

292802 WO Ashok Chander Sharma, WPN FIT, 04 Jul 2002

292891 WO Harbhajan Singh Preet, WPN FIT, 02 Jan 2003

293034 WO Singh Gajendra Bahadur Harilal, WPN FIT, 02 Nov 2002

293191 WO Radhe Shyam Singh, WPN FIT, 04 Jul 2002

293244 WO Ram Sagar Gupta, WPN FIT, 05 Jul 2001

293287 WO Jagdish Prasad, WPN FIT, 04 Jul 2002

293464 WO Balmiki Charan Sahu, WPN FIT, 01 Nov 2003

293493 WO Nagesh Kumar Singh, WPN FIT, 04 Jul 2002

293502 WO Shambhu Prasad, WPN FIT, 05 Jul 2001

293515 WO Robin Chakravorty, WPN FIT, 02 Nov 2002

293553 WO Damodar Pandey, WPN FIT, 03 Jul 2001

293566 WO Jogindra Nath Jena, WPN FIT, 02 Nov 2001

293568 WO Somanath Dash, WPN FIT, 02 Nov 2002

293599 WO Bhupinder Singh Parmar, WPN FIT, 05 Jul 2001

293600 WO Mohabbat Singh Bhati, WPN FIT, 05 Jul 2001

293662 WO Harjit Singh, WPN FIT, 01 Nov 2003

293742 WO Tapan Kumar Bhattacharya, WPN FIT, 05 Jul 2001

293755 WO Dinesh Chandra Tripathi, WPN FIT, 02 Nov 2002

293756 WO Rajesh Dixit, WPN FIT, 07 Feb 2003

293874 WO Kuldip Singh Bhatti, WPN FIT, 02 Nov 2002

293889 WO Vargheese PT, WPN FIT, 02 Nov 2001

296831 WO Amrit Lal Chowhan, WPN FIT, 02 Nov 2002

611129 WO Subhash Chandra Shukla, WPN FIT, 03 Jun 2003

611226 WO Suresh Chander Sharma, WPN FIT, 07 Aug 2002

641248 WO Shiva Shanmugam, WPN FIT, 01 Nov 2003

641316 WO Tej Singh Chahar, WPN FIT, 01 May 2002

641347 WO Hira Ballabh Bhatt, WPN FIT, 01 May 2002

641504 WO Shankar Saran Roy, WPN FIT, 01 Nov 2003

641534 WO Lakshmi Prasad Mohanty, WPN FIT, 01 May 2002

641634 WO Jagtar Singh WPN FIT, 01 May 2002

641636 WO Nirmal Kumar Maharaj, WPN FIT, 07 Feb 2003

641687 WO Bansh Ram Chauhan, WPN FIT, 01 May 2002

641688 WO Samiullah Ansari, WPN FIT, 04 Jul 2002

641690 WO Bhushan Giri, WPN FIT, 01 May 2002

641698 WO Harpal Singh, WPN FIT, 01 Nov 2003

641784 WO Sheo Nath Singh, WPN FIT, 04 Jul 2002

641797 WO Sailen Kumar Roy, WPN FIT, 02 Nov 2002

641868 WO Jai Prakash Modi, WPN FIT, 04 Jul 2002

641869 WO Birendra Kumar Singh, WPN FIT, 01 May 2002

641870 WO Kedar Prasad, WPN FIT, 01 May 2002

641926 WO Ram Pyare Ram, WPN FIT, 01 May 2002

641954 WO Zamir Ahamad, WPN FIT, 04 Jul 2002

641958 WO Sheo Gulam Gupta, WPN FIT, 04 Jul 2002

641950 WO Ram Prakash Verma, WPN FIT, 01 May 2002

641961 WO Haribabu Dwivedi, WPN FIT, 07 Aug 2002

642019 WO Ram Singh, WPN FIT, 07 Aug 2002

642113 WO Dina Nath Yadav, WPN FIT, 07 Aug 2002

642153 WO Bhagwana Ram Bajia, WPN FIT, 07 Aug 2002

642255 WO Ganesh Singh Rathore, WPN FIT, 07 Aug 2002

642261 WO Jai prakash Singh, WPN FIT, 07 Aug 2002

642298 WO Soberan Singh, WPN FIT, 01 Mar 2003



- 642435 WO Roshan Lal, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642444 WO Rambir, WPN FIT, 02 Jan 2003  
642455 WO Bhoop Singh Rana, WPN FIT, 02 Jan 2003  
642470 WO MD Ekbal Ahmad, WPN FIT, 02 Jan 2003  
642471 WO Bijay Shankar Rai, WPN FIT, 05 Feb 2003  
642533 WO Dhara Singh, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642546 WO Iqbal Bahadur Singh, WPN FIT, 02 Jan 2003  
642631 WO Balwinder Singh, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642747 WO Mangal Singh, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642868 WO Rajeev Kumar Sharma, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642869 WO Sabha Raj, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642921 WO Labh Singh Deswal, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642936 WO Mathews Manoah, WPN FIT, 02 Jan 2003  
642939 WO Saty Vir Singh, WPN FIT, 02 Jan 2003  
642942 WO Gurdev Singh, WPN FIT, 03 Feb 2003  
642944 WO Harbhajan Singh, WPN FIT, 02 Jan 2003  
642956 WO S Sivaraman, WPN FIT, 07 Feb 2003  
642983 WO Gaya Prasad, WPN FIT, 03 Jun 2003  
642985 WO Ram Subhag Chauhan Chauhan, WPN FIT, 07 Feb 2003  
643254 WO Pramod Kumar, WPN FIT, 01 Mar 2003  
643258 WO MD Matiullah, WPN FIT, 03 Mar 2003  
643266 WO Ravi Kant Sharma, WPN FIT, 01 Mar 2003  
643282 WO Velayaudham Mohan, WPN FIT, 03 Mar 2003  
643287 WO Ramanuj Mishra, WPN FIT, 03 Jun 2003  
643291 WO Lallan pandey, WPN FIT, 01 Mar 2003  
643662 WO Nareswar Kalita, WPN FIT, 05 Apr 2003  
643663 WO Pran Hari Baishya, WPN FIT, 03 Jun 2003  
643702 WO Gopal Prasad, WPN FIT, 05 Apr 2003  
643722 WO Jai Bhagwan Singh Yadav, WPN FIT, 05 Apr 2003  
643724 WO Tarlok Singh, WPN FIT, 05 Apr 2003  
643725 WO Sarjit Singh, WPN FIT, 03 Mar 2003  
643731 WO Sawaran Singh, WPN FIT, 03 Jun 2003  
644089 WO Lal Bahadur Maurya, WPN FIT, 05 Apr 2003  
644095 WO Gurmail Singh Kataria, WPN FIT, 03 Jun 2003  
644099 WO Ramphal Singh Dalal, WPN FIT, 05 Apr 2003  
644120 WO Shekhar Kanti Ghosh, WPN FIT, 03 Jun 2003  
644151 WO Gurnam Singh, WPN FIT, 03 Jun 2003  
644159 WO Kailash Pati Pandey, WPN FIT, 03 Jun 2003  
644543 WO Shiv Naraian, WPN FIT, 05 Jun 2003  
644546 WO Surendra Kumar Murudi, WPN FIT, 16 Jul 2003  
644551 WO Duraga Prasad Sharma, WPN FIT, 16 Jul 2003  
644573 WO Shri Ram, WPN FIT, 16 Jul 2003  
644584 WO Kedari Lal Sharma, WPN FIT, 01 Nov 2003  
644939 WO Ram Prashad Singh Dhouchak, WPN FIT, 16 Jul 2003  
644963 WO Banamali Sahu, WPN FIT, 01 Nov 2003  
657214 WO Ramphal Singh, WPN FIT, 16 Jul 2003  
657260 WO Karuppan Arumugam, WPN FIT, 01 Nov 2003  
657264 WO Baldev Singh, WPN FIT, 16 Jul 2003  
657272 WO Puran Singh Atri, WPN FIT, 02 Jul 2002  
283283 WO Prem Chand Dhiman, WS FIT(B), 02 Oct 2001  
291740 WO Sone Lal Dohare, WS FIT(B), 02 Dec 2001  
291807 WO Ramyash Pandey, WS FIT (B), 02 Dec 2001  
292156 WO Mohammad Shaheer, WS FIT(B), 02 Apr 2002  
292368 WO Inder Singh, WS FIT(B), 01 Nov 2002  
292390 WO Shiva Ram, WS FIT (B), 01 Nov 2002  
292418 WO Ram Sagar Bhakta, WS FIT(B), 02 Jul 2002  
283437 WO Sreedharan Namboory PK, WS FIT(C), 05 Oct 2003  
292428 WO Bharath Yadav, WS FIT(C) 01 Dec 2002  
292444 WO Rajvir Singh Dhaka, WS FIT(C), 05 Jan 2003  
292477 WO Yogendra Prasad, WS FIT(C), 04 Jun 2003  
292613 WO Harasit Bagchi, WS FIT(C), 03 Oct 2003  
292614 WO Anjan Kumar Biswas WS FIT(C) 01 Mar 2003  
642055 WO Dular Chand Manjhi, WS FIT (M), 02 Aug 2001  
642295 WO Prem Singh Negi, WS FIT (M), 02 Oct 2001  
642475, WO Krishna Deo Prasad, WS FIT(M), 02 Dec 2001

642587 WO Tek Ram, WS FIT(M), 02 Oct 2001  
 643644 WO Thulaseedhara Pillai T, WS FIT(M), 02 Feb 2002  
 643645 WO Mahavir Singh, WS FIT(M), 02 Feb 2002  
 644057 WO Ranvir Singh Hooda, WS FIT(M), 02 Feb 2002  
 644059 WO Dibakar Mohapatra, WS FIT(M), 02 Apr 2002  
 644511 WO Mechery Chakkappan Ouseph, WS FIT(M), 02 Apr 2002  
 657183 WO Satish Kumar Rana, WS FIT(M), 02 Jun 2002  
 657184 WO Jaharul Islam, WS FIT(M), 02 Aug 2002  
 657186 WO Baleshiwar Singh Pundir, WS FIT(M), 02 Jul 2002  
 657192 WO Ashok Kumar Dhiman, WS FIT(M), 02 Jul 2002  
 242388 WO AK Banerjee, ACH GD, 02 Oct 2001  
 294486 WO R Pandey, ACH GD, 02 Oct 2001  
 299800 WO Sasidharan Damodaran, ACH GD, 13 Oct 2003  
 644673 WO Om Tripathi, AF FIT, 05 Dec 2001  
 657090 WO L Singh, AF FIT, 05 Dec 2001  
 657092 WO Sugriva, AF FIT, 05 Dec 2001  
 631630 WO Saghir Ahmad, AFSO, 03 Jul 2003  
 274635 WO Prem Prakash Sharma, CAT ASST, 02 Aug 2001  
 299398 WO Ram Nagina Singh, CAT ASST, 04 Oct 2003  
 299865 WO R Prasad, CAT ASST, 01 Oct 2002  
 289143 WO Bijoy Kumar Pandey, CLK GD, 01 Feb 2003  
 294527 WO P Tension, CLK GD, 02 Jul 2001  
 294560 WO N Singh, CLK GD, 02 Jul 2001  
 294586 WO Sachida Nand Bharati, CLK GD, 02 Jul 2001  
 294691 WO Shekhawat, CLK GD, 03 Aug 2001  
 295246 WO RP Tiwari, CLK GD, 09 Dec 2001  
 297427 WO Sri Pal Yadav, CLK GD, 02 Jan 2003  
 700924 WO Kuttappan Balachandran, ED INST, 16 Jul 2003  
 294569 WO Nagabhushanam, ELECT FIT, 04 Jan 2001  
 606249 WO Balkrishan, ELECT FIT, 02 Mar 2001

606260 WO KS Parihar, ELECT FIT, 02 Mar 2001  
 608515 WO MK Singh, ELECT FIT, 04 Jan 2001  
 271433 WO RB Roy, ENG FIT, 02 Jun 2002  
 282933 WO SA Khan, ENG FIT, 02 Jul 2001  
 643865 WO TV Joseph, ENG FIT, 03 Dec 2001  
 299635 WO Alekha Prasad Hota EQPT ASST, 02 Dec 2002  
 299927 WO Manoranjan Barman, EQPT ASST, 02 Dec 2002  
 657272 WO PS Atri, FLT GUN, 02 Jul 2002  
 242319 WO BA Swamy, MED ASST, 02 Jun 2002  
 285727 WO Jitendra Nath Barman, MTD 02 Sep 2002  
 270516 WO B Sharma, PHOTO FIT, 02 Apr 2002  
 271904 WO SB Yadav, PHOTO FIT, 02 Oct 2001  
 291003 WO Rameshray Bhakta, PHOTO FIT, 02 Oct 2001  
 291964 WO PK Ranjan, PHOTO FIT, 02 Apr 2002  
 600399 WO Ram Kanchan Shukla, RDO FIT, 03 May 2001  
 282819 WO SK Singh, WPN FIT, 05 Jul 2001  
 293888 WO A Gulha, WPN FIT, 02 Nov 2001  
 641201 WO Patil SV, WPN FIT, 01 Jan 2002  
 283196 WO CK Gaur, WS FIT(B), 02 Oct 2001  
 Total: 1713 (One Thousand Seven Hundred Thirteen) names only

GURDIAL SINGH, Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 363, dated 27 June 2005.—The President is pleased to permit the under mentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 04 Aug 2000 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

P.R. Roy (MS-13527N), (MR-07517N) AMC, 08.11.1997 with seniority for pay and promotion w.e.f. 08.05.1997. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 16.06.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the under mentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 21.01.2004 and to grant him/her

permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

(Miss) Preeti (MS-14242N) (MR-08095A) AMC 09.04.2001 with seniority for pay and promotion w.e.f. 09.10.2000. [This includes 06 months antedate for Hospital Appointment, which will count for pension not for gratuity] (MoD) Notification published in the Gazette of India date 04.01.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Lt. Vishal Puri (MS-14129Y) (MR-08092M), AMC-18.01.2001. (ON completion of Intership Training promoted to the rank of CAPT. w.e.f. 19/06/2001). (MoD) Notification published in the Gazette of India dated 29 Jun 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Kulkarni Mahesh Krishna (MS-14244Y) (MR-08094X), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 30.05.2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04.01.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ankur Ahuja (MS-14115Y) (MR-08093P), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 01.01.2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 27.08.2004 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Macharla Bikshapathy (MS-13703A) (MR-08102L), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 11.10.1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 08.09.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

SHIV KUMAR SHARMA  
Brig. Dy. DGAFMS(P)

(ARMY BRANCH)

No. 364, dated 29 June 2005.—The President is pleased to permit the undermentioned AD Coprs officer to retire from Army services on attaining the age of superannuation:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

RETIREMENT

DR-10237L, Surg Cmde JB Singh, 31 Mar 2005(AN)

RC DHIR Lt. Gen DUDS

ARMED FORCE FILM AND PHOTO DIVISION

No. 365, dated 23 June 2005—The President is pleased to retire Shri S.K. Sharma, Director, AFFPD on attaining the age of superannuation with effect from 30th April 2005 (A/N) and transfer to pension establishment with effect from 01 May 2005 (FN).

DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE ESTATES

The President is pleased to retire Shri Lakhan Lall, Asst Director (OL), DGDE on attaining the age of superannuation with effect from 31st May 2005 (A/N) and transfer to Pension establishment with effect from 1st June 2005 (F/N).

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Admn. Officer (A)

No. 366 dated 24 June 2005.—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform.

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Capt RK Saini (TA-42141), Inf. 31 Jan 2005

B.K. MALHOTRA, Under Secy.